

# राजसिंह

॥ उच्चकोटि का मौलिक ऐतिहासिक नाटक

लेखक—

आचार्य चतुरसेन

प्रकाशक—

गौतम बुक डिपो, देहली ।

द्वितीय संस्करण

सन् १९४८

मूल्य २०

प्रकाशक—  
गौतम बुक डिपो,  
नई सड़क, देहली।

[इस नाटक को अनुवाद करने, खेलने और फिल्म बनाने के समर्त  
अधिकार प्रकाशक के सुरक्षित हैं, अतः विना प्रकाशक की आज्ञा कोई इस  
नाटक के किसी अश और भाव का किसी प्रकार भी उपयोग न करें]

द्वितीय संस्करण

११४६

मुद्रक—  
इंडसाइट प्रेस देहली

# नाटक के पात्र

## पुरुष पात्र

राजसिंह—उदयपुर का राजा

जयसिंह  
भीमसिंह } —राणा के कुँवर

रावत रघुनाथसिंह

,, मेषसिंह

,, केसरीसिंह

,, जसराज -

,, भावसिंह

राठौर जोधसिंह .

महाराज मनोदरसिंह

,, दलसिंह

,, अरिलिंग

झाला चन्द्रसेन

} —राणा के सखारण

दुर्गादास राठौर  
सौनक

} —जोधपुर के राजा के सखारण

फतहसिंह—राणा का दीवान

अनन्तमिश—रूपनगर का आद्धारा

गुरुबदास—राणा का पुरोहित

कंपसिंह  
रामसिंह.  
विक्रमसिंह

} —रूपनगर के राजा

[ २ ]

ओरेंजे—दिल्ली का बादशाह

अकबर  
मुग्धज्ञम् —शाहजादे

इकाताजखाँ  
तहबुरखाँ —शाही सिपहसालार  
दिलेरखाँ

सिपाही, प्यादे, नौकर, किसान, नागरिक, दास, दासी वरैरा ।

### स्त्री पात्र

कृष्णकुँवर—राणा राजसिंह की रानी

चारूमती—रुपनगर की राजकुमारी

निर्मल—चारूमती की सखी

जेबुनिसा—बादशाह की बेटी

उदयपुरी—बादशाह की बेगम

कमलकुमारी—जयसिंह की रानी

सुहागसुन्दरी—रत्नसिंह की रानी  
दासी, बाँदी आदि

## दो शब्द

यह नाटक मैट्रिक व इण्टरमीडियेट के विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है, इसलिये इसमें नाट्य-कला की धारीकियों का उतना, खयाल नहीं रखा गया जितना कि विद्यार्थियों की ज्ञान-वृद्धि का। नाटकीय जटिलता तथा प्रवचन की कृत्रिम शैली भी नहीं काम में ली गई है। भाषगान्मीर्य भी वहीं तक है जहाँ तक मैट्रिक व इण्टरमीडियेट की योग्यता के विद्यार्थी समझ पा सकें। यथासाध्य चेष्टा ऐसी की गई है कि जिससे बीरबर राणा राजसिंह के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी विद्यार्थियों को हो जाय।

वद्यपि नाटक की भित्ति इतिहास है, और उसमें नाटकीय रंग भरने के लिये कल्पना काम में लाई गई है। परन्तु उस कल्पना में सबसे बड़ी चेष्टा यह की गई है कि राजपूती उत्सर्ग और स्थाग की तत्कालीन एक रूपरेखा विद्यार्थीगण के मन पर अङ्कित हो सके। पुस्तक में पात्र लगभग सभी ऐतिहासिक हैं।

सञ्जोवन इन्स्टीट्यूट  
शहादरा-न्दिली  
साठ १८८४

श्रीचतुरसेन वैद्य

# राजसिंह

—०—

महाराणा राजसिंह राजपूताना के प्रकाशमान नज़र थे । उन्होंने समस्त राजपूत शक्ति के निस्तेज होने पर भी, अपनी आत्मा शक्ति और साधारण सत्ता से प्रबल प्रतापी मुश्ल बादशाह औरंगजेब का बड़ी मुस्तैदी और योग्यता से मुक्काबिला किया । राजसिंह की विशेषता, राजपूतों की वह प्राचीन प्रसिद्ध जूझ मरने की भावना नहीं अपितु विलक्षण सेना नायकत्व-रणपाणिषट्य, दूरदर्शिता और साहस में है । उन्होंने अस्तंगत राजपूत सत्ता को एकबार अपने पराक्रम से फिर से उभारा । उन्हीं की बदौलत औरंगजेब की बढ़ती हुई हिन्दू मन्दिरों के विघ्नस की प्रवृत्ति हुकी । उन्हीं की सहायता और आश्रय पाकर राठौरों ने विपत्ति सागर से उद्धार पाया और अन्त में मुश्ल तख्त का भाग्य उनके हाथ का खिलौना बना । राजसिंह ने बड़ी से बड़ी राजनैतिक विपत्तियाँ अपने सिर पर दूसरों के लिए ली । जजिया के विरोध में उनका औरंगजेब के नाम लिखा हुआ प्रसिद्ध पत्र उनके साहस और उनके ओज का परिचायक है । वे अपने युग में हिन्दुत्व का प्रतिनिधित्व करते थे । उनका जीवन एक हिन्दु प्रतिनिधि के नाते उस काल के समस्त भारत के हिन्दुओं में अप्रतिम था । उनके व्यक्तित्व से हिन्दुओं को बहुत जीवन मिला था । कहना चाहिए कि आधुनिक उदयपुर की ग़ही की ढढ़ता का बहुत अंश तक राजसिंह ही कारण है ।

उनका जन्म सन् १६२८ में २४ सितम्बर को हुआ । और सन् १६५२ की १०वीं अक्टूबर में २३ वर्ष की आयु में ग़ही

नशीनी हुई। उसी वर्ष उन्होंने श्री एकलिंग जी में जाकर रत्नों का तुलादान किया, जो भारतवर्ष के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है। सन् १६५३ की ४ फरवरी को उनका राज्याभिषेक हुआ। और चाँदी का तुलादान किया। इसी अवसर पर शाहजहाँ ने उन्हें राणा का खिताब, पाँच हजारी जात और ५ हजार सबारों का मनसब देकर जड़ाऊ तलवार, हाथी, घोड़े वगैरा भेजे। परन्तु राजसिंह ने गढ़ी पर बैठते ही चित्तौड़ के किले की मरम्मत शुरू करदी। इस खबर को सुनकर शाहजहाँ अजमेर खाजा की दरगाह की जियारत करने के बहाने से आया और अब्दालबेग को किले की मरम्मत देखने को भेजा। और जब उसने लौटकर बताया कि परिचम की ओर ७ दर्वाज़ों की मरम्मत कर ली गई है, और कई नवीन दर्वाज़े बना लिए गये हैं। जो जगह ऐसी थीं जहाँ चढ़ना सम्भव हो सकता था वहाँ दीवारों खड़ी कर ली गई हैं। तब बादशाह ने साढुललाखों बजीर आला को ३० हजार फौज के साथ तमाम मरम्मत ढहाने के लिए भेजा। उस समय राणा ने लड़ना उचित न समझ बादशाह से माफी माँगली और पाटवी कुँवर को जिनका नाम बादशाह ने सौभाग्यसिंह रखा था भेज दिया। बादशाह ने कुँवर को ६ दिन पास रख कर हाथी, घोड़ा और सिरोपाव देकर विदा किया। परन्तु ज्योही शाहजहाँ बामार पड़ा और शाहजहाँ में गढ़ी के उत्तराधिकार की गड़बड़ चली कि इस सुयोग से लाभ उठा कर राणा ने अपने पुराने परगने वापिस ले लिये। और जो जो हिन्दू सरदार साढुललाखों के साथ चित्तौड़ का किला ढहाने आये थे एक एक को भलों भाँति दखड़ दिया गया। उधर समृतगर के युद्ध में दारा का भार्य फूटा और वाप को कैद करके औरंगज़ब तख्त पर बैठा। वह प्रथम ही से राणा को

मिलाने की खट पट करता रहा था । विजयी होने पर उसने राणा की पद वृद्धि कर ६ हजार जात व ६ हजार संचार का फरमान भेजा और ५ लाख रुपये तथा १ हाथी और हथिनी भेजी । साथ ही कुछ परगने वापिस कर दिये । राणा कूट-नीनिङ्ग औरंगज़ेब के इस व्यवहार पर पिंडल गये और दारा की मदद न की । हालाँकि उसने सिरोही में शरण लेने के बाद राणा को एक करण पत्र लिखा था । अगर उस समय महाराणा और राठोर जसवन्तसिंह मिलकर दारा की सहायता करते तो भारत के इतिहास का कुछ और ही रंग होता ।

अस्तु ! इधर राणा अपने भीतरी संगठन में लगे उधर औरंगज़ेब ने अकंठक हो अपने हाथ पैर निकाले । उसकी मुल्ला वृत्ति और पक्षपात पूर्ण शासन तथा पिता और परिवार के साथ किये दुर्घटव्यवहार के कारण इन्दुओं में काफी असन्तोष फैल गया और घटनाचक्र से राजसिंह बादशाह के भारी कोप भाजन बन गये । राजसिंह को परिस्थिति से निवाश हो भारी २ शाही अपराध करने पड़े । उन्होंने बादशाह की मंगोतर रूपनगर की राजकन्या से व्याह किया । गोवर्धन के गुसाइयों को नाथद्वारा और कांकरौली में आश्रय दिया । जसवन्तसिंह के पुत्र को शरण दी । सब से अधिक बादशाह को जजिया के विरुद्ध उपदेश दिया । इन सब कारणों से रुष्ट होकर बादशाह अपनी समस्त सेना को ले मवाड़ पर चढ़ दौड़ा । परन्तु दुर्गम अरावली की गोद में मेवाड़ का राजवंश और जनता आश्रय पाकर अल्प शक्ति होने पर भी बादशाह को तंग करने में सफल हुए ।

. मन् १६७६ की तीसरी सितम्बर को बादशाह ने महाराणा से लड़ने के लिये दिल्ली से प्रस्थान किया और १३ दिन कूच करके अजमेर में आनासागर पर पहुँच आता । शाहजहां अक-

बर जो पालम में मुकीम था पहिले ही अजमेर को रखाना कर दिया गया था । बादशाह की चढ़ाई की खबर पाते ही राणा ने अपने प्रमुख सरदारों को बुला युद्ध सभा की । इस सभा में कुँ० जयसिंह, कुँ० भीमसिंह, रावल जसराज, (द्व० गरपुर का) राणा-वत भावसिंह (म० अमरसिंह के पुत्र सूरजमल का तीसरा पुत्र) महाराज मनोहरसिंह, (म० कर्णसिंह के पुत्र गरीबदास के पुत्र) महाराज दलसिंह, (म० कर्णसिंह के छोटे पुत्र छत्रसिंह के पुत्र) अरिसिंह (महाराणा के भाई) अरिसिंह के घार पुत्र (भगवानसिंह, सुभागसिंह, फतहसिंह, गुमानसिंह) राव सबलसिंह चौहान (बेदले वाला) भाला चन्द्रसेन (बड़ी सादड़ी वाला) रावन के सरी-सिंह और उसका पुत्र गंगदास (बानसी वाले) भला जैतसिंह (देलवाड़े का) पैंचार वैरिसाल (बीजोलिया का) रावत महासिंह (बिगू वाला) रावत रत्नसिंह (सलूँ वर का) साँवलदास (बदनौर का) रावत मानसिंह (कानौड़वाला) राव केसरीसिंह (पारसौली का) महकमसिंह (भीड़रवाला) राठौर दुर्गदास, राठौर सौनिक, विक्रम सोलंकी, रावत रुकमांगद (कोठारिये का) भाला जसधन्त (गोगृदे का) राठौर गोपीनाथ (धायेदाब का) राजपुरोहित गरीब-दास, मेहता अमरसिंह (नीमड़ी का) खीची रामसिंह, छोडिया महासिंह, मन्त्री दयालदास और श्रब्मलिक अच्छीज उपस्थित थे,

सलाह यह ठहरी कि सब कोई पर्वतों में चले जाँय और बस्तियाँ उजाड़ दी जाँय । ५० हजार भील और बहुत से भोजिये सरदार भी यहाँ राणा से आ मिले । नेणवारा (भोमट) में राणा का परिवार सुकीम हुआ । राणा के पास सिर्फ २० हजार सवार और २५ हजार पैदल थे । राणा ने घाट-घाट और नाके-नाके पर ऐसा बन्दोबस्त कर दिया कि पद-पद पर शत्रुओं का दास्ता रोका जाय और उन्माद खाना और रसद लड़े ली जाय ।

२७ अक्टूबर को बादशाह ने तहवुख्खाँ सेनापति को मांडल आदि परगने जब्त करने और हसनअली को राणा से लड़ने भेजा। हसनअली के पास ७००० सेना थी। १ दिसंबर को वह स्वयं भी उदयपुर की ओर चल दिया। उसके साथ योरोपियनों का तोपखाना भी था—बंगाल से शाहजादा मुश्वरजम भी अपनी सेना सहित आ गया था। देवारी की घाटी में वहाँ के रक्खों से बादशाह का युद्ध हुआ जिसमें राठौर गोरासिंह मारे गये और रावत मानसिंह घायल हुए। घाटी पर बादशाह का अधिकार हो गया। यहाँ से बादशाह ने राणा के पीछे पहाड़ों में हसन-अली खाँ को बड़ी सेना के साथ भेजा और शाहजादा मुश्वरजम को खानेजहाँ सादुल्लाखाँ और इक्का ताजखाँ के साथ उदयपुर भेजा। वहाँ सब जगह सुनसान था। इक्का ताजखाँ और सादुल्ला ने महलों के आगे बने प्रसिद्ध (जगदीश) मन्दिर को तोड़ डाला। २० मांचा तोड़ राजपूत तो वहाँ तैनात थे, वे एक-एक करके मारे गए। बादशाह ने भी उदयसागर पर के ३ मन्दिर ढहवाए। हसनअली ने राणा का पीछा करके उस पर हमला किया और अहुत सी रसद और सामान लूट कर २० ऊंटों पर लादकर बादशाह की सेवा में भेजा और १७२ मन्दिर ढहाए। बादशाह ने खुश होकर उसे बहादुर आलमशाही का खिताब दिया। बादशाह ने चित्तौड़ के आसपास ६३ मन्दिर गिरवाए और शाहजादा अकबर, हसनअलीखाँ, मुश्वरजमखाँ, रजीउहीनखाँ को चित्तौड़ रक्षा का भार दे अजमेर लौट आया। बादशाह के लौटते ही राजपूतों ने शाही थाने लूटने शुरू कर दिए। जिससे मुराल सेना की व्यवस्था बिगड़ गई। और उनका आतंक उस पर छा गया। इसी बीच राणा ने अहुत सी शाही रसद लूट ली और शाही थाने बर्बाद कर दिए। फलतः पहला आक्रमण निष्फल रहा।

इसके बाद बादशाह ने दूसरी युद्ध योजना यह की कि शाह-जादा आजैम चित्तौड़ से देवारी और उदयपुर होता हुआ पहाड़ों में बढ़ और मुच्छज्जम राजनगर से तथा अकबर देसूरी से। इस धावे में बादशाह ने चित्तौड़, पुर, मांडल, मांडलगढ़, वैराट, भैस रोड, मन्दसौर, नीमच, जीरन, ऊँटाला, कपासन, राजनगर और उदयपुर में अपना दखल कर थाने नियत किए। अकबर उदयपुर आया और श्री एकलिंग की ओर को बढ़ा। रास्ते में नाके पर लड़ाइयाँ हुईं। इनमें कोठारिये के रुकमांगर के पुत्र उदय-भान और अमरसिंह चौहान ने बड़ी बीरता दिखाई। उदयभान को बीरता के उपलक्ष में १२ गाँव भिले। हसनअलीखों जो पहाड़ों में घुस गया था परास्त होकर भागा। अब महारणा ने कुँवर भीमसिंह को गुजरात पर भेजा। उसने इंडर का विवरण संकरके बड़नगर को लूटा और ४० हजार रुपये दरख़ड़ लिये। फिर अह-मदनगर जाकर २ लाख का माल लूटा। बादशाह ने मन्दिर गिराये थे, कुँ० भीमसिंह ने ३०० के लगभग मस्जिदें ढहाईं। उधर मन्त्री दयालदास ने मालवे पर धावा बोल दिया और नगर नगर से दरख़ड़ लिया तथा थाने बैठाए, मस्जिदें गिराईं और वह ऊँट सोने से भर कर ले आया। उपर राठौर साँवलदास ने बद-नौर पर भयानक आक्रमण किया जहाँ पौजदार रुहिल्जाखाँ १२ सौ सवारों सहित ठहरा था। वह इस आक्रमण से ऐसा धनदाया कि सारा सामान छोड़ रातोंरात भाग खड़ा हुआ। इसी भाँति शक्तवत केसरीसिंह के पुत्र गगदास ने ५०० सवारों के साथ चित्तौड़ के पास पड़ी छावनी पर छापा मारा और १८ हाथी, २ घोड़े कई ऊँट छीन कर राणा की नज़र किए। जिस पर राणा ने उसको कुँवर की पदवी, सोने के जो़बर समेत उत्तम घोड़ा और गाँव देकर सम्पानित किया। इसी भाँति कुँवर गजसिंह ने बेगूँ पर

आक्रमण कर वहाँ की शाही सेना को तहस-नहस कर डाला।

अब कुँवर जयसिंह ने १३००० सवार और बीस हजार पैदल सेना लेकर जिसमें ३० के लगभग बड़े २ सरदार थे। चित्तौड़ की ओर कूँच किया—जहाँ शाहजादा अकबर ५० हजार सेना लिए मुक्कीम था। जयसिंह ने रात को प्रबल आक्रमण किया और अकबर की सेना को तहस-नहस कर दिया। अकबर हारकर अजमेर को भाग गया। राजपूतों ने हाथी घोड़े तम्बू निशान और नकारा छीन लिए। छावनी में आग लगा दी। यहाँ से भाग कर अकबर ने नाडोल में मुकाम किया। वहाँ कुँवर भीमसिंह, राठौर गोपीनाथ और सोलंकी विक्रम ने १२००० सेना लेकर उसे घेर लिया, घोर युद्ध हुआ और उसका पूरा खजाना लूट लिया। इस प्रकार इस आक्रमण में भी बादशाह विफल हुआ और मुलह की बातें शुरू कीं। इतिहासकार कहते हैं कि इसी बीच राजसिंह की मृत्यु हो गई। राणा राजसिंह ने जितने बड़े २ काम किये उन सब में राजसमुद्र का निर्माण है, जिसके भीतर सोलह गाँवों की सीमा आई है। इस तालाब के बनवाने के विषय में इतिहासकार भाँति भाँति की बातें कहते हैं। कोई कहते हैं कि विवाह के लिए जैसलमेर जाते वक्त नदी के बेग के कारण राजसिंह को दो तीन दिन रुकना पड़ा था, इसलिए नदी को रोककर उसने तालाब बनवाने का विचार फिया। किसी का मत है कि उसने एक पुरोहित, एक रानी, एक कुँवर और एक चारण को मरवा डाला था जिसका किस्ता यों कहा जाता है कि कुँ० सरदार निह को माता ज्येष्ठ कुँवर मुलतानसिंह को मरवा कर अपने पुत्र सरदारसिंह को राज्य दिलाने का प्रपञ्च रच रही थी—उसने राणा को कुँवर पर भूँठा शक दिलाया जिससे राणा ने मुलतानसिंह को मार डाला। फिर उसी रानी ने एक पुरोहित को

पत्र लिख कर राणा को विष्णुने का उद्योग पर भेद खुल गया, और राणा ने पुरोहित और रानी दोनों को भरवा डाला। इस पर कुँवर सरदार सिंह स्वर्य जहर खाकर मर गया। चारण उदयभानु ने राणा की निन्दा में कविता मुनाई इससे कुछ हो उसे भरवा डाला। इन हत्याओं के निवारणार्थ उसने ब्राह्मण से उपाय पूँछा और उन्होंने उसे विशाल तालाब बनवाने की सलाह दी। परन्तु कुत्र लोगों का यह भी ख्याल है कि अकाल पीड़ित लोगों को सहायता देने के विचार से यह तालाब बनाया गया। सन् १६६५ की १७ अप्रैल को पुरोहित गरीबदास के पुत्र रणछीर राय के हाथ से पंचरत्न के साथ नींव का पत्थर रखवाया गया, और सन् १६७१ की ३० जून को नाव का मुहूर्त किया गया। फिर सन् १६७४ में लाहौर, गुजरात और सूरत का बना हुआ जहाज डाला गया और सन् १६७६ की १४वीं जनवरी को प्रतिष्ठा का कार्य शुरू हुआ। अष्टमी को राणा ने उपवास किया, और देह शुद्धि प्रायशिच्छा आदि कर नवमी को अपने भाइयों, कुँवरों, रानियों, चाचियों, पुत्रबन्धुओं, कुदुन्नियों और पुरोहित गरीबदास सहित मण्डप में प्रवेश कर देव पूजन कर हवन किया। उस दिन राणा ने एक भुक्त रहकर रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन नंगे पैर पैदल सपरिवार परिक्रमा की। ५ दिन में १४ कोस की परिक्रमा समाप्त कर पूर्णिमा को पूर्णिमा हुति दी और अपने पोते अमरसिंह को साथ बैठाकर स्वर्ण का तुलादान किया। इस तुला में १२००० तोले सोना चढ़ा। उसी दिन सप्तसागर दान किया। पटरानी सदाकुँवर ने चाँदी की तुला की। पुरोहित गरीबदास ने सोने की की। गरीबदास के पुत्र रणछोड़राय, राणाकेसरीसिंह पारसोली बाले, टोडे के रायसिंह की माता और बारहट केसरीसिंह ने चाँदी की तुलाएँ

की। इस उत्सव में राणा ने पुरोहित/गरीबदास को १२ गाँव और अन्य ब्राह्मणों को गाँव, भूमि, सोना, चाँदी तथा सिरपाव दिये। परिषदों, चारणों, भाटों आदि को ५५२ घोड़े, १३ हाथी तथा सिरोपाव दिये। मुख्य शिल्पी को २५ हजार रुपया दिये। अन्य चारणों को भी घोड़े दिये। इस उत्सव के उपलक्ष्म में जोधपुर के राजा जसवन्तसिंह राठौर, आमेर के राजा रामसिंह कछवाहा, बूँदी के राव भावसिंह हाड़ा, बीकानेर के राजा अनूपसिंह, रामपुरा के चन्द्रावत महकमसिंह, जैसलमेर के रावल अमरसिंह, झूँगरपुर के रावल जसवन्तसिंह रोबाँ के राजा भावसिंह को एक एक हाथी, दो दो घोड़े और जरदोजी सिरोपाव भेजे थे। उत्सव के दर्शनार्थी बाहर से ४६ हजार ब्राह्मण और मंगते आए थे जो भोजन वस्त्र से सन्तुष्ट किये गये। तालाब के बनवाने में १०५०७६०८ रुपये खर्च हुये थे। इसकी नौचौकी नामक बॉध पर नाकों में २५ बड़ी-बड़ी शिलाओं पर २५ सर्गों का राजप्रशस्ति महाकाव्य खुदा है जो भारत भर में सब से बड़ा शिलालेख है। इसकी रचना तैलंग गुसाई मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ भट्ट ने की थी।

इस तालाब के अलावा महाराणा ने सर्व अतुविलास नामक एक महल अपने कुवरपदे में बनाया था जिसमें बाबड़ी और आग भी है। देवारी के घाटे का कोट और दर्वाजा तैयार कराया। उदयपुर में अम्बा माता का मन्दिर बनवाया। रंग सागर तालाब बनवाया जो पीछे पीछोले में मिला लिया गया। कांकरोली का द्वारकाधीश का मन्दिर और राजनगर कस्बा बसाया। एक लिंग के पास बाले इन्द्रसर के पुराने बाँध की जगह नया बाँध बाँधा। राणा महादानी था। अपने जन्म दिन और दूसरे अवसरों पर वह तुलादान और बड़े-बड़े दान किया करता था। वह महाबीर

था । उसे कुम्भलगढ़ जाते हुए आड़ो गाँव में किसी ने भोजन में विष खिला दिया जिससे २२ अक्टूबर १६८० में सिर्फ ५१ वर्ष की उम्र में उसका देहांत हो गया ।

महाराणा की १८ रानियाँ थीं, जिनसे ६ पुत्र और १ पुत्री हुईं । राणा रणपन्डित, साहसी, वीर, निर्भय, सच्चा क्षत्रिय, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और दाता था । उससे क्रोध की मात्रा अधिक थी । वड़ स्वयं कवि और विद्वानों का सत्कार करने वाला था । किसी कवि ने राणा की प्रशंसा में श्लोक लिखा है—

संग्रामे भीम भीमो, विविध वितरणे यश्च करणेष्यमेवः ।  
सत्ये श्रीधर्म सूनुः, प्रवल रिपु जये पार्थ एवापरो यम् ॥  
श्रीमान्वाजीन्द्र शिरा नय विधि कुशलः शास्त्रतत्वेतिहासे ।  
देवोऽयं राजसिंहो जयतु चिरतरं पुत्रपौत्रैः समेतः ॥ १ ॥

# राजासिंह

## पहिला अङ्क

---

### पहिला दृश्य

(स्थान—उदयपुर का एक प्रधान बाजार। समय प्रातःकाल।

दो नागरिक सड़क पर खड़े बातचीत कर रहे हैं। बाजार

बन्दबवार और पताकाओं से सजा हुआ है।)

एक नागरिक—रत्नतुला ! सुना तुमने ?

दूसरा नागरिक—सुनने की एक ही कही। मैं इन्हीं आँखों से  
देखकर आ रहा हूँ।

पहिला नागरिक—सच ? तो तुम श्री एकलिङ्ग गये थे ?

दूसरा—नहीं तो क्या, तुम्हें तो मालूम ही है वहाँ मेरी साली  
का घर है। वही जो………

पहिलां—(बात काटकर) तो तुमने महाराणा का रत्नतुला अपनी  
आँखों से देखा ?

दूसरा—अरे भाई ! कृह तो दिया देखा-देखा, हमने ही नहीं  
हजारों ने देखा, जिसने देखा दंग रह गया ।

पहिला—दंग रह जाने की ही बात है भई । भला तुमने कहीं  
इतिहास शास्त्र पुराण में पढ़ा सुना है, किसी राजा  
ने रत्नतुला किया है ?

( एक ब्राह्मण रामनाभी ओडे आता है )

ब्राह्मण—शास्त्र-पुराण पढ़ने की बात कौन कह रहा है भाई ।

पहिला नागरिक—हम कह रहे हैं जी हम तुमने शास्त्रपुराण  
में कहीं पढ़ा सुना है ?

ब्राह्मण—अरे ! हमने शास्त्र पुराण में नहीं पढ़ा तो क्या तूने  
पढ़ा है ? मूर्ख, शास्त्र-पुराण पढ़ना क्या यों ही होता है ।

पहिला—पढ़ा है तुमने ब्राह्मण देवता ?

ब्राह्मण—(लाल आँखें करके) नहीं पढ़ा है हमने ? उच्च, हमें  
मूर्ख समझता है ।

( दो चार और नागरिक आते हैं )

सब—क्या भर्मेला है जी ।

ब्राह्मण—यह शूद्र कहता है हमने शास्त्र-पुराण नहीं पढ़ा ।

पहिला नागरिक—इम क्षत्रिय हैं शूद्र नहीं । हाँ, कहे देते हैं ।

दूसरा नागरिक—देवता जी, तुम नाहक बिगड़ने लगे । यह  
किसने कहा कि तुमने शास्त्र-पुराण नहीं पढ़ा ।

ब्राह्मण—हुँहुँ, हमने शास्त्र-पुराण नहीं पढ़ा । अरे १८ बर्ष

काशी में हमने क्या भाड़ अर्होंका है। शास्त्र-पुराण  
नहीं पढ़ा। हुँह !!

सब—अजी भगड़ा क्या है ?

पहिला नागरिक—रत्नतुला। रत्नतुला !

सब-कैसी रत्नतुला ?

पहिला—नहीं जानते, हमारे महाराणा राजसिंह ने श्री एकलिङ्ग  
में जाकर रत्नतुला की है।

सब—हमारे महाराणा साक्षात् देवता के अवतार हैं। उनके  
शरीर में शिव का तेज है, वे जो करें सो थोड़ा।

पहिला नागरिक—पर मैं कहता हूँ, किसी ने सुना है कि  
कलियुग में किसी राजा ने रत्नतुला दान की हो।

सब—नहीं सुना-नहीं सुना। स्वर्ण तुला। चाँदी की तुला सुनी  
है। रत्न तुला नहीं सुनी।

पहिला नागरिक—(आँखें तरेर कर ब्राह्मण से) तुमने सुना है  
कहीं ? कलियुग में .....

ब्राह्मण—(कानों पर हाथ धरके) नारायण नारायण, नहीं सुना।

पहिला—सतयुग में, व्रेता में, द्वापर में।

ब्राह्मण—नहीं सुना भाई नहीं सुना।

पहिला—कहीं पुराण-शास्त्र में देखा-पढ़ा है ?

ब्राह्मण—नहीं पढ़ा नहीं देखा। रत्नतुला करके श्री महाराणा  
राजसिंह ने अपूर्व कृत्य किया है।

पहिला—यहीं तो हम कहते थे, तुम बिगड़े क्यों ?

ब्राह्मण—हम समझे तुम् हमें मूर्ख समझते हो, हम काशी में  
१८ वर्ष ...

पहिला नागरिक—भाड़ मे जायें तुम्हारे १८ वर्ष तुमने हमें  
शुद्ध कहा ?

सब लोग—चरे भाई जाने दो, जाने दो।

पहिला नागरिक—नहीं कहो, हम शुद्ध हैं ? (आस्तीन चढ़ावा है)

ब्राह्मण—नारायण, नारायण ! अजी तुम ठाकुर हो भैया । हम  
से भूल हुई ।

सब लोग—हाँ जी, तो महाराणा जी का रत्नतुला तुमने देखा है।

पहिला नागरिक—देखा नहीं तो क्या । कह तो रहे हैं। इन्हीं आँखों

से देखा है। हीरा मोती-मानिक और लालों के ढेर  
देखकर आँखें चौंधयाती थीं । बड़े-बड़े राजा महाराजा  
सरदारों ने यह महायज्ञ देखा । देखते-देखते राणा  
के शरीर बराबर रत्न तोल कर ब्राह्मणों और दूरदूरों में  
बाँट दिये गये ।

सब—धन्य, धन्य ! वाह ! क्यों नहीं, राजसिंह सा नरपति होना  
दुर्लभ है ।

एक—‘होनहार विरचान के होत चीकने पात’ आप लोग देखना  
महाराणा राजसिंह के हाथों बड़े-बड़े काम होंगे ।

ब्राह्मण—हमने महाराणा की जन्मलग्न देखी है । महाराणा  
परम प्रतापी विजयी बीर है ।

(सैपथ्य में गाजे-बाजे और बन्दूकों के सूचने का शब्द)

एक नागरिक—लो भाई ! महाराणा जी की सवारी आ रही है ।  
आओ हम भी दर्शन कर लें ।

(राणा जी घोड़े पर सवार सब सरदारों सहित आते हैं)  
सब लोग—(हर्ष से) जय, महाराणा राजसिंह की जय ।  
हिन्दुपति हिन्दुसूर्य राणाजी की जय ।  
श्री एकलिङ्ग के दीवान की जय ।  
(पद्म बदलता है)

## दूसरा दृश्य

(स्थान—चित्तौद का किला। मैदान में महाराणा राजसिंह जी अपने सरदारों सहित खड़े थाए कर रहे हैं।)

महाराणा—तो यह खबर बिलकुल भच है ?  
रावत रघुनाथसिंह—(हाथ झोड़कर) पृथ्वीनाथ ! सेवक को विश्वस्त सूत्र से खबर मिली है।

महाराणा—कि समू नगर की लड़ाई में मुराद और औरंगजेब की सम्मिलित सैन्य ने दारा को परास्त कर दिया।  
रावत रघुनाथसिंह—जी हाँ, महाराज ! और इसके बाद औरंगजेब ने कौशल से मुराद को कैद करके सलीमगढ़ में भेज दिया है और वहाँ बादशाह को आगरे के किले में कैद कर लिया है।

महाराणा—दारा अब कहाँ है ?

रावत रघुनाथसिंह—वह पहिले पंजाब आगा गया था। पर औरंगजेब ने ताकड़ तोड़ उसका पीछा किया। अब वह कच्छ गुजरात होता हुआ सिरोही में मुक्तीम है,  
वहाँ से उसने अबदाता के नाम एक खरीदा भेजा है।

महाराणा—खरीदे में क्या लिखा है ?

दीवान कतहचन्द—वह लिखता है कि हमने राजपूतों पर अपनी लाज छोड़ी है, और इस सब राजपूतों के मिहमान

होकर आये हैं। आप सब राजपूतों के सरदार हैं। इसलिए आपसे आशा है कि आला हज़रत को कँडे से छुड़ाने में हमारी मदद करेंगे।

**महाराणा—(ठण्डी खाँस लेहर)** अभाग दारा ! औरंगजेब की क्या खबर है ?

**दीवान फतहचंद—**दारा के पीछे पंजाब जाते वक्त उसने एक निशान भेजकर श्रीमानों का पद बढ़ाकर ६ हज़ारी जात व ६ हज़ार सवार कर दिया है। याथ में ५ लाख रुपये तथा एक हाथी और हथिनी भेजी है, और कर्मान भेजा है कि बदनौर, मारेडलगढ़ और बाँसवाड़ा दखल करलें, और पाटवी कुंवर को शाही खिदमत में भेज दें।

**राणा—(मुर्करा कर)** देखा जायगा। क्या मोहकमसिंह मांडल से अभी नहीं लौटा ?

**रावत मेघसिंह—**लौट आया है अब्रादाता। मारेडलगढ़ को बादशाह शाहजहाँ ने रूपनगर के राजा रूपसिंह को दे दिया था। उसकी तरफ से महाजन राघवदास बहाँ का किलेदार तैनात है। मोहकमसिंह ने उसे बहुत समझाया। पर वह लड़ने-मरने को तैयार है गढ़ नहीं देता।

**राणा—(भौंहों में बल ढालकर)** बनेड़ा और शाहपुरा वालों से तो मामला तै हो गया न ?

**रावत मेघसिंह—**जी हूँ अब्रादाता ! उन्होंने २६ हज़ार रुपये और शाहपुरा वालों ने २२ हज़ार रुपये दंड देकर आधी

नता स्वीकार कर ली है। जहाजपुर, सावर, केकड़ी  
और फूलिया के ठिकाने भी आधीन हो गये हैं।

राणा—बहुत खूब, मालपुरे और टोडे का समाचार कैसा है?

रावत मेघसिंह—मोहकमूर्सिंह शक्तावत ने मालपुरे को ६ दिन तक  
लूटा और भारी खजाना हुजूर में हाजिर किया है।  
रायसिंह की माता ने ६० हजार ८० देकर आधीनता  
स्वीकार करली है, वीरमदेव के नगर को उसने  
जलाकर खाक कर दिया है।

राणा—उसकी सरकशी अब सही न जाती थी, आशा है वह  
सीधा हो जावेगा। हाँ टोंक, लालसोट और साम्भर?  
रावत मेघसिंह—सोलकी दलपत ने इन ठिकानों को परास्त कर  
सक्से दण्ड उगाहा है, वह शीघ्र श्रीमानों की सेवा में  
हाजिर होकर कैफियत निवेदन करेगा।

राणा—झंगरपुर ठिकाने ने सरकशी की थी न?

रावत मेघसिंह—घणीखलमा, अन्नदाता के प्रताप से रावल  
समरसिंह का मिजाज अब ठिकाने लग गया है उसने  
१ लाख रुपया, १० गाँव, देशदाण और १ हाथी,  
१ हथिनी नजर कर आधीनता स्वीकार की है।

राणा—शरणागत को अभय। उसे १० गाँव, देशदाण और  
२० हजार रुपये छोड़ दिये जायें। आज ही हमारी  
ओर से तसल्ली का फर्मान रावल जी को भेज  
दिया जाय।

रावत मेघसिंह—जो आज्ञा दरबार।

राणा—देवलिये का मामला कैसे तै होगा?

दीवान फतहचन्द—यह सेवक देवलिये पर गया था। रावत हरी-सिंह भागकर बादशाह के पास चले गये हैं। पर उनकी माता ने अपने पोते प्रतापसिंह को सेवा में भेज दिया है, साथ में ५ हजार रु० और एक हथिनी दरहड़ में दी है। आगे में सहायता का कोई रंग ढंग न देखकर रावत हरीसिंह गवत रघुनाथसिंह की मारफत शरण में आने की विनती करते हैं।

राणा—(गम्भीरता से) इस मामले पर पीछे भसलहत होगी। अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। जिन-जिन ठिकानेदारों ने बजीर सादुल्ला के साथ मिलकर चितौड़ की मरम्मत ढहाने में सहयोग दिया था उन सबको दंड मिल गया। पर चितौड़ की मरम्मत का गिराया जाना मेरी आँखों में शूल सा चुभ रहा है।

(बैचैनी से बूमता है फिर ठहर कर) परन्तु यही समय है।

दीवान फतहचन्द—<sup>✓</sup>श्री महाराज की क्या इच्छा है?

राणा—दिल्ली का मुगाल तख्त डगमगा रहा है। आओ सुयोग पाकर राजपूताने की नींव ढढ़ करतें। आप लोगों की सहायता से हमने गत १०० वर्षों से खोए हुए इलाके अपने राज्य-काल के प्रारम्भ ही में हस्तगत कर लिये हैं। अब हमें अजेय चितौड़ की मरम्मत करनी है

और अपने बाकी इलाके अधीन करने हैं। इसके बाद समर्स्त राजपूत शक्ति को जाग्रत करके उसे हम एकी-भूत करेंगे। यह सब श्री एकलिंग भगवान की कृपा से अवश्य होगा।

**रावत मेघसिंह—**( इथ जोड़कर) पृथ्वीनाथ ! आलमगीर के खलीते का क्या होगा ?

**राणा—**आलमगीर कौन ?

**रावत मेघसिंह—**ओरंगज़ेब ने बादशाह होकर अपना नाम आलमगीर पीर दशतगीर रखा है।

**राणा—**(हंस कर) ओह समझा। कुंवर सुल्तानसिंह को काका अरिसिंह के साथ भेंट भलाई देकर दिल्ली भेज दिया जायगा। वे बादशाह आलमगीर को तख्तनशीनी और विजय की बधाई दे आवेंगे। ( कुछ सोचकर ) परन्तु सरदारो ! इस दुबले पतले पीर दशतगीर से इमें कठिन मोर्चा लेना होगा। वह हड्ड हाथों से राज्य करेगा। परन्तु चिन्ता नहीं। मैं राजपूताने में वह जाग्रति की ज्योति जगाऊँगा कि जिसके आगे मुगल तख्त को मुकना होगा। परन्तु अभी यह बात रहे। कल प्रातःकाल ही हमें मारेडलगढ़ पर चढ़ाई करना है। सेना को कूच की आज्ञा देदो, और सब तैयारियाँ कर लो।

**रावत मेघसिंह—**जो आज्ञा अन्नदाता ! ( पद्धा गिरता है )

## तीसरा दृश्य

(स्थान—सलूँवर की हवेली । कचहरी का बाहरी हिस्सा ।  
सलूँवर। सरदार रावत रघुनाथसिंह और उनके पुत्र रत्नसिंह  
बातें कर रहे हैं । समय—रात्रि)

रावत रघुनाथसिंह—तुमने सुना, राणा ने सलूँवर का पट्टा  
चौहान के सरसिंह पारसोली वाले को लिख दिया है ।

रत्नसिंह—सुना है पिता जी ! हमें ठिकाना छोड़ना पड़ेगा ।

रावत रघुनाथसिंह—मैं विद्रोह करूँगा ।

रत्नसिंह—नहीं पिता जी, हम विद्रोह नहीं कर सकते ।

रावत रघुनाथसिंह—किस लिये नहीं कर सकते ? क्या प्राण  
रहते हम अन्याय सहन करेंगे ? क्या हमारे शरीर  
में वाप्पा रावल का रक्त नहीं है, क्या हमारी तलवार  
मोथरी हो गई है ? हमारी कलाई में क्या उसे  
पकड़ने की शक्ति नहीं रही ।

रत्नसिंह—यह सब कुछ अभी है परन्तु शत्रु के लिये । स्वामी  
के लिए नहीं । ठिकाना स्वामी ने दिया है, वह ले  
भी सकता है ।

रावत रघुनाथसिंह—स्वामी ने क्या भीख में दिया है । इतिहास  
में क्या आग के अक्षरों में सत्यव्रती चूड़ाजी के त्याग  
की कथा नहीं लिखी है । यदि हमारे पूर्वज चूड़ाजी  
इच्छा से गही का त्याग न करते तो आज राणा के

पद पर मेरा अधिकार था । परन्तु हमारे वंश का इतना ही त्याग नहीं है । उमने सदैव सबसे प्रथम सिर कटाकर मेवाड़ की रक्षा की है । उमका आज यह बदला ? कि हमारा ठिकाना छोना जाता है—हमारी सेवाओं का यह पुरस्कार ।

**रत्नसिंह**—पिताजी ! हमारे पूर्वजों ने मेवाड़ के लिये जब ऐसे ऐसे बड़े त्याग किये तब क्या हम इतना त्याग भी न कर सकेंगे ?

**रावत रघुनाथसिंह**—त्याग ? इसे तुम त्याग कहते हो—यह अन्यथा है । इसे हम सहन न करेंगे । जब तक मेरे हाथ में तलवार और शरीर में प्राण हैं, सलूंबर की सीमा पर किमको सामर्थ्य है जो हास्ति करें । मैं रक्त की नदी बहा दूँगा । मेवाड़ के सभी सरदार राणा के इस अन्यथा के विरोधी हूँ ।

**रत्नसिंह**—यह मच है । परन्तु यह समय गृहकलह का नहीं । राणाजी के कान शत्रुओं ने भर दिये हैं । उनके विचार शीघ्र ही पलट जावेंगे ।

**रावत रघुनाथसिंह**—तो तुम चाहते हो कि ठिकाना पारसौली वालों को सौंप दिया जाय ?

**रत्नसिंह**—महाराणा की आज्ञा का पालन होना चाहिये ।

**रावत रघुनाथसिंह**—परन्तु मैं आज्ञापालन नहीं करूँगा ।

**रत्नसिंह**—तो राणा की सेना बलपूर्वक ठिकाने को खालझा करने आवेगी ।

रावत रघुनाथसिंह—मैं उससे युद्ध करूँगा ।

रत्नसिंह—उसमें आपकी पराजय होगी ।

रावत रघुनाथसिंह—जो हो सो हो ।

रत्नसिंह—व्यर्थ रक्तपात होगा ।

रावत रघुनाथसिंह—मैं उसका जिम्मेदार नहीं ।

रत्नसिंह—दृहकलह मेरा राज्य की शक्ति नीण होगी ।

रावत रघुनाथसिंह—उसका फल राणा भोगेंगे ।

रत्नसिंह—नहीं उसका फल मेवाड़ को भोगना होगा । पिताजी मैं ऐसा नहीं होने दूँगा ।

रावत रघुनाथसिंह—तुम क्या करोगे ?

रत्नसिंह—मैं आपको युद्ध न करने दूँगा ।

रावत रघुनाथसिंह—पर मैं युद्ध करूँगा ।

रत्नसिंह—तब मैं राणा जी की ओर से आप से लड़ूँगा ।

रावत रघुनाथसिंह—तुम मुझसे लड़ोगे ? तुम ? मेरे पुत्र ?

राजपूताने में किसी ने सुना है बेटा बाप से लड़े ।

रत्नसिंह—अब लोग सुन लेंगे ।

रावत रघुनाथसिंह—यही तुम्हारी पितृभक्ति है ?

रत्नसिंह—जी हाँ पिता जी ! आपके सम्मान की रक्षा के लिये मैं आपसे लड़ूँगा ।

रावत रघुनाथसिंह—मेरे सम्मान की रक्षा के लिये ?

रत्नसिंह—जी हाँ, उससे मेवाड़ के सर्दार युद्ध से विरत रहेंगे और यह रक्तपात टक्का आयगा ।

रावत रघुनाथसिंह अच्छा मैं युद्ध नहीं करूँगा ।

रत्नसिंह—पिताजी ऐसा ही होना चाहिये ।

रावत रघुनाथ सेह—ऐसा ही होगा । परन्तु मैं मेवाड़ का त्याग करूँगा । इस अन्यायी राज्य में मैं एक क्षण भी नहीं रहूँगा ।

रत्नसिंह—पिताजी, सब बात सोच लीजिये ।

रावत रघुनाथसिंह—तुम्हारे जैसे आज्ञाकारी पुत्र ही जब पिता के विरोधी हैं तब और क्या सोचना है । मैं इस राज्य में न रह सकूँगा ।

रत्नसिंह—पिताजी आप जैसे नरवरों की मेवाड़ को अभी जल-रुप पड़ेगी । दिल्ली के तख्त पर धूमकेतू उदय हुआ है, यह चुन-चुन कर राजपूताने के नक्त्रों को प्रास करेगा । मेवाड़ का तब कौन उद्धार करेगा ।

रावत रघुनाथसिंह—मैं नहीं जानता । जहाँ सत्य, वीरता, सेवा और त्याग की कद्र नहीं । जहाँ स्वामी सेवक पर अन्याय करें वहाँ तेजस्वी पुरुष नहीं रह सकते । जाओ तुम अब । अधिक कुछ न कहो । मेरा निश्चय अटल है ।

रत्नसिंह—पिताजी .....

रावत रघुनाथसिंह—चुप रहो । मैं आज्ञा देता हूँ ।

(रत्नसिंह सिर नीचा किये रह जाते हैं । रावत रघुनाथसिंह बेजी से चले जाते हैं )

( पर्दा गिरता है )

## चौथा दृश्य

( स्थान रूपनगर का किला । समय—मध्यान्ह—  
राजा रूपसिंह और प्रधान बंठे हैं )

राजा—महाजन राघवदास ने क्या लिखा है ?

प्रधान—महाराज ! महाराणा ने मांडलगढ़ अधिकार में कर  
लिया और २२ हजार रुपये दण्ड में लिये ।

राजा—राणा का इतना साहस ? मांडलगढ़ हमें शाही जागीर  
में भिना है । मैं इसे सहन नहीं कर सकूँगा ।

राघवदास ने इतनी जल्दी किला दे दिया ? किला  
काफी दृढ़ था । राघवदास ने दगा तो नहीं की ।

दीवान—नहीं महाराज ! उसने एक मास तक जमकर युद्ध  
किया और जब तक किले में रसद और सेना रही,  
उसने मोर्चा लिया । महाराणा राजसिंह ने स्वयं किले  
पर आक्रमण किया था ।

राजा—राणा राजसिंह के पर निश्चले हैं । एकलिङ्ग पर रत्नतुला  
कर के उसका गर्व बढ़ गया है । पर मैं उसके गर्व को  
भंजन न करूँ तो मेरा नाम रूपसिंह नहीं । हमें  
बादशाह के पास अर्जी भेजनी चाहिये ।

दीवान—जैसी आज्ञा, पर सेवक का ख्याल है कि अर्जी भेजने  
से कुछ लाभ न होगा । नथा बादशाह अपनी ही बहुत

सी भक्तों में फँसा है। अभी उसका पैर डगमगा रहा है। फिर मुझे विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि नये बादशाह आलमगीर ने महाराणा को ये परगने दखल करने को शाही कर्मान दे दिया था। महाराज, वास्तव में ये परगने राणा के ही तो थे।

राजा—परन्तु जो परगने शाही खिदमात के बदले हमें मिले हैं उनका इस प्रकार हमारे हाथ से निकल जाना हमारे लिये बड़ी ही लज्जा की बात है। मैं राणा से युद्ध करूँगा।

मन्त्री—(हाथ जोड़कर) महाराज की जो मर्जी हुई सो ठीक है। परन्तु सेवक का निवेदन यह है कि युद्ध और सन्धि अपना और शत्रु का बलावल देखकर ही करना बुद्धिमानी है। राजसिंह की शक्ति प्रबल है और हम उससे पार नहीं पा सकते।

राजा—परन्तु हमारी पीठ पर शाही हाथ है। माण्डलगढ़ को हम से छीन लेना हमारा नहीं बादशाह का अपमान है। बादशाह के पास यह सारी हकीकत लिखकर किसी सुयोग्य आदमी को भेज देना चाहिये।

मन्त्री—जो आज्ञा महाराज। मेरी सम्मति में महाजन राघवदास ही को इस कार्य के लिये भेजना ठीक होगा। वह बादशाह से सब ऊँच नीच निवेदन कर आवेगा। फिर जैसा अवसर होगा देखा जायगा।

राजा—अच्छा अभी यही रहे। पीछे हम स्वयं युद्ध करेंगे।

मन्त्री—तो मैं राघवदास को दिल्ली भेजने का प्रबन्ध करता हूँ

राजा—हाँ, कीजिए।

(मन्त्री जाता है। पर्दा बदलता है। )

## पाँचवाँ दृश्य

( स्थान—सेवाइ का एक गाँव । दो तीन किसान बैठे आग  
ताप रहे हैं और तमाखू पी रहे हैं । )

एक—सुना भाई तुमने ! राणा जी गोमती नदी के वेग को  
रोककर एक बड़ा भारी ताल बना रहे हैं । उसमें  
सोलह गाँवों की सीमा आवेगी ।

दूसरा—गाँवों का क्या होगा ?

तीसरा—हमारी धरती भी जो ताल में गई तो हम खायेंगे क्या ?

पहिला—उसका बन्दोबस्त तो राणा जी करेंगे , राणा जी क्या  
हमारी ज़मीन यों ही छीन लेंगे ।

दूसरा—छीन कैसे लेंगे । बदले में ज़मीन मिलेगी, हमने सुना है ।

तीसरा—खाक सुना है तुमने । रुपये मिलेंगे रुपये । सभके ।

पहिला—और यदि कोई अपनी धरती न दे तो ?

दूसरा—न कैसे दे ? राजा माँगे और न दे, यह भी कहीं हों  
सकता है ?

तीसरा—इस ताल से हमारा ही तो लाभ है ।

दूसरा—हमारा क्या लाभ है ?

तीसरा—अरे, ताल बनेगा तो हमारी धरती को पानी की कोई  
दिक्षत ही न रहेगी ।

पहिला—बाहरे मूर्ख ! धरती जब पानी में छूब जायगी तब पानी की ज़रूरत रही तो क्या ? और न रही तो क्या ?

दूसरा—धरती छूबे चाहे न छूबे । हमें क्या ? राणा धरती मांगेंगे तो हमें देना ही होगा,—भाई !

तीसरा—ऐसा नहीं है जी । राणा जी प्रजा की भलाई के लिये ही तकल बना रहे हैं ।

पहिला—सुना है राणा जी रुग्नारायण के दर्शन को जल्द ही इधर आवेंगे और तब ताजा का मुहूर्त होगा ।

दूसरा—सुनो भाई, राणा राजसिंह राजपूताने में एकछत्र नरपति हैं ।

तीसरा—क्यों नहीं । ऐसा धीर, वीर, दानी और चतुर राणा मेवाड़ के भाग्य ही से उसे मिला है ।

चौथा—तुमने सुना है । राणा जी की शरण में दूर-दूर से बादशाह के सताये हुए ब्राह्मण, यती, विद्वान् और शूरमा आ रहे हैं । राणा सबका यथावत् सम्मान करते हैं ।

पहिला—धन्य राणा जी ! धन्य मेवाड़ ! राणा राजसिंह से मेवाड़ के भाग्य जाग गये ।

दूसरा—परन्तु भाई, एक दिन बादशाह से गहरी छनेगी ।

पहिला—तो मेवाड़ भी अपनी आन निवाहेगा ।

तीसरा—इस बार हम भी तकलार पकड़ेंगे देखना वह बढ़-बढ़ कर हाथ मारूँ कि जिसका नाम ।

( दो बजक आते हैं )

एक—काकाजी हम राणा की फौज में अपनी भरती करावेंगे ।  
दूसरा—और हम भी । मैंने और करनसिंह ने—तलवार के  
वे-वे हाथ राणाजी को दिखाये कि उन्होंने प्रसन्न  
होकर हमें यह सोने का कहा दिया ।

एक किसान—शाबाश पुत्र ! राजपूतों का सच्चा गहना तो तल-  
वार ही है । इल बैल तो ठाली बैठा रुजगार है ।

एक नवयुवक—काकाजी, क्षत्रिय के लिये यही धर्म है । आज  
गुरुजी बता रहे थे ।

दूसरा किसान—ठीक कहते हो । जाओ । अब सो रहो (साथी से  
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सोया हुआ मेवाड़ जाग  
रहा है ।

दोनों युवक—हाँ, काकाजी, हमने पाठशाला में एक गीत सीखा  
है । उदयपुर में सब लड़के वह गीत गाते टोली बाँध  
कर निकलते हैं । आप सुनेंगे काकाजी ?

किसान—सुनाओ बेटे सुनूँगा ।

( दोनों युवक गाते हैं )

अभय रहो मेवाड़ ।

अरावली के दिल्लयाञ्छल में,

बनघाटी दुर्गम पथ पूरित—

नभमण्डल के नीचे निर्भय—

सुदित रहो मेवाड़ ।  
 अभय रहो मेवाड़ ।  
 हल्दीघाटी के तरु पलजव,  
 बीरबरों की अमर कीर्ति का—  
 मधुर राग गाते सुक सुक कर  
 विजय रहो मेवाड़ ।  
 अभय रहो मेवाड़ ।  
 ( गाते हुए जाते हैं । पर्दा बदलता है । )

## दृश्य छाठा

( स्थान—उदयपुर का सर्व-अनुविज्ञास महल । राणा राजसिंह और  
महारानी कृष्णकुँवर । समय— सभ्या काल )

रानी—स्वामी, क्या यह सच है कि सलूम्बरा सरदार रावत  
रघुनाथसिंह ने मंवाड़ त्याग दिया ।

राणा—सच है ! वे अपना धर्म छोड़कर बादशाह के पास दिल्ली  
चले गये हैं ।

रानी—रावत रघुनाथसिंह जैसे चतुर राजनीतिज्ञ वीर मेवाड़ में  
कम हैं ! महाराज, उनके साथ अन्याय हुआ है ।  
सलूम्बरा का ठिकाना उनके बाप दाढ़ों के रक्त का माला  
है । आपने वह चौहानों को दे दिया ?

राणा—मैं वीर की पूजा करूँगा । पारसौकी का कंसरीसिंह वीर  
सरदार है ।

रानी—तो आप उन्हें उदयपुर की गद्दी दे सकते थे । अपने  
सरदार का मान-भंजन वीर पूजा नहीं । रघुनाथसिंह  
जो प्रकृत वीर हैं ।

राणा—मुझे मालूम हुआ था कि वह मुझसे द्वेष करता है ।

रानी—यह असत्य है—वह राज्य का सजा सेवक है ।

राणा—उसका बादशाह की सेवा में जाना ही उसे अपराधी

प्रमाणित करता है। सुना है वह बादशाह के कान  
भरकर उसे मेरे विरुद्ध उभार रहा है।

रानी—महाराज, दुष्टों ने आपके कान भर आपको सरदार के  
विरुद्ध उभाड़ा है। महाराज को चूँडा और उसके  
बंशजों का उपकार यों न भूलना चाहिये था। गही  
उनकी थी, यह तो आप जानते हैं।

राणा—परन्तु राणा होने पर तो मुझे आँखें खोलकर ही रहना  
चाहिये ?

रानी—हाँ स्वामी, यही मेरी इच्छा है। मैंने सरदार के पुत्र  
रत्नसिंह को बुलाया है।

राणा—किस लिए महारानी।

रानी—इसीलिये कि उसे बता दिया जाय कि सलूम्बरा का  
ठिकाना उन्हीं का है। आप उसे विश्वास दिलादें कि  
आप नया पट्टा रद्द कर देंगे।

राणा—ऐसा नहीं हो सकता महाराणी। राज-काज में स्त्रियों को  
अधिक रुचि रखना ठीक नहीं।

रानी—वह महाराणा के ऐसे विचार हैं तो ऐसा ही होगा !  
परन्तु स्वामिन् ! स्त्री पति की अर्द्धाङ्गिनी है। वह सब  
कुछ सहन कर सकती है पर स्वामी के यश पर बट्टा  
नहीं सह सकती।

राणा—क्या कहा-बट्टा ? कौन मेरे यश पर बट्टा लगाता है ?

रानी—महाराज की ये छोटी-छोटी भूलें। जिस वीर ने श्री एक-लिङ्ग में रत्न तुला करके भारत के नरपतियों में शीर्ष-स्थान प्रदण किया, जिस वीर ने अपनी मुजाहों के बल पर पूर्वजों के खोये राज्य को अपने प्रभुत्व के प्रारम्भ ही में प्राप्त किया। जिस वीर की यशोगाथा राजपूतों में घर-घर गाई जा रही है। जो हिन्दुसूर्य, हिन्दु-धर्म-रक्षक है उसे अपने ही सरदार के प्रति ऐसा ओछा आचरण न करना चाहिये। राजा एक बड़ा वृक्ष है और सरदार गण उसकी शाखायें हैं। उन्हीं से उसकी शोभा और पुष्टि है। महाराज, क्या आप रुष्ट हो रहे हैं।

राणा—नहीं, महाराणी मैं विचार कर रहा हूँ……

( एक दासी आती है )

दासी—घड़ी सम्मा अम्रदाता, रावल रत्नसिंह जी हयोदियों पर हाजिर हैं।

रानी—उन्हें यहीं ले आ। ( राणा जी से ) रत्नसिंह को मैं जयसिंह से किसी भाँति कम नहीं समझती। वह बड़ा विजयी, वीर और सुशील है।

( रत्नसिंह आता है )

रत्नसिंह—अम्रदाता की जय हो। सेवक को क्या आशा है?

रानी—तुमने सलूम्बरा का ठिकाना क्या राव केसरीसिंह को सौंप दिया ?

रत्नसिंह—अभी नहीं रानी जी ।

रानी—क्यों ? दरबार ने तो उसका पट्टा उनके नाम कर दिया है । इसमें विलम्ब क्यों ?

रत्नसिंह—धणी खम्मा, रानी मा, राजाज्ञा पालने में मेरी ओर से देर नहीं हुई । मैं स्वयं राव केसरीसिंहजी के पास यह कहने गया था कि वे ठिकाना दखल करें ।

रानी—राव जी ने क्या कहा ?

रत्नसिंह—उन्होंने कहा, सलूम्बरा ठिकाना चूँडावतों का है, चूँडा, वत में वाड़ की गही के रक्कक और प्रतिपालक हैं । उनके ठिकाने पर मैं अधिकार नहीं कर सकता ।

राणा—क्या रावजी ने यह कहा ?

रत्नसिंह—जी हूँ, सरकार । मैंने बहुत समझाया, परन्तु वे ठिकाना दखल ही नहीं करते ।

राणा—रत्नसिंह, क्या यह सच है कि रावत रघुनाथसिंह दिल्ली बादशाह के पास चले गये हैं ।

रत्नसिंह—हाँ महाराज ।

राणा—बिना ही मेरी आज्ञा के ।

रत्नसिंह—हाँ महाराज ।

राणा—किस लिये ? बिना मेरी आज्ञा के क्यों ?

रत्नसिंह—उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी महाराज ।

राणा—यह राजविद्रोह है। मैं उन्हें इमका दण्ड दूँगा।

रत्नसिंह—यह राजविद्रोह नहीं—आत्म सम्मान है दर्बार ! दण्ड देना न देना आपकी मर्जी है ?

राणा—मेरा सर्दार विना मेरी आज्ञा कैसे जा सकता है।

रत्नसिंह—जब श्रीमानों ने जांगीर जब्त करली तब वे सर्दार कहाँ रहे ? जहाँ आजीविका होगी वहीं वे रहेंगे।

राणा—रघुनाथसिंह अजीविका के लिये देश से बाहर गये हैं ?

रत्नसिंह—हों दर्बार ।

राणा—ओर तुम ? तुम क्या करोगे ?

रत्नसिंह—मैं, महाराज ! यहीं मेवाड़ में एक सुही अन्न प्राप्त करने की चेष्टा करूँगा।

राणा—ओर तुम्हारी यह तलबार !

रत्नसिंह—इसकी जब आवश्यकता होगी। तब यह अपना जौहर दिखायेगी।

रानी—सुना महाराज, अपने सेवकों के विचार ।

राणा—सुना ! (आगे बढ़कर रत्नसिंह को छाती से लगाकर) वीरवर तू धन्य है। सलूचर ठिकाना तुम्हारा है। मैं रावत रघुनाथसिंह को लाने को दूत भेजूँगा।

रत्नसिंह—(राणा के चरण छूकर) दर्बार ! यह तलबार, यह ग्राण, यह शरीर सब स्वदेश पर न्यौछावर है।

राणा-रानी—धन्य वीर, धन्य रत्नसिंह !

( पद्म गिरता है )

## दृश्य सातवाँ

(स्थान—दिल्ली। जाह किंचे का भौतरी मार्ग। इब्रादतगाह का कमरा। बादशाह अकेला घूम रहा है। समय—प्रातः)

बादशाह—(स्वगत) आज उस खौफनाक वक्त को ६ साल गुज्जर गये। जब समूद्राद के मैदान में दारा की फौज के मैंने धुरें उड़ा दिये थे। बदनसीब दारा, अपने सामने किसी को न लगावा था, आखिर कुत्ते की भौत मारा गया। आज भी वे खौफनाक आँखें नहीं भूलतीं—जब उसका सिर काटकर मेरे सामने पेश किया गया था। पहिले मुझे यकीन ही न हुआ कि यह दारा का सिर है। मगर फिर मैंने पहचाना—वह दारा था—वही, जो बचपन में……‘ओफ ! उन बातों को याद करना—बेवकूफी है। इसके बाद, मुराद—बेवकूफ शराबी और अषनी तलबार पर इतराने वाला, गोया वह शाहजादा नहीं सिपाही था, आज अपनी करनी को पहुँचा। और इसके बाद तभाम कॉटे चुन चुन कर कुचल डाले गये। यह सारा लम्बा असा एक खौफनाक सपने की तरह जहोजहद में बीत गया। अब मैं तख्ते ताऊस पर बैठकर कुमारी कन्या से हिमालय की चोटियों तक और काबुल से समन्दर की तहरों तक हुक्मत करता

हूँ । आज मैं दुनिया का सब से बड़ा बादशाह हूँ ।  
 मेरी ताकत का मुकाबिला कौन कर सकता है । फिर  
 अब इस कक्षीयी बाने की क्या ज़रूरत है ? यह  
 दोंग तो अब ढोया नहीं जाता । मैं बादशाह आलमगीर  
 हूँ । बादशाहत एक चीज़ है और कक्षीयी दूसरी । मगर  
 अभी दो काँटे मेरी आँखों में खटक रहे हैं । एक ये  
 मुल्ला क़ाची और दूसरे ख़ूँखार राजपूत । मुझे दोनों  
 से नफरत है । ये मुल्ला । अकल के दुश्मन, मुक्ख़द  
 और दुनिया से अंधे होते हैं । मगर रियाया के दिलों  
 पर इनकी हूँक्रमत है । इन्हें अपनाना मस्तूरत है । मैं  
 चाहता हूँ कि वे लोग उम्में कि मैं पैराम्बर हूँ । मगर  
 ये राजपूत ? ये कुछ और ही तराश के जानवर हैं ।  
 इनके लिए मरना और मारना महज खेल है ।  
 ( कुछ सोच कर ) पहरे पर कौन है ?

( एक खोजा आता है )

बादशाह—वजीर असदुल्ला को अभी हाजिर कर ।

खोजा—( कोनिस करके ) जो हुक्म खुदाबन्द । ( जाता है )

बादशाह—( दोनों हाथों से सुही मखता हुआ ) यह तो सच है कि  
 आला हज़रत ने और ज़बत नशीन बादशाह जहाँगीर  
 ने हिन्दुओं से मिलकर राजपूतों की मदद से हिन्दु-  
 स्तान पर हूँक्रमत की थी मगर आज वक्त बदल गया

है। हिन्दुस्तान के इस सिरे से उस सिरे तक दीने  
इख्लाम का सितारा छुलन्द है। मैं चाहता हूँ कि मुल्क  
में दीन की इज्जत बढ़ाई जावे।

( वज्रीर असदुल्ला आवे हैं )

बादशाह—जोधपुर की रानी गिरफ्तार हुई?

वज्रीर—हुजूर, वह कुछ राजपूतों के साथ बचकर भाग गई।

बाकी आदमी काट डाले गये। औरतें जल मरीं।

बादशाह—कौन उसे गिरफ्तार करने गया था?

वज्रीर—फौजदार तहव्वर खाँ गये थे जहाँपनाह।

बादशाह—और उनके साथ कितनी फौज थी?

वज्रीर—पाँच हज़ार खुदाबन्द।

बादशाह—राजपूत कितने थे?

वज्रीर—ठीक अर्ज़ नहीं कर सकता। कोई कहते हैं दो सौ थे,  
कोई कहते हैं पचास थे।

बादशाह—( गुस्से से ) और उन्हें लेकर रानी ५ हज़ार शाही  
फौज को कुचल कर चली गई।

वज्रीर—जहाँपनाह, देखने वाले कहते हैं कि ऐसा नज़ारा कभी  
न देखा था। जब रानी बच्चे को पीठ पर बाँध दोनों  
हाथों से ललचार घुमाती शाही फौज को चीरती हुई  
चली गई। हुजूर! लोग सक्ते की हालत में आगये।

बादशाह—शर्म की बात है! जसवन्त का लड़का गिरफ्तार  
हुआ?

बज्जीर—जी हाँ खुदाबन्द ।

बादशाह—उसे इसी जुम्मे को मुसलमान कर लिया जाय और  
उसका नाम मुहम्मदीराज रखा जाय । उसे इस्लामी  
तालीम देने की तमाम जरूरी कार्रवाहियों की जायें ।

बज्जीर—जो हुक्म जहाँपनाह ।

बादशाह—रानी कहाँ गई है । कुछ पता लगा ?

बज्जीर—वह उदयपुर के राना राजसिंह की पनाह में गई है ।

बादशाह—(ध्योरियों में बल डालकर) राना राजसिंह की तो और  
भी शिकायते हैं ?

बज्जीर—जहाँपनाह, स्वर भिली है कि उसने वे तमाम  
इलाके दखल कर लिये हैं जो आला हज़रत ने दखल  
कर लिये थे और चित्तौड़ के किले की मरम्मत जो  
शाही सुलहनामे खिलाफ होने से गिरा दी गई थी  
फिर से करली गई है ।

बादशाह—(सोचकर) बहतर । इस भसले पर फिर गौर किया  
जायगा । क्या मुला और उल्मा आये हैं ।

बज्जीर—जी हाँ खुदाबन्द, वे सब क़दमबोक्षी के लिये मुन्तजिर  
खड़े हैं ।

बादशाह—उन्हें यहाँ भेज दो और जस्तवन्तिंग के इस लड़के  
का खुब खयाल रखो ।

बज्जीर—जो हुक्म । (बज्जीर आता है । सब दोग आते हैं । )

**बादशाह**—चाइये मौलाना ! ऐ सच्चे दीनदारों, रसूले पाक ने  
इस नाचीज़ को काफिरों के इस मुल्क की बादशाह  
बनाया। सो इसलिये कि दीने इस्लाम का झड़ा  
हिन्दुस्तान में बुलन्द रहे। अर्थ मेरे सच्चे दोस्तों।  
आप बताइये कि कैसे यह सवाब का काम अंजाम  
दिया जा सकता है ?

**एक मुल्ला**—जहाँपनाह ! खुदा का शुक्र है कि हुजूर के  
ख्यालात दीने इस्लाम की हिन्दाजत और बहवूदी  
की ओर हैं। इस सवाब के बदले खुदा आपको जन्मत  
न दे तो मैं ज़मिन हूँ।

**बादशाह**—मैं चाहता हूँ कि तमाम मुल्क में दीने इस्लाम की  
रोशनी फैलाने के लिये बुतपररस्ती का खात्मा कर  
दिया जाय। इसलिये हमने तमाम सल्तनत में हुक्म  
जारी किये हैं कि जहाँ जो पुराना मन्दिर हो तो ड  
डाला जाय और उस जगह पाक भरिज्जद बना दी जाय  
**दूसरा मुल्ला**—वल्लाह ! क्या सवाब का काम किया है  
हुजूर ने।

**तीसरा**—जहाँपनाह सचमुच आलिया हैं।

**बादशाह**—मैं एक अदना दीन का खादिम हूँ। हाँ, तो इस  
हुक्म की तामील सख्ती से हो रही है और उसे  
और मुस्तैदी से अमल में लाने के लिये मैंने एक  
महकमा ही कायम कर दिया है।

सब—सुभान अल्लाह ! सुभान अल्लाह !! जहाँपनाह ने बहुत ही मुनासिब काम किया है ।

बादशाह—मैंने तमाम काफिर राजपूतों और हिन्दुओं को जिम्मेदार जगहों से हटाकर, उनकी जगह दीनदारों को दी हैं ।

सब—ऐसा ही होना चाहिये ।

बादशाह—अब आप लोग कहिये कि दीने इस्लाम की बहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है?

एक मुज्जा—हुजूर, शरथ की मन्था है कि तमाम हिन्दुओं पर जजिया लगाया जाय । जैमा कि पठान बादशाहों ने हिन्दुओं पर लगाया था । इससे दीन की तरकी होगी और खज्जाना भी बढ़ेगा ।

बादशाह—इस मसले पर भी गौर किया जा रहा है । मगर हमें ख्याल है कि राजपूत और हिंदु रईस इससे बिगड़ जायेंगे ।

मुज्जा—मगर जहाँपनाह, जो खुदा से खोफ न ते हैं, इन मकार राजपूतों से डर जाने वाले नहीं हैं जजिया का हुक्म तो ज़रूर जारी होना चाहिये ।

बादशाह—बहतर, मैं जल्द जजिया का हुक्म जारी करूँगा । अब आप लोग जा सकते हैं ।

सब मुज्जा शुक्रिया ! अब हमने समझा कि जहाँपनाह ओलिया हैं । हम खुदा से दुआ करते हैं कि जहाँपनाह के

कदम तख्ते मुगलिया पर दीने इस्लाम के लिये  
सुधारक हों। ( जाते हैं )

बादशाह—सल्तनत एक बोझा है और बादशाह उसे ढोने वाला  
गधा। ये दीन के अन्धे मुज़ा सबसे ज्यादा स्खतरनाक  
हैं। मगर इनसे ज्यादा वे मगरुर राजपूत हैं—जो  
हर तरह बर्बाद होने पर भी अपनी अकड़ छोड़ना  
नहीं जानते। उदयपुर का राजा एक आँगारा है। अगर  
जोधपुर के राठौर उससे मिलगये तो सल्तनत के लिये  
स्खतरनाक तूफान खड़ा करेंगे। एक बार अजमेर की  
ज्यारत के बहाने इनको देखना होगा।

( अद्वद्वाता हुआ जाता है )

## आठवाँ दृश्य

( स्थान—स्वपनगर का अन्तःपुर । कुछ सहेलियाँ बाग में झूल रही हैं और गा रही हैं । सावन की बहार है । समय—ग्रातःकाल )

## राग-भिंभोठी

सखि झूली और मुलाओ ।  
 शीतल पवन चलत पुरबैया ।  
 कुक भूमत तह डार पात—  
 भरत-भरत रिमझिम रिमझिम  
 सखि रोम-रोम हर्षाओ सखि भूलो ॥ १ ॥  
 क्षण में धूप क्षणोक में बादल ।  
 क्षण में बिजली क्षण में रिमझिम ।  
 छतु मनमोहन पावस आई  
 मन उमंग उमगाओ । सखि भूलो ॥ २ ॥  
 हँस हँस पैग बड़ाओ सजनी ।  
 गाओ राग जगाओ सजनी ।  
 प्रेम ज्योति के जगमग दीपक ।  
 उर में आज जलाओ । सखि ॥ ३ ॥

( परस्पर जारें जारी हैं )

एक—सुनोरी सखी, आओ आज हम राजकुमारी को खूब छुकावें ।

दूसरी—कथा करेगी री तू ?

पहिली—मैं कहूँगो कि राजकुमारी को ब्याह की फिक्र हो रही है ।

तीसरी—खूब मजा रहेगा । फिर हम पूछेंगी—उन्हे कौनसा दूल्हा पसन्द है ।

पहली—उनका दूल्हा मेरे मन में है, पर बताऊँगी नहीं ।

दूसरी—बता दे सखी ।

पहिली—नहीं बताऊँगी । हम सब जनी मिलकर उन्हीं से पूछेंगी ।

उन्हें खूब तुंग करेंगी ।

दूसरी—खूब दिल्लगी रहेगी । सुन—( कान में कुछ कहकर ) क्यों ? है न यही बात ।

पहिली—दूर हो पगली, ऐसा भी कहीं हो सकता है ! चुप, वह दासी आ रही है ।

( दासी आती है )

दासी—एक बुद्धिया राजकुमारी से मिलने की बड़ी देर से हठठान रही है । मैंने बहुत कहा, आज कुमारीजी ब्रत कर रही हैं । मुखाकात नहीं होगी । पर सुनती ही नहीं । ( हँसकर ) उसने मुझे घूँस में यह सुर्मे की शीरी दी है ।

एक सहेली—कथा करामात है इस सुर्मे में ? देखू—

दूसरी—इसे आँख में लगाने से एक के दो दीखते हैं ।

तीसरी—तब तो बहुत अच्छा है, एक शीरी मैं भी लूँगी ।

दासी—उस बुढ़िया को क्या कहदूँ ?

पहिली—यह तो कह, वह है कौन ?

दासी—मुसलमानी है ? दिल्ली से आई है, मिस्सी, सुमाँ और तस्वीरें बेचती हैं। कहती है राजकुमारी के लिए तस्वीरें लाई हूँ ?

पहिली—अरी उसका रंग रूप कैसा है ?

दासी—मुँह में एक दाँत नहीं, चहरे पर लकीरें ही लकीरें, आँखों में सुरमा और मुँह में पान।

पहिली—अरे वाह, उसके यह ठाठ ! यहाँ भेजदे उसको जारा। दिल्लिगी ही रहेगी।

दासी—बहुत अच्छा। (जाती है)

पहिली—चरा दिल्ली का हाल चाल ही जाना जायगा। सुना है मुझा नया बादशाह बड़ा काँइयाँ हैं।

दूसरी—हत्यारा, भाइयों के सिर काटकर तख्त पर बैठा है।

पहिली—तुप वह आरही है शैतान की नानी।

( बुढ़िया आती है )

एक—बुढ़ी तेरे पोपले मुँह में कितने दाँत हैं ?

बुढ़िया—बेटी में दिल्ली रहती हूँ।

दूसरी—दिल्ली में बिल्लियाँ बहुत हैं ?

बुढ़िया—मैं तस्वीरें बेचती हूँ, मेरा बेटा मुसौब्बर है।

पहिली—तू पत्थर है, दिल्ला कैसी तस्वीरें हैं ?

बुद्धिया—(सब को धूर कर) मगर मेरी तस्वीरें तुम्हारे लायक नहीं हैं, वह राजकुमारी के लिए लाई हूँ।

( सब जोर से खिलखिलाकर हँसती हैं )

बुद्धिया—तुम हँसती क्यों हो ?

एक—हँसी की बात ही है ( आगे बढ़कर ) मैं राजकुमारी हँस-दिखा तस्वीर।

दूसरी—दूर हो, राजकुमारी मैं हूँ, कहाँ हैं तस्वीरें ?

तीसरी—इधर देख मैं हूँ राजकुमारी।

बुद्धिया—( रोकर ) या खुदा या तो ये सभी राजकुमारियाँ हैं या एक भी नहीं।

( सब खिलखिला कर हँसती हैं। राजकुमारी चारूमती आदी है—सब सखियाँ उप हो जाती हैं )

कुमारी चारूमती—तुम सब इतना क्यों हँस रही हो।

एक—यहाँ एक दिल्ली की नूढ़ी चिल्ली आई है।

कुमारी—बेचारी बुद्धिया को तंग न करो—कौन है वह ?

एक सखी—वह दिल्ली की तस्वीर बेचने वाली है। चुड़ैल कहती है तस्वीरें हमारे लायक नहीं—कुमारी जी के लिये है।

चारूमती—( मुस्करा कर ) मेरे लिये जो तस्वीर लाई हो दिखाओ।

बुद्धिया—मैं कुर्बान। कुमारीजी, तुम नो खुद ही एक तस्वीर हो।

चारूमती—तुम अपती तस्वीरें तो दिखाओ।

बुद्धि—देखो—ये अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, नूरजहाँ की तस्वीरें हैं।

चारुमती—क्या तुम्हारे पास हिन्दू राजियों की तस्वीरें नहीं हैं?

बुद्धि—जी हाँ हैं। राजा मानसिंह, जगन्मिह और जयसिंह की तस्वीरें हैं देखिये।

(निकाल कर देती है)

कुमारी—ये हिन्दू राजियों की तस्वीरें नहीं हैं, बादशाह के नौकरों की हैं।

बुद्धि—( और तस्वीरें निकालकर ) यह राणा प्रतापसिंह, अमरसिंह, करनसिंह, जमवन्तसिंह की तस्वीरें हैं।

चारुमती—हाँ इन्हें रख दो, इन्हें मैं भाल लूँगी। वह कौन तस्वीर तुमने छिपाली?

बुद्धि—माफ कीजिये राजकुमारी! वह तुम्हारे दुरमन की तस्वीर है।

चारुमती—किसकी है दुरमन?

बुद्धि—उदयपुर के राना राजसिंह की हैं। वे तुम्हारे पिता के बैरी हैं।

चारुमती—वीर राजपूत स्त्रियों मे बेर नहीं करते। यह तस्वीर मैं भोल लूँगी। (संकियों से) संकियों, देखो, यह एक सच्चे राजपूत की तस्वीर है। (बुद्धि से) और किस-किस की तस्वीरें हैं।

बुद्धिया—देखिये—यह आलमगीर बादशाह की तस्वीर है।

चारुमती—अजब तस्वीर है। मैं इसे जूते की नौक पर मारती हूँ।

बुद्धिया—खामोश, अगर बादशाह सुन पावेंगे तो रूपनगर के किले की एक ईंट तक न मिलेगी।

चारुमती—यह बात है? सहेलियों, इस तस्वीर पर बारी-बारी से एक-एक लात मारो।

(सब बारी-बारी से ज्ञात मारती हैं)

चारुमती—जिसने अपने सगे भाइयों के रक्क से हाथ रेंगे, और अपने बूढ़े बाप को कैद कर के तख्तेताऊस पर अशुभ चरण रख मुगलों के इतिहास को कर्लंकित किया है, उसकी एक राजपूतनी यही प्रतिष्ठा कर सकती है। लो बीस मुहर दाम और बीस मुहर इनाम। जाओ।

(बुद्धिया हक्का-बक्का हो कर जाती है, सहेलिया दंग रह जाती है)

(पद्मा गिरता है)

## अङ्क दूसरा

### पहिला दृश्य

(स्थान—दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने का मैदान। मस्जिद में जुमे की नमाज की धूमधर्म सो रही है। आम गते पर बहुत से इन्द्रियों की घोड़ इकट्ठी हो रही है। बुलसवार सिपाही भीढ़ दूरजा चाहने हैं। समय—ग्रन्तःकाल)

एक सिपाही—(एक नागरिक से) कौन हो जी तुम ?  
नागरिक—क्या मैं ? यह तो तुम अन्दाज से ही जान सकते थे—  
मेरे एक नाक, दो कान, एक सुँह, दो हाथ, दो पैर  
हैं, जैसे कि तुम्हारे हैं।

सिपाही—हम पूँछते हैं जी कि तुम क्या काम करते हो ?  
नागरिक—बहुत से काम करता हूँ। टेढ़ों को सीधा करता हूँ  
सीधों को झुका देता हूँ। तुम्हारा कुछ काम हो  
तो कहो ।

सिपाही—रहते कहाँ हो ?

नागरिक—इसी शहर में।

सिपाही—हिन्दू कि मुसलमान ।

नागरिक—हिन्दू।

सिपाही—तो चलते फिरते नज़र आओ।

नागरिक—क्यों? किसलिये?

सिपाही—हुक्म नहीं है।

नागरिक—क्यों हुक्म नहीं है?

सिपाही—बहस करता है! बदज्जात!

नागरिक—गाली मत देना, खबरदार! जानते हो मैं टेढ़ों को सीधा……

सिपाही—(धक्का देकर) तो ले—हो सीधा……

(दोनों में गुथमगुल्या होती है भीड़ इकट्ठा हो जानी है)

एक—क्या मामला है, क्या भमेला है?

नागरिक—मिया जी कहते हैं चलते फिरते नज़र आओ—गाली देते हैं और गर्दन नापते हैं।

दूसरा—अन्धेर है अन्धेर, गाली क्यों दी जी!

तीसरा—और हाथापाई क्यों की?

चौथा—यह तो अन्धेरगर्दी!

पाँचपाँ—बीच बाजार यह जुल्म!

सिपाही—यहाँ यह क्यों खड़ा था?

नागरिक—सड़क पर खड़े थे, सड़क किसी के बाप की नहीं है।

दो चार आदमी—बेशक, रास्ते पर लोग चलने फिरने भी अब न पावेंगे।

साथ—अन्धेर है, अन्धेर!

सिपाही—हुक्म नहीं है, हुक्म ।

एक—हुक्म क्यों नहीं है ?

सिपाही—जहाँ पनाह की सवारी जुमे की नमाज़ अदा करने को आ रही है, तुम गन्ने हो ।

दूसरा—(भीड़ में से) गधे तुम हो । हम बादशाह मलामत से अर्ज़ करने आये हैं ।

सिपाही—किसने हमें गाली दी । उसे हम गिरफ्तार करेंगे । पकड़ो उसे ।

दो चार नागरिक—गाली तुमने दी तुमने ।

( १०१२० आदमी इकट्ठे हो जाते हैं )

सब—क्या हुआ ? क्या हुआ ?

दो चार—हंगामा हो गया—जुल्म है जुल्म ।

दो चार और—अन्धेर है अन्धेर ।

झुछ लोग—क्या हुआ भाई, क्या हुआ ?

एक—यह सिपाही कहता है यहाँ से हट जाओ ।

दो चार—क्यों हट जायें । हम यहीं जमे रहेंगे ।

एक—हम जहाँ पनाह से अर्ज़ करने आये हैं । अर्ज़ बिना किये नहीं हटेंगे ।

दो चार—हम अपनी जान देंगे ।

(एक अफसर बोका दौड़ाता हुआ आता है)

अफसर—यह क्या हंगामा है ?

सिपाही—ये सरकश बासी लोग इकट्ठे हो रहे हैं ।

सब लोग—हम नागरिक हैं। हम जहाँपनाह से अर्ज करने आये हैं।

सिपाही—इन्होंने बादशाह सलामत को गाली दी है। ये सब फसाद करने को आमादा हैं। ये सब बारी हैं।

सब—हम बादशाह सलामत से अर्ज करेंगे।

अफसर—तुम सबको तोप के मुँह पर उड़वा दिया जायगा।

सब—हम अपनी जान हथेली पर धरे हुए हैं। हम भर भिट्ठेंगे पर अर्ज किये चिना न जायेंगे।

( किले से तोपों की सलामी दागी जाती है )

अफसर—तुम सब लोग भाग जाओ, जहाँपनाह जुमे की नमाज अदा करने तशरीफ ला रहे हैं।

सब—हम हजरत सलामत से अर्ज करेंगे। हम.....

अफसर—(उत्तरों से) घोड़े छोड़ दो और रोंद डालो बदमाशों को।

(घोड़ों से कुचले जाकर कुछ लोग चिल्लाते हैं। बादशाह की सवारी आती है। नकीब चिल्लाते हैं)

नकीब—(उच्च स्वर से) रास्ता करो—रास्ता करो—हटो—बचो।

सब—दुहाई खुदाबन्द। हमारी अर्ज सुनी जाय। हम गरीब हिन्दू जजिया नहीं दे सकते।

एक—जजिया हमारे बाप-दादों ने भी कभी नहीं दिया।

दूसरा—जन्मत नशीन जलालुद्दीन अकबर शाह ने उसे माफ कर दिया था। उसके बाद बादशाह जहाँगीर ने और आला हजरत शाहैजहाँ ने भी उसे माफ रखा था।

सब—(चिन्हाकर) जजिया मार किया जाय। हम नहीं दे  
मकते—हम नहीं देणेम

बजीर—हटो—बचो—रास्ता साऱ करो।

कुछ लोग—सड़क पर लेट जाओ। हम अर्जी बिना मंजूर किये  
न हटेंगे। (बहुत से लोग सड़क पर लेट जाते हैं)

बादशाह—यह क्या हंगामा है।

बजीर—दुनूर शहर के हिन्दू जमा हैं।

बादशाह—(त्वारियों में बढ़ डाककर) किस लिये?

बजीर—जजिया के खिलाफ जहाँपनाह की खिदमत में अर्ज करने  
बादशाह—उन्हें रास्ते से हटाओ।

बजीर—वे रास्ते पर लेट गये हैं। वे कहते हैं हम अर्जी कुबूल  
कराकर हटेंगे।

बादशाह—(कुछ स्वर से) उन पर मस्त हाथियों को छोड़ दो।

(भीड़ पर मस्त हाथी छोड़े जाते हैं। लोग कुचले जाकर चौखते चिल्लाते  
रोते पीढ़ते भागते हैं। बहुत से मारे जाते हैं)

## दूसरा दृश्य

स्थान—उदयपुर। समय—मध्याह्न। महाराणा राजसिंह का दर्ता।

महाराणा गही पर बिराजमान हैं। खास-खास सरदार अपने-अपने स्थानों पर बैठे हैं राठौर दुर्गादास और सेनिक सामने नहीं हैं।

राणा—(शोक पूर्ण स्वर से) तो जोधपुर आज अनाथ हुआ।  
राठौरपति जसबन्तसिंह अब नहीं है ?

दुर्गादास—हाँ महाराणा, अपने देश और मित्रों से दूर जमरु द के किले में उन्होंने वीर प्राण त्यागे।

राणा—एक सरवर उठ गया। (सिर झुका लेते हैं)

दुर्गादास—हम लोग—महाराज ! रानियों और राजपरिवार के सहित मारवाड़ लौट रहे थे। लाहौर में हमें रुकना पड़ा। रानी मां ने वहाँ कुँवर को जन्म दिया।

राणा—जोधपुर का यह भावी राजा चिरजीवी हो।

दुर्गादास—अननदाता का आशीर्वाद सफल हो। परन्तु हमारी दुर्दशा की कहानी अत्यन्त करुण है।

राणा—कहो ठाकुर, मेवाड़ राठौर राजवंश की हर विपत्ति में उसके साथ रहेगा।

दुर्गादास—महाराणा की जय हो। इसी आशा से मैं शरण आया हूँ। लाहौर में हमें सबर मिली कि इधर महा राज का स्वर्गवास हुआ और उधर दिल्ली में पाटवी कुँवर पृथ्वीसिंह मार ढाले गये।

राणा—( आश्चर्य से ) हैं ! मार डाले गये ?

दुर्गादास—( आँख भरकर ) हाँ महाराणा, बादशाह ने उन्हें  
दर्बार मे बुलाकर खिलत दी थी वह विष मे रंगी थी ।  
कुमार खिलत पहन घर लौट रहे थे-मार्ग ही में उनका  
प्राण निकल गया ।

राणा—पिता को कैद करने और भाइयों को क़त्ल करने वाला  
क्र बादशाह जो न करे सो थोड़ा ।

दुर्गादास—यह वज्र के समान खबर मुनकर भी हमने नवशिष्य  
के जन्म पर सन्तोष किया, पर हमें तुरन्त ही खबर  
मिली कि लावारिस होने के कारण जोधपुर खालसा  
कर लिया गया है । रानियाँ और राज परिवार को  
लेकर हमें दिल्ली हाजिर होना चाहिये ।

राणा—यह किमलिये ठाकुर ?

दुर्गादास—बादशाह को विश्वास नहीं हुआ कि रानी को और  
कुँवर जन्मा है, वह उसकी तस्टीक किया चाहता था ।

राणा—अवश्य इसमें कोई गूढ़ उद्देश्य होगा ।

दुर्गादास—ऐसा ही था महाराज ! दिल्ली जाकर हम रूपनगर  
की हवेली में ठहरा दिये गये । वहाँ जाते ही शाही  
सेना ने हमें घेर लिया और बलपूर्वक कुमार को  
माँगा । अन्त में हमें प्राणों पर खेलना पड़ा कुमार  
को किसी भाँति बचाकर हम मुगल सैन्य की छाती  
पर पैर रख निकल भागे । महाराणा, इस विपक्षि

समुद्र से मैं, मुकुल्ददास, सोनिंग और महारानी बच्ची  
शेष सब कट मरे-राजवर्ग की सब स्त्रियाँ वहीं जल  
कर खाक हो गईं । पर कुँवर की रक्षा हो गईं ।

**राणा**—(ओषध और आवेश में) धन्य शुरू, धन्य वीर । कुमार और  
रानी अब कहाँ हैं ।

**दुर्गादास**—अन्नदाता की शरण में ।

(सोनिंग को संकेत करता है । वह कुमार शिशु को लाकर राणा की  
गदी पर डाक देता है)

**राणा**—(तलवार छूकर) शरणागत को अभय । ठाकुर दुर्गादास,  
जब तक मेवाड़ में एक भी वीर तलवार पकड़ने योग्य  
है तब तक मारवाड़ का यह भावी अधीश्वर मेवाड़  
की छत्रछाया में फले-फूले ।

**दुर्गादास**—महाराणा की जय हो । महाराज (बालक को गोद में  
ढांडा लेता है) मारवाड़ के अनाथों पर आपने बड़ी  
कृपा की ।

**राणा**—कृपा नहीं दुर्गादास, यह तो धर्मपालन है । जो राजा  
धर्म का पालन न कर, शरणागत को विमुख करे वह  
अधर्मी है । बादशाह आलमगीर ने प्रारम्भ ही से  
आनंद किया है । उसका राज्यारोहण रक्षपात और  
अन्याय से हुआ है जिस मुगल साम्राज्य की जड़  
राजपूतों की उत्तराधिराजों को खटीद कर अक्षबद, जहाँगीर

और शाहजहाँ ने मञ्चबूत की—उसे यह आलमगीर सोखली कर रहा है। राजपूताने की जिस वक्त सोई हुई आत्मा जाग उठेगी मुगल तख्त भस्म हो जायगा।

दुर्गादास—महाराणा ! दुर्भाग्य से राजपूताना सो रहा है, आत्म-सम्मान और संगठन के भाव उसने भुला दिये हैं। इसी से उसकी वीरता में कारिख लग गई है। इसे जगाना होगा। महाराज ! आप हिन्दू-पति हैं। आपकी ओर तमाम राजपूताने की दृष्टि है। राठोरों की बाँह आपने गही है। राठोरों की तलवारें आपके चरणों में हैं।

राणा—वीरवर, निश्चय रखो। राठोर और सीसोदियों की शक्ति मिलकर मुङ्गल साम्राज्य का विघ्वश कर देगी परन्तु अभी हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ, महाराणी अब कहाँ हैं। मेवाड़ के राजमहलों की यदि वे शोभा बढ़ावेंगी तो यह मेवाड़ का सौभाग्य है।

दुर्गादास—धन्यवाद, महाराणा ! रानी मा और हम लोग अब मारवाड़ को जगावेंगे। हम धर-धर अलख जगावेंगे। हम विपत्तियों की पहाड़ियों को चकनाचुर करेंगे। जब तक हमारा प्यारा जोधपुर स्वाधीन न हो जायगा।

राणा—धन्य वर, धन्य राठोर ! अभी मैं जोधपुर के भावी अधिपति के गुजारे के लिए १२ गाँवों सहित केलवे का पट्टा लिख देता हूँ।

दुर्गादास—महाराणा की जय ! अब हमें आज्ञा हो तो देश प्रेम  
और देशभक्ति के जोग साधने को हम घर-घर अलख  
जगावें और ऐसा सरंजाम करें जिससे मुगल तख्त  
एक दिन जल कर राख हो जाय ।

राणा—जाओ वीरवर ! समय पर यह अवश्य होगा ।

( परदा गिरता है )

---

## तीसरा दृश्य

( स्थान—दिल्ली का रंगमहल । शाहजादी जेबुनिसा का खास कमरा  
समय—प्रातःकाल । शाहजादी जेबुनिसा अकेली अस्तव्यस्त  
अपने कमरे में बैठी है । )

शाहजादी—( रवगत ) रुए जमीन के इस वहिश्त की जहाँ हवा  
को भी विना हुक्म अन्दर आने की ताब नहीं, आज  
मैं मलिका हूँ । अब्बा पर रोशनआरा के बड़े-बड़े  
अहसान हैं । कुछ दिन इसी से उसने रंग महल पर  
हक्किस्मत की । बादशाह आलमगीर नहीं रोशनआरा  
बैगम हैं । मगर वे दिन लट गये । मेरी बेचारी तीन  
बहनों की किस्मतें अब्बा ने मेरे बदकिस्मत चच्चाजात  
कैदी भाइयों के साथ शादी करके बांध दीं । मगर मैं  
वह पर्छी नहीं जो क्रैंड होकर रहूँ । बसन्त में भौंरा  
मयेन्ये फूलों का रस लेता है, गूंजता है, वह कैसा  
प्यारा लगता है । मगर इस अदूट वरिया के न थमने  
वाले बहाब का अंजाम क्या होगा ? ( कुछ सोचकर )  
क्या परवाह है, मैं जेबुनिसा हूँ, मुगल बादशाहों के  
इस रंगमहल की रानी मैं हूँ ।

( बांदी आती है )

बांदी—हज़रत बेगम साहेबा, वी फितरत हज़र कदमबोसी की खास्तगार है।

शाहजादी—जहनुम में जाय वह बांदी। अभी मुलाकात नहीं होगी। वह आईना इधर कर।

बांदी—(आईना सामने करके) खुदाबन्द ! वह कहती है राजपूताने से बढ़िया सुर्मा आया है।

शाहजादी—(चोंककर) यह तो अच्छी खबर मालूम देती है, कौन है वह।

बांदी—हज़र फितरत।

शाहजादी—उसे यहीं भेज दे।

बांदी—जो हुक्म।

(जाती है)

जेबुन्निसा—(स्वगत) फितरत काम की खबर लाती है। देखें, इस बार क्या खबर लाई है। यह राजपूताने का सुर्मा क्या माने ? (कुछ सोचकर) राजपूताना ! अजब-यह-शत है इस नाम में।

(फितरत आजर जमीन चूमती है)

शाहजादी—इस वक्त क्यों आई शैतान।

फितरत—हज़र काम की खबर है।

शाहजादी—कह।

फितरत—जो बख्शीश दें तो कहूँ।

शाहजादी—कह न।

फितरत—मैं राजपूताना से आ रही हूँ, रुपनगर गई थी ।

शाहजादी—(त्योरियों में बल डालकर) किर ?

फितरत—मेरे पास तस्वीरें थीं, वे मैंने वहाँ की राजकुमारी को दिखाईं ।

शाहजादी—कौन २ तस्वीरें थीं ।

फितरत—सभी बादशाहों की थीं हुजूर !

शाहजादी—खबर क्या है ?

फितरत—एकदम गुस्ताखाना फेल ।

शाहजादी—कह बदज्जात ।

फितरत—(हाथ जोड़कर) खुदाबन्द ! मेरे पास हजरत पीर दस्त-गीर आलमगीर की तस्वीर थी, वह मैंने राजकुमारी को दिखाई थी ।

शाहजादी—शिजदा किया उसने ।

फितरत—तोवा-तोवा ! हुजूर उसने तस्वीर की तौहीन की ।

शाहजादी—क्या किया ?

फितरत—वह कल्पा ज्वान पर नहीं ला सकती ।

शाहजादी—तो तुम्हे कुत्तों से नुचचाऊँ ?

फितरत—(गिरणिडाकर) हुजूर शाहजादी ! गुलाम की जान बख्शी जाय तो अर्ज करूँ ।

शाहजादी—कह फिर, हरामजादी ।

फितरत—उस मरालर काफिर लालूकी ने हजरत की तस्वीर पर काल मारी ।

शाहजादी—(चैक्कर) लात ?

फिरत—और यही उसकी सहेलियों ने किया ।

शाहजादी (होठ चबाकर) फिर !

फिरत—हुजूर, मैं अपनी जान लेकर भागी ।

शाहजादी—(सोचकर) खूबसूरत है वह ?

फिरत—क्या कहाँ हुजूर, तस्वीर की मानिन्द ।

शाहजादी—सिन क्या है ?

फिरत—सरकार, अभी अधिखिली कली है ।

शाहजादी—हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या ?

फिरत (दोनों कानों पर हाथ रखकर) तोबा-तोबा ! कहाँ हुजूर  
शाहजादी—कहाँ वह बाँदी ।

शाहजादी (हंसकर) हज़रत उद्यपुरी बेगम की बनिस्वत ?

फिरत—(हंसकर) हुजूर ! वह चाँद का टुकड़ा है ।

शाहजादी—वस्त्रीश मिलेगी (पुकार कर) कोई है ?

एक तातारी बांदी नगी तज्ज्वार लिए आती है)

बाँदी—हुक्म ।

शाहजादी—रंगमहल के खजानची पर इस औरत को इनाम का  
परवाना जारी करने को मीर मुन्शी से कह दे ।

(बुढ़िया से) दूर हो शैतान ।

(बुढ़िया और बाँदी जाती है ।)

शाहजादी—(स्वगत) काम की स्वबर है । अब उस जर्जियाना बाँदी  
का गुम्बर मुझे नहीं वर्दाशत होता । इस रंग महल का

वही एक खटका है। वह काफिर अब्बा को अपने चुड़ल में बुरी तरह फॉसे है। वह भूल गई है जब बर्दाफरोशों के हाथ से उसे बदनसीब दारा ने खरीदा था। आज वह मलिका है। और मुझे भी उसे सलाम करना पड़ता है। कम्बख्त कृत्तान हर दम शराब में बुत बनी रहती है। उसे खोद निकालने का यह अच्छा खासा जरिया होगा। यह राजपूत मगारूर लड़की अगर बादशाह की बेगम बन सके। ( उच्च सोचकर) ठीक है। वह आग जलाऊँ कि जिसका पार नहीं।

( खोचती है। पद्मि गिरता है। )

## चौथा दृश्य

(स्थान—मेवाड़ का बिकट घन। एक पहाड़ी पड़ाव। समय—सन्ध्या-  
काल। भीलों की एक छोटी सी बस्ती। एक बूढ़ा थका हुआ ब्राह्मण  
सिर पर बड़ा सा बोझा लिये आता है )

ब्राह्मण—अरे भाइयों, इस ब्राह्मण को आज रात आश्रय मिलेगा ?  
एक भील—कौन हो तुम ?

ब्राह्मण—ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ देवता हैं।  
( सब भील खड़े हो जाते हैं )

एक बूढ़ा भील—( आगे बढ़कर ) तुम्हारे साथ देवता हैं ?  
ब्राह्मण—हाँ भाई !

भील—कहाँ से आ रहे हो ?

ब्राह्मण—कहाँ से बताऊँ भाई। मेरी दुःख की कहानी बहुत  
भारी है। बैठो तो कहूँ। आज रात आश्रय दोगे ?

भील—आराम से बैठो। आग जल रही है। देवता को सिर से  
उतार लो।

( ब्राह्मण सिर से बोझ उतार एक ढँची जगह रखता है )

भील—( निकट आकर ) अब कहो।

ब्राह्मण—मैं जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, जैसलमेर सब राजपूताना  
घूम आया।

भील—किस लिये ब्राह्मण देवता ?

**ब्राह्मण—**(गद्गद कण्ठ से) देवता की रक्षा के लिये । जो देवता जगत की रक्षा करते हैं । जिनकी कृपा से मेघ जल बरसता है रात्रि चाँदनी बख्तेरती है । सूर्य तपता है । दिन सौन्दर्य बख्तेरता है, आज भारत में उनकी रक्षा नहीं हो सकती । आर्यों की भूमि भारत से धर्म उठ गया ।

**भील—**नहीं, कौन देवता का अपमान करता है । हम उसे मार डालेगे ।

**ब्राह्मण—**मौले भाइयों ! तुम्हारी शक्ति से बाहर की बात है । जिसके भय से राजपूताना थर-थर कॉपता है । राजा और महाराजा जिसकी सेवा ने खड़े रहते हैं, उसी के भय से मैं देवता के लिये इस द्वार से उस द्वार और उस द्वार से इस द्वार मारा-मारा फिर रहा हूँ—उसी के भय से कोई सुभे आश्रय नहीं देता । तुम भी उससे मेरे देवता की रक्षा नहीं कर सकते ? (आँखों से आँसू पौछता है)

**भील—**कौन है वह ऐसा बली ?

**ब्राह्मण—**आलमगीर बादशाह । जिसने बाप को कैद करके और भाइयों को कत्ल करके दिल्ली के तख्त को कलंकित किया है । जो मुगल बंश का राहू होकर जन्मा है । उसने हिंदुस्तान के तमाम मन्दिरों को ढहवाना शुरू कर दिया है । देश के बड़े-बड़े प्रसिद्ध धर्मस्थान ढहकर

आज खरण्डहर हो गये । देवताओं के अङ्ग खरण्ड-  
खरण्ड हो गये । पर कोई हिन्दुओं की लाज रखने  
वाला माई का लाल ऐसा नहीं जो इस पाप से  
भारत का उद्धार करे ।

भील—(उत्तेजित होकर) ऐसा न कहो । धरती कभी वीरविहीन  
नहीं होती है । ऐसा ही एक वीरवर अभी भी पृथ्वी  
पर है ।

ब्राह्मण—कौन है वह ?

भील—महाराणा राजसिंह, मेवाड़ का अधिपति । हिन्दुसूर्य ।

ब्राह्मण—मैंने उसका यश सुना है और मैं वहीं जा रहा हूँ ।

क्या शरण मिलेगी ?

भील—अवश्य मिलेगी । तुम्हारे साथ कौन देवता हैं ।

ब्राह्मण—द्वारिकाधीश हैं । हम लोग गोवर्धन से भागे आ रहे हैं

भील—ब्राह्मण देवता, स्नान पूजन करके देवता को भोग लगा

निर्भय विश्राम करो । देवता की प्रतिष्ठा मेवाड़ की  
वीर भूमि मे अवश्य होगी ।

ब्राह्मण—(प्रसन्न होकर) भगवान् आपकी वाणी सुफल करे ।

(आँख मीच कर भगवान् की प्रार्थना करता है )

( पर्दा बदलता है )

## पाँचवाँ दृश्य

स्थान—दिल्ली का लाल किला । रंगमहल का भीतरी भाग ।

उदयपुरी बेगम का शयन कक्ष । बादशाह और गज़ेब और  
उदयपुरी बेगम बातें कर रहे हैं । (समय—सात्रि)

उदयपुरी बेगम—(शराब का प्याला भरकर) लीजिए जहाँपनाह,  
यह प्याला अपनी उस चहेती के नाम पर, जिसने  
हुजूर की तस्वीर को जूतियों से कुचल डाला । (प्याला  
बढ़ाती है) ।

बादशाह—(गुस्से में भरकर) शराब रहने दो, यह कहो कि यह  
खबर तुम्हें किसने दी ?

बेगम—(नखरे से) हुजूर, उड़ती चिड़िया खबर दे गई । फिर  
इसमें भलाल ही क्या—हसीनों के चोचले ही जो ठहरे ।  
अगर हुजूर को उस नाज़नी के नाम का यह प्याला पीने  
में दरेगा है तो बन्दी ही पीती है । (प्याला पीकर) बाह,  
क्या लज्जीज शराब है । ये फरंगी शराब बनाने में  
लाजवाब है । तो जहाँपनाह……

बादशाह—मैं तुमसे सही तौर पर यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें  
यह खबर किसने दी ?

बेगम—किसी ने दी, मगर है सच । (दूसरा प्याला भरती है)

बादशाह—बेगम, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किस क़दर प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि जिस शराब के पीने की सल्तनत भर में मनाही है, तुम्हारे महल में नहीं।

बेगम—( शराब भरती हुई ) जानती हूँ जहाँ पनाह। मगर लोडी का इतना ख्याल उस रुपनगर की रानी के बाद रहेगा या नहीं यह कौन जाने ? ( हसकर ) जाने दीजिए, जो होगा देखा जायगा। लीजिए एक जाम पीकर राम गलत कीजिये।

बादशाह—मुझे माफ करो बेगम ! मैं संजीदी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह खबर सच है ?

बेगम—एकदम सच ।

बादशाह—तुम यह कहना चाहती हो कि तुम्हें यह खबर तुम्हारे मातवर आदमी ने दी है ?

बेगम—बेशक ! ( प्याला पिकर ) हुजूर का इरादा क्या है ?

बादशाह—मैं रुपनगर की ईंट से ईंट बजा दूँगा।

बेगम—बादशाह आलमगीर के लिये यह एक अदना काम है। मगर इसी सिलसिले में क्या हुजूर मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे।

बादशाह—कौनसी ख्वाहिश बेगम !

बेगम—एक छोटी सी ख्वाहिश।

बादशाह—आखिर सुनूँ भी।

बेगम—महज मजाक।

बादशाह—तुम क्या चाहती हो बेगम ?

बेगम—हुजूर, ये बदशाह गेंडे की सी शक्तिवाली बाँदियाँ मेरा तम्बाकू ठीक तौर पर नहीं भर पाती हैं। सुना है राजपूताने की बाँदियाँ तम्बाकू भरना स्वयं जानती हैं। क्या मज्जा हो जो यह रूपनगर की बाँदी मेरा तम्बाकू भरे। जहाँपनाह यह अदना भी मेरी कर्माइश है।

बादशाह—( उठते हुए ) तुम्हारी यह अदना कर्माइश पूरी की जायगी। रूपनगर की वह बाँदी तुम्हारा तम्बाकू भरेगी।

बेगम—( खुश होकर प्याला भरती हुई ) शुक्रिया जहाँपनाह। तो इसकी खुशी में हुजूर एक प्याला इस चिलायती शराब का न पीजियेगा ?

बादशाह—नहीं बेगम, अभी मुझे बहुत काम है।

( जासा है )

## छठा दृश्य

( स्थान—रूपनगर के राजा का दीवानखाना । राजा और मन्त्री बातें कर रहे हैं । समय—अप्रान्ह । )

मन्त्री—महाराज ! आज ही दिल्ली को जवाब देने का आस्तिरी

दिन है । आज शाही क्रासिद को विदा करना होगा ।

राजा—मैं इतना अधम नहीं । जीते जी अपनी कन्या विधर्मी को नहीं दूँगा । मेरे तन में चत्रिय रक्ष है । मेरे पूर्वजों ने अपनी आन पर प्राण दिये हैं । बादशाह को लिख दो । हमें उनका प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है ।

दीवान—महाराज ! कल्पना कीजिए, कि अभी तो बादशाह ने विनय शिष्टाचार से राजपुत्री की याचना की है, यदि वह ज्ञोर जुल्म पर उतारू हो कर बल से कुमारी का ढोला ले जाय तो कौन हमारी रक्षा करेगा ? राजपूताने के सभी राजपूतों की बेटियाँ शाही रंग महल की शोभा विस्तार कर रही हैं । एक दो जो बच रहे हैं उनकी गिन्ती डँगली पर गिनने योग्य है । वे तभी तक बच सकते हैं जब तक शाही क्रूर दृष्टि उनकी ओर न हो । फिर जो लोग शाही रिश्तेदार हो चुके—वे अपने मुँह की कालिख पोंछने को चाहते हैं कि दूसरे राजपूत कच्छों अद्भुते बच रहे हैं । फिर राजपूतों में संघठन नहीं;

एकता नहीं। स्वर्थ और घमण्ड ने राजपूतों की बीरता और तलवार की धार को उन्हीं के लिए शाप बना दिया है। इससे महाराज, इस विषय पर जैसा ठीक समझे विचार कर ले।

राजा—विचार हो चुका—मैं शाही महल में लड़की नहीं दूँगा।  
दीवान—तो महाराज, इस छोटे से राज्य की कुशल नहीं। हमें अपना सब कुछ खोना पड़ेगा।

राजा—मैं खुशी से सर्वस्य दूँगा। पर अपने राजपूती जीवन पर दाग न लगाऊँगा।

दीवान—अभयदान मिले तो और एक बात निवेदन करूँ।

राजा—निर्भय होकर जो चाहे कहिये। आप राज्य के पुराने शुभचिन्तक और हमारे मित्र हैं। आप कभी कष्टी बात न कहेंगे।

दीवान—महाराज, आत्मरक्षा का एक और उपाय है।

राजा—वह क्या?

दीवान—रणराजसिंह को राजकुमारी व्याह दीजिये। रणराजसिंह इस समय राजपूताने का दैदीप्यमान नज़र हैं। वह परम राजनीतिज्ञ, चतुर, कर्म, वीर और प्रतापी है। राजपूताने का वही केन्द्र है। उसकी मित्रता और सम्बन्ध भविष्य में हमारे लिए परम सुखद होगा।

राजा—यह असम्भव है, दीवान जी, जिस शत्रु ने मेरे राज्य पर आक्रमण करके मेरा गढ़ छीन लिया है उसे तो मैं इसी तलवार का तीखा पानी पिलाने का इच्छुक हूँ। उसे मैं बेटी दूँगा ?

दीवान—महाराज, बड़े स्वार्थों की रक्षा के विचार से छोटे मोटे स्वार्थ त्यागने पड़ते हैं। यह अवसर क्रोध करने का नहीं है। राजनीति कहती है कि यदि हम राणा का यह अपराध क्रमा कर उसके पास राजकुमारी के सम्बन्ध का सन्देश भेजेंगे, तो सब ओर कल्याण ही कल्याण है। पहिली बात तो यह होगी कि राजकुमारी को सर्वश्रेष्ठ घर-बर मिलेगा और उसकी चिन्ता के भार से हम मुक्त होंगे। दूसरे राजसिंह जैसे शत्रु से मित्रता होगी। तीसरे राजपूतों के संगठन की एक जड़ जमेगी। आगे महाराज की जैसी भर्जी ।

राजा—मैं राजसिंह को क्रमा नहीं कर सकता। पहले माँडलगढ़ लूँगा, पीछे दूसरी बात ।

दीवान—महाराज ! विपक्ति के बादल हमारे छोटे से राज्य पर भँड़ा रहे हैं। इनसे कैसे उद्धार होगा ? सेवक की प्रार्थना है कि फिर से इस विषय पर विचार कर लिया जाय ।

राजा—अब और कुछ विचारने का काम नहीं है। क्षत्रिय का जीवन एक पानी का बुलबुला है। रहा रहा-न रहा न

रहा । आप बादशाह को साफ़-साफ़ इन्कार कर दीजिये ।

दीवान—महाराज, आज्ञा पाऊँ तो एक निवेदन करूँ ?

राजा—( अधीर होकर ) अब और आप क्या कहना चाहते हैं ?

दीवान—( हाथ जोड़ कर ) महाराज ! हमें राजनीति से काम लेना चाहिए ? बादशाह से विचारने के लिए दो महीने का अवसर लेना ठीक होगा ।

राजा—पर मुझे तो कुछ सोचना-विचारना नहीं है ।

दीवान—फिर भी महाराज ! दास की प्रार्थना है । दो मास में हम कुछ युक्ति सोच लेंगे, जिससे आगे की बचत निकलने का कुछ सुभीता निकल आवेगा ।

राजा—अच्छा, ऐसा ही कीजिये ।

( पर्दा खिलता है )

## सातवाँ दृश्य

(स्थान—उदयपुर का राजमहल । महाराणा और कुँवर जयसिंह तथा भीमसिंह । समय-रात्रि)

राणा—कौन हैं वे ?

कुँवर जयसिंह—गोवर्धन के गुंसाई हैं । उनके साथ श्रीद्वारिका-धीश और श्रीनाथ जी की मूर्ति है । महाराज ! वे सब ओर से निराश होकर आपकी शरण आए हैं ।

राणा—पापी बादशाह ने क्या देवमन्दिरों को भी विध्वंस करा डाला है ?

भीमसिंह—जी हाँ, उसके सैनिक राज्य भर के मन्दिरों को ढहा रहे हैं । काशी विश्वनाथ के मन्दिर को ढहाकर उसने मस्जिद बनवा ली है ।

राणा—तो भारतवर्ष के हिन्दू इतने पतित हो गये हैं कि अपचाप सब सहन करते हैं । क्या उनकी रगोंमें रक्त नहीं है ? कुँवर जयसिंह—यहीं नहीं ! उसने जजिया भी लेना शुरू कर दिया है ।

राणा—यह तो अत्यन्त अपमानजनक है । हिन्दुओं ने इसका भी विरोध नहीं किया ?

कुँवर जयसिंह—किया था, इस अन्याय के विपरीत अर्जु गुजारने दिल्ली के हिन्दू जामा मस्जिद के आगे जमा हुए थे, बादशाह ने उन्हें हाथी से कुचलवा दिया ।

राणा—( उत्तेजित होंकर ) हाथी से कुचलवा दिया । दिल्ली के दरबार में इतने हिन्दू राजा हैं, किसी ने कुछ नहीं किया ?

भीमसिंह—कुछ नहीं किया महाराज ! किसी ने चूँ तक न की ।  
राणा—हाय रे भारत के हिन्दुओं के दुर्भाग्य ! गुंसाईं कहाँ २ गये थे ?

भीमसिंह—महाराज ! वे बूँदी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़ और जोधपुर गये थे, पर औरंगज़ेब के भय से किसी ने मूर्ति को आश्रय नहीं दिया । अब गुंसाईं सब ओर से निराश हो मेवाड़ की शरण आये हैं ।

राणा—मेवाड़ मेरे एक लाख राजपूतों के सिर काटने पर औरंगज़ेब मूर्तियों के हाथ लगा सकेगा । श्रीनाथ जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा सीहाड़ में और श्री द्वारिकाधीश की मूर्ति की कांकरोली में करा दी जायगी । मूर्ति की पूजा भोग के लिए समुचित गांवों की व्यवस्था कर दी जायगी । तुम दोनों भाई मूर्तियों को आदर मान से राज्य में ले आओ ।

भीमसिंह—जो आज्ञा—

( जाता है )

## आठवाँ दृश्य

(स्थान—रुपनगर का अन्तःपुर । समय—रात्रि। राजकुमारी चारुमती  
एकान्त में राजसिंह की मूर्ति को गोद में लिये बैठी गा रही है ।)  
पाहुन पलकों में बस जाना ।

नेह नीर द्वा छलक रहे अब ।  
गीले नैन पखारेंगे पद ।  
मूक प्रतीक्षा अश्रुत पदध्वनि,  
इस जीवन के ओर छोर तक—  
अविकल कल तक आ जाना ।

पाहुन पलकों में बस जाना ।

अमित तुम्हारी सृष्टि ही का धन,  
रखा रही आँचल में बाँधे ।  
अपने में खोई मी बैठी—  
इस सूने मन्दिर में आकर—  
पीछे मत फिर जाना ।

पाहुन पलकों में बस जाना ।

(कस्तीर को एक ढक निहारती है)

कुमारी—प्रभात के सूर्य की किरणों की भाँति तुमने मेरे द्वा की  
अँधेरी कन्दरा में प्रवेश किया .. और उज्ज्वल आलोक  
बखेरा । आश्रम का एक सार सुर्खे तुम तक खींचे लिये

जा रहा है। (देखकर) तुम्हारी स्मृति कितनी मधुर,  
तुम्हारा चिन्तन कैसी तपस्या, तुम्हारा गुणगान कैसा  
आल्हाद कारक है। हे वीर, हे पौरुष के अवतार, यह  
क्षत्रिय बाला आज अपने नारी जीवन को तुम्हारे  
अर्पण करती है। (तस्वीर पर माथा टेकती है अकस्मात्  
निर्मल आती है।)

निर्मल—अरे ! यहाँ यह क्या हो रहा है ?

कुमारी—( तस्वीर छिपाकर ) कहाँ ? कुछ भी तो नहीं ।

निर्मल—यह चोरी और सीनाजोरी । अच्छा, कुछ भी नहीं सही ।  
( सुंह कुखाकर घल देती है )

कुमारी—रुठ चली क्या ? अच्छा सुन, मैं... मैं जरा कुछ सोच  
रही थी ।

निर्मल—क्या सोच रही थीं राजकुमारी ?

कुमारी—यही-कि ( सिटपियाकर ) कि... क्या बताऊँ ।

निर्मल—नहीं बता सकोगी । बहाना बन सका ही नहीं ।

कुमारी—तू क्या समझती है—बता ?

निर्मल—यही कि कुमारी जी कुछ सोच रही थीं ।

कुमारी—क्या सोच रही थी ?

निर्मल—मैं क्या जानूँ, आपके मन की बात ।

कुमारी—तू सब जानती है बता ?

निर्मल—वह तस्वीर दीजिये, बताऊँ ।

कुमारी—( घबराकर ) कौनसी तस्वीर ?

निर्मल—वही, जो अभी आपने छिपादी है और जिसे पलकों  
में बसा रही थीं ।

कुमारी—( रुट होकर ) बड़ी दुष्ट है तू, दूर हो ।

निर्मल—जाती हूँ महारानी से सब हकीकत कहे देती हूँ ।

( जाना चाहनी है )

कुमारी—ठहर, सुन एक बात ।

निर्मल—जाने दीजिये—मैं जरा महारानी.....

कुमारी—( हंसकर ) मार खायगी ।

निर्मल—जी हाँ, और खा ही क्या सकती हूँ ।

कुमारी—अच्छा सुन ।

निर्मल—कहिये ।

कुमारी—( उदास होकर ) कैसे कहूँ ?

निर्मल—मैं समझ गई । पर चिन्ता क्या है ।

कुमारी—( आँखों में आँसू भर कर ) तूने सब बातें नहीं सुनीं ।

निर्मल—कौन बातें ?

कुमारी—दिल्ली से दूत आया था ।

निर्मल—देख चुकी हूँ, सुन भी चुकी हूँ ।

कुमारी—अब क्या होगा ?

निर्मल—महाराज ने बादशाह से दो महीने की मुहलत माँगी है ।

कुमारी—इसके बाद ?

निर्मल—इन्कार कर दिया जायगा ।

कुमारी—इन्कार से क्या होगा, पलक मारते दल बादल छा  
जायेंगे—रूपनगर की ईंट से ईंट बज जायगी ।

निर्मल—तो उपाय क्या है ?

कुमारी—उपाय है ।

निर्मल—(हसकर) समझा । पर आपको एक बात मालूम है ?

कुमारी—कौन बात ?

निर्मल—राणा से महाराज की शत्रुता है ।

कुमारी—किस बात पर ?

निर्मल—महाराणा ने मारेडलगढ़ पर चढ़ाई करके उसे दखल कर लिया है । महाराज उन पर सेना भेजने की तैयारी में हैं ।

कुमारी—पिता जी क्या उनसे लड़ मकरेंगे ?

निर्मल—न लड़ सकें, वे भी बीर हैं । हारना भी तो वे न सहन करेंगे । फिर मारेडलगढ़ उन्हें बादशाह ने दिया था—बादशाह उनकी मदद करेगा ।

कुमारी—बादशाह ज्योहीं जानेगा कि उसे ढोला देने से इंकार कर दिया गया है वह रूपनगर की ईंट से ईंट बजा देगा ।

निर्मल—जब जो होगा देखा जायगा । हम स्त्री जाति कर भी क्या सकती हैं ।

कुमारी—(अँसू भरकर) राजपूतों की बेटियाँ इसी ने तो पैदा

होते ही मार डाली जाती हैं । जो बचती हैं वे  
ऐसी सांसत भुगतती हैं ।

निर्मल—कुमारी, व्यर्थ अपने मन को दुखी न करो, समय पर  
कुछ न कुछ हो ही रहेगा । महाराज कुछ करेंगे ।

कुमारी—मुझे धैर्य नहीं होता ।

निर्मल—भगवान् सबके स्वामी, सबके रक्षक हैं । चलिये सोइये ।  
अधिक जागने से आपकी तवियत बिगड़ जायगी ।

( दोनों जाती हैं )

## नवाँ दृश्य

(स्थान—उदयपुर का राजमहल । पाठवीकुमार जयसिंह का मृत्यु ।

जयसिंह की रानी—कमलकुमारी अपने कक्ष में मणियों

महित गा रही है । समय—प्रातःकाल । )

मत देर करो सजनी अब भटपट नूतन साज सजाओ ।  
मेरे मूने मनमन्दिर में नूपुर सखी बजाओ ।  
नव वसन्त आया आली—फूलों से मुझे रिभाओ ।  
जीवन तरंग की भूला में तुम भूलो मुझे भुलाओ ।  
गाकर मधु गायन कोकिल श्वर में सु वसन्त बुलाओ ।  
प्यासे प्राणों को सखि छुक कर जीवनमुधा पिलाओ ।  
उर की दीपशिखा से जगमग अगगित दीप जलाओ ।  
रानी कमलकुँवर—तारों से भरी इस रात में जीवन कैसा  
स्निग्ध माजूम होता है । प्राणों में मोहक स्नेह जैसे  
फूटा पड़ता हो । सखियो ! यह जीवन इतना सुन्दर  
क्यों है ?

एक सखी—इसलिये कि यही जीवन संमार का केन्द्र है ।

रानी—सच है, जैसे प्रकृति में प्रभात, मध्याह्न, अपराह्न और  
सन्ध्या होती है उसी प्रकार जीवन में भी । कहो तो,  
जीवन में कौनसा चाण सबसे सुन्दर होता है ।

एक सखी—प्रभात, जहाँ आकांज्ञाओं की कोमल कलिकाएँ अविसित रहती हैं। प्रातःकालीन मन्द ममीर की भाँति जहाँ सरल-शुद्ध प्रेम की भीनी महक हृदय को विकसित करती रहती है। जहाँ चिन्ता की धूल-गर्द नहीं, अधिकार मद की दुपहरी नहीं, जहाँ केवल उन्मुक्त तितलियों की सी उड़ान है, जहाँ ऊषा की सुनहरी किरणों की भाँति मनोरम अलहड़पन है। जीवन का वह प्रभात कैसा सुन्दर—कैसा प्रिय—कैसा पवित्र है सबो !

दूसरी—सचमुच। परन्तु यौवन जीवन की दुपहरी है। उसमें जब वासना की प्रचरणडता आती है—तो फिर संसार का कुछ और ही रूप दीखने लगता है। उसका एक अलग ही सौन्दर्य है। जहाँ तेज है, तप है, उत्कर्ष है और शक्ति का समुद्र है।

रानी—परन्तु उस प्रखर सौन्दर्य में भी एक भीषण वस्तु तो दुर्दम्भ वासना का ज्वार है। उसे यदि सीमित रखा जाय तो यौवन जीवन का सर्वोकृष्ट भाग है। नहीं तो पतन का सरल मार्ग।

दूसरी सखी—देवी। मध्याह्न के बाद प्रखर तेजवान् सूर्य का पतन तो होता ही है।

रानी—उसे पतन क्यों कहती हो सखी। विकास की एक सीमा है। तुम क्या कहना चाहती हो कि जीवन में प्रखरता

बढ़ती ही जाय। फिर तुम्हें मालूम है-पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर धरती घूमती है, अविरत गति से प्रकृति का यह क्रम चल रहा है। सखी, जिसे हम प्रभात-मध्याह्न-सायंकाल और रात्रि कहते हैं वह मत्य कुछ नहीं, परिस्थितियों का परिवर्तन है। प्रकृति तो एक रस-एक भाव से अप्रतिहत गति से अपने मार्ग पर चल रही है।

तीसरी—तो फिर जीवन भी ऐसा ही रहा?

रानी—तब क्या? जीवन का जो केन्द्र विन्दु है, वह तो न कभी बालक होता है, न वृद्ध, न उस में वासना उद्दीप होती है, न शमन। यह सब तो भौतिक परिवर्तन हैं। उसी प्रकार, जैसे सूर्य न कभी अस्त होता है, न उदय। वह तो ध्रुव रूप से अपने स्थान पर स्थिर होकर तेज बखोरता है। विकल्प के नेत्र ही उसका उदय अस्त देख पाते हैं।

दूसरी सखी—तब तेजस्वी पुरुषों का भी यही हाल है। बाल दृष्टि से जो उनका उत्थान-पतन दीप्ति पड़ता है, वह सब विकल्प है? वे हर हालत में वैसे ही तेज और शक्ति के अधिष्ठाना रहते हैं।

रानी—निश्चय ही। (इसकर) परन्तु समियों! हम कोग नो

आनन्द विलास हास करतीं करतीं तात्त्विक विवेचना  
में लग गईं। (देखकर) लो महाराज आ रहे हैं।

(कुमार जयसिंह आते हैं, सब सखियाँ अदब से हट जाती हैं।)

रानी—(हंसकर) आज आपके आखेट का दिन है न?

जयसिंह—है तो।

रानी—कहाँ, तैयारी तो कुछ नहीं दीख पड़ती।

जयसिंह—(हंसकर) सोचता हूँ, तुम्हारे इस प्रेमप्रसाद को छोड़  
कर कहाँ जाऊँ। जाने दो आज मेरा नहीं तुम्हारे  
आखेट का दिन रहे।

रानी—वह कैसे स्वामिन्!

जयसिंह—(हंसकर) बिल्कुल सीधी बात है प्रिये! मैं तो  
तुम्हारा सर्वसुलभ आखेट हूँ।

रानी—सच? पति क्या स्त्रियों के सुलभ आखेट हुआ करते हैं,  
खासकर ज्ञात्रिय पति।

जयसिंह—मैं तो यही समझता हूँ। पुरुषों का शिकार स्त्रियाँ  
अनायास ही कर डालती हैं। स्त्रियों के नयन  
वाणों से……

रानी—छी: स्वामी, बीर राजपूत भी यदि कामिनी के नयनवाण  
के आखेट हुए तो फिर वे देश पर, धर्म पर, जाति  
पर जीवन को उत्सर्ग कैसे कर सकेगे?

जयसिंह—उत्सर्ग? जीवन की इस मध्यावस्था में? तुम्हीं तो

कहा करती हो कि जीवन कैसा सुन्दर है, कैसा मनोरम है, कैसा वद्धुमूल्य है।

रानी—तभी तो जीवन उत्सर्ग का इतना महात्म्य है। सड़ी गली चीजें तो लोग यों ही फेंक देते हैं, प्रियतम चीज़ को उत्सर्ग करना मदमें बड़ा ल्याग है।

जयसिंह—प्रियतम चीज़ को उत्सर्ग करना ?

रानी—क्यों नहीं, फूल खिलता है, जब वह धीरे २ विकसित होता है कैसा सौन्दर्य व्यवरता है। जब वह पूर्णरूप से विकसित हो जाता है उसमें सौरभ का समुद्र प्रवाहित होता है। वही उसके उत्सर्ग का ममत्य है। उसी समय उसे भट्टी में डालकर इत्र खींच लेना चाहिये। नहीं तो .....

जयसिंह—नहीं तो ?

रानी—(कश्या स्वर में) वह मुझ्हे फर सूख जायगा, उसकी पंखु-ड़ियाँ झड़ जायेंगी और उसका जीवन व्यर्थ होगा। अस्तित्व नष्ट होगा।

जयसिंह—मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है कुछ, तुम यह कहा चाहती हो ?

रानी—हाँ स्वामी, और राजपूतों का सबसे अधिक।

जयसिंह क्यों ?

रानी—त्याग श्रेष्ठ है, यह सब कहते हैं। पर प्राण त्याग सबसे श्रेष्ठ है और वह क्षत्रिय युद्ध में त्यागते हैं। इसलिये संसार में सबसे श्रेष्ठ त्यागी क्षत्रिय है।

जयसिंह—यह हुआ क्षत्रिय पुरुष का धर्म, अब क्षत्रिय बाला की बात भी कहो।

रानी—वह उस विकसित फूल की सुगन्ध है। फूल के जीवन के साथ उसके बाद भी सौरभ बखेरना उसका काम है। फूल जब भभके में तपाया जाता है, तब भी वह अच्छुणा रहती है वह अमर है—अक्षय है। वह प्राणों से सीधा सम्बन्ध रखने वाली गन्ध है। फूल के प्राणों का निचोड़ उसी में है स्वामी।

जयसिंह—( निकट आकर ) यह तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है प्रिये ! क्या तुम मेरी वही मुझा-सरला बाला कमल हो ? नहीं-नहीं कोई देव अंश तुम में है।

रानी—( हँसकर ) है स्वामी, वह अंश राजपूत शक्ति का है। जो इस आपकी दासी के स्त्रीत्व से पृथक् उस पर शासन कर रहा है। यह नारी शरीर आपका दास है; पर वह राजपूत शक्ति नहीं।

जयसिंह—वह क्या है ?

रानी—वह तुम्हारी इस तलबार की धार से भी प्रखर है। धातक भी और रक्षक भी।

जयसिंह—जाने दो इसे, मुझे तुम्हारा स्वीत्व चाहिये । माधुर्य-  
सौकुमार्य, कोमलता और भावुकता से ओतप्रोत ।

रानी—नहीं स्वामी, उससे अधिक तुम्हे इस अधम नारी शरीर  
में बसी हुई राजपूत शक्ति की ज़रूरत है ।

जयसिंह—( हँसकर ) क्या घातक होने के कारण ।

रानी—( हँसकर ) नहीं रक्षक होने के कारण । स्वामी, आप महा  
तेजस्वी राणा राजसिंह के पाटवी पुत्र—मेवाड़ की  
यशस्विनी गदी के उत्तराधिकारी हैं ।

जयसिंह—जानता हूँ । और शक्ति और प्रेम की देवी कमल कुमारी  
का पति भी । चलो अब ।

रानी—( हँसकर ) चलो ।

( दोनों जाते हैं, पर्दा गिरता है )

## तीसरा अङ्क

—ःँः—

### पहिला दृश्य

( स्थान—उदयगुर, देवी के मन्दिर का एक पाइर्बाग रत्नसिंह और  
उसकी भावी पत्नी सुदाग-सुन्दरी । समय—ग्रातःकाल )

रत्नसिंह—ठहरो राजकुमारी, मुझे तुमसे कुछ कहना है । क्या  
तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें पूजा के बहाने यहां  
मिलने को बुलाया है ।

राजकुमारी—जानती हूँ । परन्तु यह क्या उचित हुआ है ? माता  
जी से मुझे भूँठ बोलना पड़ा है ।

रत्नसिंह—इसमें अनुचित क्या है ? तुमसे मेरी मँगनी हुई है ।  
तुम मेरी भावी पत्नी हो, मुझे तुमसे मिलने का  
अधिकार है ।

राजकुमारी—कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है ?

रत्नसिंह—मुझे कुछ कहना है ।

राजकुमारी—कहिए ।

रत्नसिंह—इतनी जल्दी ? यह तो असम्भव है, मुझे सोचना  
पड़ेगा ।

राजकुमारी—नो फिर कभी कह लीजियेगा, अभी मैं जाती हूँ।  
(जाना चाहती है)

रत्नसिंह—(रास्ता रोककर) विना जवाब दिये न जा पाओगी कुमारी।

राजकुमारी—आप कुछ कहते भी हैं।

रत्नसिंह कहता हूँ, मुनो।

राजकुमारी—कहिए।

रत्नसिंह—पिताजी महाराणा से रुष्ट होकर दिल्ली चले गये हैं।

राजकुमारी मुन चुकी हूँ।

रत्नसिंह—वे जीते जी मेवाड़ आवेगे भी या नहीं, सन्देह है।

राजकुमारी—यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। अब मैं जाऊँ?

(जाना चाहती है)

रत्नसिंह—क्या विना मुने ही? वह बात……

राजकुमारी—कौन बात? जल्द कहिए।

रत्नसिंह—कह तो रहा हूँ, पर भागोगी तो कैसे कहूँगा।

राजकुमारी—सखियाँ मन्दिर में बाट देख रही हैं।

रत्नसिंह—वे पूजा कर रही हैं। घन्टा-आरती की आवाज नहीं सुनतीं?

राज कुमारी—अब जाऊँ मैं।

रत्नसिंह—(हत्रिम शोध से) जो उम्हें मुझ से इतना विराग है तो जाओ फिर मंत सुनो—मैं भी देश छोड़ दूँगा।

(जाना चाहता है)

राजकुमारी—( अधीर होकर ) सुनिए । आप क्या कहना चाहते हैं । कहिए न ?

रत्नसिंह—मैं भी पिताजी की भाँति मेवाड़ त्याग दूँगा ।

राजकुमारी—किस लिए ?

रत्नसिंह—क्या करूँ, जब कोई मेरी बात ही नहीं सुनता ।

राजकुमारी—सुनती तो हूँ, कहिए ।

रत्नसिंह—हाँ तो . . . सोचता हूँ, कहूँ कि न कहूँ । जाने दो नहीं कहता ।

राजकुमारी—कहिए-कहिए ।

रत्नसिंह—फिर कभी सुन लेना—अभी तुम्हें देर हो रही है ।

राजकुमारी—आप कहिए ।

रत्नसिंह—सखियाँ बाट देख रही होंगी ।

राजकुमारी—हाथ जोड़ती हूँ—कहिए ।

रत्नसिंह—( हंसकर ) माता जी नाराज होंगी ।

राजकुमारी—( कुँभकार ) कहीं कुछ न होगा । आप कहिए तो ।

रत्नसिंह—तब सुनो—मन लगाकर, ध्यान से ।

राजकुमारी—सुन तो, रही हूँ ।

रत्नसिंह—हाँ, पिता जी तो दिल्ली चले गये । इसके बाद . . .

राजकुमारी—इसके बाद क्या ?

रत्नसिंह—बड़ी गम्भीर समस्या है—बड़ी टेढ़ी बात है ।

राजकुमारी—ऐसी क्या बात है ?

रत्नसिंह—अच्छा कहता हूँ—सुनो ।

राजकुमारी—(हंसकर फिर लजाकर) अब और कैसे सुनूँ ?

रत्नसिंह—(निकट आकर) हमारा विवाह शीघ्र हो जाना चाहिए ।

राजकुमारी—(लाज से सिकुड़कर) छी, यह भी कोई सुनने की बात है । (जाना चाहती है)

रत्नसिंह—(गम्ता रोक कर) कैसे नहीं है । क्या तुम यह बात सुनना नहीं चाहतीं ?

राजकुमारी—मैं क्या जानूँ । अब मैं जाती हूँ । (जाना चाहती है)

रत्नसिंह—(रास्ता रोक कर) जा न सकोगी । जवाब दो ।

राजकुमारी—पिताजी से कहिए । परन्तु……

रत्नसिंह—परन्तु क्या ?

राजकुमारी—बिना महाराज के आये……

रत्नसिंह—विवाह कैसे होगा, यही न ?

राजकुमारी—हाँ, पिताजी ने प्रतिज्ञा की थी कि……

रत्नसिंह—कि वे अपनी पुत्री को मेरे पिताजी के हाथ सौंपेंगे ।

और उन्होंने प्रसन्नता से तुम्हें पुत्रवधू बनाना स्वीकार कर लिया था । अब वे क्या बिना पिताजी की उपस्थिति के ब्याह न करेंगे ?

राजकुमारी—मैं नहीं जानती, आप पिताजी से पूछिए । परन्तु क्या ऐसे समय में जब देश पर शत्रुओं की चढ़ाई का भय है, आपका विवाह की बातें करना उचित है ।

रत्नसिंह—तुमसे किसने कहा कि शत्रु की चढ़ाई का भय है ।

राजकुमारी—मुनती हूँ। महाराणा के उद्योगों को दिल्ली का बादशाह सन्देह और भय की दृष्टि से देखता है और वह चाहे जब मेवाड़ पर आ धमकेगा।

रत्नसिंह—इसकी क्या चिन्ता है, वह जब भी मेवाड़ में आयेगा यह तलवार उसका स्वागत करेगी (तलवार निकाल कर हवा में घुमाता है)।

राजकुमारी—एक अर्ज करूँ ?

रत्नसिंह—कहो कुमारी।

राजकुमारी—नाराज न होना।

रत्नसिंह—कभी नहीं।

राजकुमारी—आप बीर पुत्र हैं। आपके पूज्य पिता महाराज ने बड़े-बड़े कारनामे किये हैं।

रत्नसिंह—और हमारे पूर्वजों की मर्यादा भी मेवाड़ में सर्वोपरि है। हम त्यागी चूंडाजी के वंशधर हैं कुमारी !

राजकुमारी—आपके चरणों की दासी होना मेरा परम सौभाग्य है परन्तु . . . .

रत्नसिंह—परन्तु क्या ?

राजकुमारी—मैं भी हाड़ी हूँ कुमार ! हाड़ाओं का वंश भी हेठा नहीं।

रत्नसिंह—हाड़ाओं के अमर कारनामे जगद्विस्थात हैं।

राजकुमारी—मेरी एक प्रतिज्ञा है।

रत्नसिंह—वह क्या ?

राजकुमारी—प्रण कीजिये कि आप पूरा करेंगे ।

रत्नसिंह—तुम मेरी भावी पत्नि हो कुमारी, तुम्हारी प्रतिज्ञा प्राण  
रहते अवश्य पूरी करूँगा ।

राजकुमारी—मुन कर परम सुख हुआ कुमार ! मेरी प्रतिज्ञा है,  
मैं वीर पुरुष की पत्नी बनूँगी ।


रत्नसिंह—तो क्या तुम्हें मेरी वीरता में सन्देह है ?

राजकुमारी—नहीं, पर मैं आँखों से देखा चाहती हूँ ।

रत्नसिंह—आँखों से देखोगी, हाड़ी राजकुमारी ।

राजकुमारी—क्या रुष्ट हो गये राजकुमार, भूर्ख बालिका का  
अपराध ज्ञान कीजिए ।

रत्नसिंह—( होंठ काटकर ) अच्छी बात है कुमारी, वीरता का  
प्रमाण देकर ही मैं तुम से द्याह करूँगा ।  
( तेजी से जाता है, पद्मी बदलता है )



## दूसरा दृश्य

(स्थान—दिल्ली का शाही महल-बादशाह आलमगौर और उसकी  
बेटी ज़ेबुन्निसा | समय—सन्ध्याकाल | महल का खुला हुआ  
सुपंज्ञत नजर बाग)

बादशाह—तो रूपनगर का राजा मर गया ?

ज़ेबुन्निसा—जी हाँ जहाँपनाह ! उसके भट्टीजे रामसिंह ने अर्जी  
भेजी है कि वही रूपनगर की गद्दी का सही वारिस  
है। वह तख्ते मुशालिया का वफादार और पुराना  
शाही ख्वादिम है। उसे शाही फर्मान के जरिये रूपनगर  
का राजा तस्लीम करके सरफराज किया जाय ।

बादशाह—मगर उसने उस अम्र का क्या जवाब दिया है ?

ज़ेबुन्निसा—हुजूर, उसने कहला कर भेजा है। उसकी नाचीज़  
बहिन को अगर बादशाह बेगम बनने की सुशकिस्ती  
बख्ती जायगी तो यह उसके लिये फख की बात होगी।  
वह शाही रिश्तेदारी को अपने लिये इज्जत की चीज़  
समझता है ।

बादशाह—वहतर, कल उसके पास शाही सनद भेज दी जायगी  
और वह रूपनगर का राजा तस्लीम कर लिया जायगा  
बदनौर और मांडल के परगने भी उसे देंदिये जायेंगे ।

मगर शर्त यह है कि वह फौरन ही अपनी बहिन को  
दिल्ली रवाना कर दे ।

जेबुन्निसा—हुजूर उसकी एक शर्त है ।

बादशाह—वह क्या ?

जेबुन्निसा—वह चाहता है हज़रत सलामत खुद रूपनगर तशरीफ  
लें जाकर बाक़ायदा राजा की बेटी से शादी करके  
उसकी इज़जत अफज़ाई करें ।

बादशाह—उसकी इस शर्त की क्या वजह है ?

जेबुन्निसा—हुजूर, वह चाहता है कि शाही रिश्तेदार होने से  
उसका रुतवा बढ़े, फिर हुजूर अगर उसकी यह अर्जी  
कबूल फर्मावेंगे तो एक ढेले से दो शिकार होंगे ।

बादशाह—तुमने इस मामले में क्या भस्त्रहत सोची है ।

जेबुन्निसा—जहाँपनाह को मालूम है कि मेवाड़ के राना की  
ज्यादतियाँ बढ़ती जाती हैं। उसने न सिर्फ़ शाही  
डलाके जबरन कब्ज़े में कर लिये हैं। बल्के बारी  
जोधपुर की रानी को अपने यहाँ पनाह दी है और  
राठौरों से मिलकर वह तमाम राजपूताने में एक  
जबर्दस्त ताक़त—तख्ते मुगलिया के खिलाफ़ खड़ी कर  
रहा है। सो हुजूर इस बार अगर रूपनगर जाएँगे तो  
राजा की खाहिशा भी पूरी होगी, राना को भी देख  
लिया जायगा और हज़रत मुहम्मदीन की दरगाह  
शरीफ़ की जियारत भी हो जायगी ।

बादशाह—तुम्हारे स्वयालात काबिले गौर हैं। ( कुछ सोचकर )

बहतर, मैं उस राजा की अर्जी मंजूर करता हूँ। मैं आज ही फौजदार दिलेखवाँ और हसनअलीखवाँ को ५० हजार फौज तैयारी का हुक्म देता हूँ मगर……

जेबुन्निसा—अब जहाँपनाह किस अन्न पर गौर करने लगे ?  
बादशाह—यही, कि क्या वह राजा की बेटी बादशाह की बेगम बनना पसन्द करेगी। तुमने कहा था न कि, उसने मेरी तस्वीर लात मारी थी।

जेबुन्निसा—जी हाँ हुजूर, वह बहुत ही मगरुर भी है।

बादशाह—और साथ ही आलमगीर को दिल से नफरत करने वाली भी।

जेबुन्निसा—उसकी यह मजाल ? एक मामूली काफिर जमीदार की बेटी की यह हिमाकृत ? उसे पहिले गुस्ताखी की सज्जा दी जायगी।

बादशाह—( कुछ सोचकर ) तुम उसके लिए क्या सज्जा तज्ज्बीज करती हो जेबुन्निसा !

जेबुन्निसा—अब्बा जान ! अगर उस गँवारिन के दिमाग में जरा भी मरारुरी पाई गई तो उसे कुत्तों से नुचिवा डालूँगी।

बादशाह—( मुस्करा कर ) और उसके बाद ?

जेबुन्निसा—उसके ! बाद ! अब्बा……

बादशाह—मगर मेरी प्यारी बेटी ! किसी लड़की को बादशाह

की बेगम बनाना और कुत्तों से नुचवाना एक ही  
चीज़ तो नहीं ।

जोबुन्निसा—जहाँपनाह.....

बादशाह—ठहरो शहजादी, मैं इस मामले पर गौर करूँगा ।  
अब मैं जाता हूँ । तुम्हें भी इम शादी में मेरे हमराह  
चलना होगा ।

जोबुन्निसा—जैसी जहाँपनाह की भर्जी ( जाता है )

जोबुन्निसा—समझी, उस ग़ारूर की पुतली ग़ैवारिन के लिये  
मालूम होता है अब्बा के दिल में कहीं किसी कोने में  
मुहब्बत छिपी है । मगर देखा जायगा । यह कम्बखत  
आरम्भियन बाँदी तो अब नहीं सही जाती ।  
( कुछ सोच कर ) कोई है ?

एक बाँदी—( हाथ जोड़ कर ) हुक्म मुदावन्द ।

जोबुन्निसा—शराब ।

बाँदी—जो हुक्म ( अदब से झुककर जाती है ) ।

जोबुन्निसा—खुदा ने चाहा तो हिन्दुस्तान पर फिर एक नूरजहाँ  
हुक्मत करेगी । ( बाँदी शराब खाती है, शराब को प्याली  
में डालकर पीती हुई ) वह नूरजहाँ में हूँ । ( प्याला फर्ज  
पर फैकती हुई बाँदी से ) इधर आ ।

बाँदी—( हाथ जोड़कर ) लोंडी को क्या हुक्म होता है ?

जोबुन्निसा—तुम्हे हमारी खूबसूरती पसन्द है ।

बाँदी—बल्लाह सरकार, शाही हरम में लामिसाल हैं ।

जोबुन्निसा—(हं सर्तीं हुई) सच ?

बाँदी—बखुदा।

जोबुन्निसा—हज्जरत नूरजहाँ से भी ज्यादा।

बाँदी—( जमीन चूम कर ) हुजूर जमीं का चाँद हैं।

जोबुन्निसा—शराब भरकर एक ही थूंट में पीकर बाँदी पर प्याका  
फैक कर ) भाग यहाँ से हरामजादी।

(बाँदी आदाब बजाती भाग जाती है।)

जोबुन्निसा—(कुछ आप ही आप) जमीन का चाँद तो हूँ ही, जैसे  
चाँद में धब्बे होते है, उसी तरह मेरे अन्दर धब्बे हैं।

मगर इससे क्या ? मैं आलमगीर बादशाह की बेटी,  
मुश्ल हरम की रानी और आलमगीर की प्यार की  
पुतली हूँ। अब्बा, जिन्होने रहम सीखा ही नहीं,  
जो सूखे काठ की तरह महज बादशाह नजर आते है,  
इस जोबुन्निसा को दिल से प्यार करते हैं, मगर उस  
प्यार में हिस्सा बटाने वाली वही आरमीनियन बाँदी है  
जिसे बुर्दा फरोशों से दारा ने खरीद लिया था और  
अपने नफ्स का शिकार बनाया था—वही बेरैरत और  
वे अस्मत औरत बदक्रिस्मत दारा के कत्ल होने पर  
अपने आका और खाँविन्द के कातिल आलमगीर  
की बाँदी बनने को भट तैयार हो गई। तुफ ! और  
आज वह अपनी खूबसूरती की बजह से बादशाह की  
बेगम बनकर शाही रंगमहल को अपने ही अदल में

रखना चाहती है अब्बा जैसे उसके सामने जाने पर आलमगीर ही नहीं रहते। एक कर्मावर्दार खोविन्द बन जाते हैं—वह बाँदी उनके सामने शराब पीती है और अब्बा उसके साथ ऐयशी की दर्या में अपनी तमाम शानशौकत और बादशाहत जैसे छुबो देते हैं। (कुछ ऊपर हट कर होठ काटली हुई) मगर मैं यह नहीं बद्रीशत कर सकती। अब्बा को उस नागिन के चपेट से बचाना होगा और उसके लिए यह एक रास्ता है। वह भोली भाली गँवार हिन्दू लड़की दिल से बादशाह को नफरत करती रहेगी और अब्बा उससे अपनी बादशाही तियायत की बच्ची सुची मुहब्बत से उलझते रहेंगे। उधर मैं रंग महल पर अपना अटल रंग जमाऊँगी।

(एक भरपूर शराब का प्यासा पीकर भसनद पर लुढ़क जाती है,  
पद्मा गिरता है)

## तीसरा दृश्य

(स्थान—हथनगर के महल—राजा रमसिंह की विधवा रानी  
और राजा रमसिंह बातें करते हैं।)

रानी—क्या तुमने दिल्ली के बादशाह को (चारों) का डोला देना  
मंजूर कर लिया है।

रामसिंह—आपसे किसने कहा रानी मा।

रानी—मैं पूछती हूँ कि क्या सच है ?

रामसिंह—अगर सच हो तो ?

रानी—और यह भी सच है कि शाही सेना राजकुमारी का  
डोला लेने को दिल्ली से चल पड़ी है।

रामसिंह—बादशाह सलामत खुद राजकुमारी से शादी करने  
बारात सजा कर आ रहे हैं। भला यह इज्जत किसी  
और राजा को भी नसीब हुई थी।

रानी—तुमने मेरी बिना आज्ञा ऐसा क्यों किया ?

रामसिंह—मैं राजा हूँ। राज काज के मामलों में किस किस  
बात की आपसे आज्ञा ली जायगी ?

रानी—बिटिया का व्याह राजकाज है ?

रामसिंह—बादशाह से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात  
राज काज है।

रानी—तुम्हे स्वर्गीय महाराज की इच्छा मालूम है ।

रामसिंह—उनकी बाते उनके माथ गईं ।

रानी—उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ न हो सकेगा ।

रामसिंह—अब तो मेरी ही आज्ञा के अनुसार सब काम होंगे ।  
मैं राजा हूँ ।

रानी—वह न होने पायेगा ।

रामसिंह—यही होगा ।

रानी—मैं आज्ञा देती हूँ ।

रामसिंह—यह मेरा काम है, आपका नहीं । आप महल में बैठकर पूजा-पाठ, दान-धर्म कीजिए ।

रानी—तो तुमने राजकुमारी का डोला बादशाह को देने की सोचली है ।

रामसिंह—निश्चय ! यह तो बहुत मामूली बात है । इसके सिवा बड़े भारी लाभ की भी ।

रानी—मामूली बात है, क्यों ? सुनूँ तो जरा ।

रामसिंह—सुनने की क्या बात है । सभी राजाओं ने अपनी बेटियाँ शाही हरम में दी हैं । रानी माँ हमारी बहन बादशाह की बेगम बनेगी, यह जानकर तुम्हें खुश होना चाहिए ।

रानी—खुश होना चाहिए ? क्यों ?

रामसिंह—इसलिए कि बादशाह के रिश्तेदार बनकर हमारा राज्य, पद मर्यादा बढ़ेगी । दिल्ली के दरबार में

हमारा ही सितारा चमकेगा । बादशाह ने वे सब इलाके हमें दे दिये हैं जो उदयपुर के राना ने हम से छीन लिये थे । शाही फौज जल्द उन्हें दखल करके हमारे सुपुर्द कर देगी ।

रानी—धिकार है तुमको । तुम यह न कर पाओगे रामसिंह ।

रामसिंह—( कोध से ) कोई शक्ति खण्डनगर के राजा को नहीं रोक सकेगी ।

रानी—तो तुम बलपूर्वक यह कुकर्म करोगे ?

रामसिंह—मैं अपने राजापने के अधिकार काम में लूँगा ।

रानी—कुमारी की मर्जी के विरुद्ध ?

रामसिंह—अल्हड़ लड़की, वह अपना सुख-दुख क्या जाने ।

रानी—मेरी मर्जी के विपरीत ?

रामसिंह—मेरी सलाह है कि आप इन पचड़ों में न पड़े । दान धर्म.....

रानी—स्वर्गीय महाराज की इच्छा ?

रामसिंह—वह भी स्वर्ग सिधारी ।

(तेज़ी से चारूमती आती है)

चारूमती—तुम यह न कर पाओगे भैया ।

रामसिंह—बसमझ लड़की ! बादशाह की बेगम बनने के बाद.....

चारूमती—मैं जान पर खेल जाऊँगी । पर देश और धर्म के शत्रु को आत्मार्पण न करूँगी ।

रामसिंह—( हँसकर ) दिली के रगमहल के वैभव देखकर सब  
भूल जाओगी, बहन ! मगर याद रखना जिस भाईं  
की बदौलत यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसे ऐश्वर्य  
मद मे भूल न जाना ।

चारूमती—( होंठ काटकर ) मैं क्षत्रिय बाला हूँ ?

रामसिंह—और मैं क्षत्रिय राजा हूँ ।

चारूमती—तुम क्षत्रियाधम हो ।

(तेजी से जारी है, पदों बदलता है)

---

## चौथा दृश्य

(स्थान—हृपनगर का महल । कुमारी चारुमती और उसकी सखी  
निर्मल । समय—प्रातःकाल)

निर्मल—अब उपाय ?

चारुमती—उपाय तेरा सिर ।

निर्मल—अच्छी बात है, दिल्लो मैं भी चलूँगी ।

चारुमती—किस लिये ?

निर्मल—देखूँगी, राजपूत की लड़की कैसे उस हत्यारे बादशाह  
की बेगम बन कर कोर्निस करेगी ।

चारुमती—उस दिन मैंने उसकी तस्वीर पर लात मारी थी ।

निर्मल—मारी तो थी ।

चारुमती—उस लात से उसकी नाक टूट गई थी ।

निर्मल—शायद टूट गई थी ।

चारुमती—दिल्ली चलकर मैं अपनी उसी लात से आलमगीर  
के खास रंगमहल में ही उसकी नाक तोड़ूँगी ।

निर्मल—तोड़ सकोगी ?

चारुमती—राजपूत की बेटी की लात है यह ।

निर्मल—है तो, परन्तु लात से नाक ही तोड़ना है, तो एक  
उपाय करना होगा ।

चारुमती—कौन उपायं ?

निर्मल—वही मेरा भिर।

चारुमती—तेरा सिर ? क्या वह भी तोड़ना फोड़ना होगा ।

निर्मल—अभी नहीं । अभी तो उससे काम लेना होगा । इसके बाद फिर यदि आवश्यकता हुई तो राजपूत की बेटी की लात तो कही गई नहीं ।

चारुमती—नू बात कह, बकवास न कर ।

निर्मल—राजकुमारी, क्या मचमुच, तुम उस पापस्थली-दिल्ली के रंगमहल में जीते जी प्रविष्ट होना चाहती हो ?

चारुमती—( आंसू भरकर ) और करूँगी भी क्या ? एकबार भारतेश्वरी बन कर देखूँ ।

निर्मल—हँसी न करो, आज से नवें दिन शाही फौज यहाँ आ पहुँचेगी ।

चारुमती—तब मैं दिल्ली जाऊँगी ।

निर्मल—तुम ?

चारुमती—नहीं तो रूपनगर की ईंट से ईंट बज जायगी ।

निर्मल—क्या राजहंसनी बगुले की सेवा करेगी । क्या सिंहनी गीदड़ को बरेगी ।

चारुमती—ऐसा कभी न होगा सखी ।

निर्मल—फिर क्या करोगी ?

चारुमती—कहा तो, वहाँ पहुँचकर उस बन्दरमुद्दे मुसलमान की नाक इस लात से तोड़ूँगी ।

निर्मल—यह कर सकोगी ।

चारुमती—न कर सकूँ गी, तो यह छँगूठी है ।

निर्मल—क्या विष पीकर मरोगी ?

चारुमती—राजपूतनी फिर पैदा ही किस लिए होती हैं ।

निर्मल—(झोध से) कुत्ते की मौत मरने के लिए । पर कहे देती हूँ यह न होने पावेगा ।

चारुमती—तब ?

निर्मल—एक उपाय है ।

चारुमती—क्या उपाय है ? है कोई ऐसा धीर वीर, जो क्षत्रिय कुमारी की लाज रखे और दिल्ली पति के साथ रार ठाने ? सभी तो राजपूत कुलकलंक मुगाल बादशाहों के गुलाम हो गये हैं ।

निर्मल—अब भी धरती वीर शून्य नहीं हो पाई है, सखी ! भगवती बसुन्धरा जब वीरों को जनना बन्द कर देगी तो प्रलय हो जायगी ।

चारुमती—हाय, इस मुगाल वंश के राहु ने राजपूतों के एक-एक वंश को ब्रस लिया है । राजपूत-बाला अब किसकी शरण जाय ?

निर्मल—मेवाड़ के महाराणा राजसिंह की, जिनकी वीरमूर्ति तुम्हारे मन में बसी है, जिनकी तलवार अजेय है, जिनकी नसों में वीरवर प्रताप और सांगा का रक्त बहता है, वह निर्भय सिंह मुगाल शक्ति से भय नहीं

खाता । अब तुम शील संकोच छोड़ रुकमणी बनो  
सखी ! राजसिंह को पत्र लिखो ।

चारुमती—उनकी मैं पूजा करती हूँ । पर मैंने ऐसी क्या तपस्या  
की है कि उनकी चरणदासी बन सकूँगी ।

निर्मल—(हंसकर) चरणदासी बनने की बात पीछे सोची जायगी,  
अभी तो यही लिखो कि एक राजपूत बाला आपकी  
शरण है, उसके धर्म की रक्षा कर सको तो करो ।

चारुमती—ऐसी बेहयाई का काम मैं न कर सकूँगी । मैं उन्हें  
पत्र कैसे लिख सकती हूँ ।

निर्मल—विपत्ति में मर्यादा नहीं रहती, सखी ! मैं कहती हूँ सो  
करो—राजा को पत्र लिखो । आज ग्यारह स है । व्याह  
की तिथि पंचमी है । ६ दिन का अवसर है । चेष्टा  
करने पर इस अवसर में सन्देश पहुंच सकता है ।

चारुमती—पर यह सन्देश ले कौन जायगा ?

निर्मल—राजपुरोहित अनन्तमिश्र को ठीक कर चुकी हूँ । वे  
बड़े धर्मात्मा और राजपरिवार के शुभचिन्तक हैं ।

चारुमति—वे यह कठिन काम कर सकेंगे ?

निर्मल—अवश्य करेंगे ।

चारुमती—अच्छा ! पत्र पाकर भी जो राणाजी ने मेरी रक्षा  
करना न स्वीकार किया ? मेरी रक्षा करना—अपना  
सर्वनाश करना है । कौन एक बालिका के लिए अपने  
राज्य पर विपत्ति लायगा ।

निर्मल—सखी, जिस दीर की तुम पूजा करती हो वह क्या इतना कायर है—कि शरणागत को अभय न करे। वह शरणागत एक निरीह राजपूत कन्या हो (मुस्करा कर धीरे से) और मन ही मन उन्हें वर कर चुकी हो।

चारूमती—(हँसकर) दुष्टता न कर। पर पत्र लिखूँ कैसे?

निर्मल—ठहर! मैं अनन्तमिश्र को बुलाने किसी को भेजती हूँ और पत्र लिखने की सामग्री लाती हूँ। (जाती है)

चारूमती—(रोती हुई) मैं वह विषेला फूल हूँ जिसे सूँधने से मनुष्य की मृत्यु होती है। न जाने यह अभागिनी कितने धीरों का काल-रूप लेकर जन्मी है। क्यों मैं धीरवर को जोखिम में डालूँ? क्यों न आत्मघात कर प्राण दे दूँ। (रोती है)

(निर्मल आती है)

चारूमती—सखी, मेरा मरना ही अच्छा है।

निर्मल—आवश्यकता होगी तो वह भी हो रहेगा सखी। वह तो हमारे बाए हाथ का खेल है। पर तुम्हें तो बादशाह आलमगीर की नाक लात से तोड़नी है। अभी उसका उपाय हो। मैं भी ज्ञान यह तमाशा देखूँगी। लो पत्र लिखो।

चारूमती—कैसे लिखूँ?

निर्मल—तुम लिखो, मैं बोलती हूँ।

चारूमती—नहीं तू ही लिख।

निर्मल—(हंसकर) आज तो तुम्हीं लिखो, फिर कभी होगा तो मैं लिख दूँगी।

चारुमती—मर (कलम कागज लेकर) बोल।

निर्मल—लिखो प्रियतम प्रा……..

चारुमती—(कलम कागज लेकर) मार न्यायगी। तू। जा मैं नहीं लिखती।

निर्मल—(हंसती हुई) तब फिर अपनी भर्जी से लिखो।

चारुमती—लिखने का कुछ काम नहीं है। भाग्य में जो होगा, हो जायगा।

निर्मल—अच्छा लिखो—महाराजाधिराज !

चारुमती—(लिखकर) आगे बोल।

निर्मल—आप राजपूत कुल शिरोमणि हैं और मैं विपद्ग्रस्त राजपूत बाला। पत्रवाहक मेरे गुरु है। मेरे दुर्भाग्य से दिल्लीपति मुझ अभागिन को अपनी वेगम बनाना चाहता है, उसकी सेना मुझे लेने आने ही वाली है। यद्यपि अनेक राजपूत कन्याओं ने मुराल बादशाहों के पर्यङ्क की शोभा बढ़ाई है……

चारुमती—(रुककर) नहीं, यह ठीक नहीं।

निर्मल—(कुछ सोचकर) तब यह लिखो—मैं प्राण दूँगी पर मुगलों की दासी न बनूंगी। (सोचकर) इसका कारण अभिमान नहीं—धर्म है। आप प्रतापी राजाधिराज एवं

समस्त राजपूतों के अधिपति और धीर वीर हैं सो मैं  
आपकी शरणागत हूँ ।

चारुमती—बस इतना ही काफी है ।

निर्मल—एक बात और—अब आप अपना धर्म निवाहिए ।

चारुमती—( खिलकर ) बस ।

निर्मल—बस अब दस्तखत कर दो । हाँ, क्या हानि है, बादशाह  
की नाक लात से तोड़ने की बात भी लिख दी जाय ।  
यह भी राजपूतवाला की प्रतिज्ञा है—महाराणा को  
उसका भी निवाह करना होगा ।

चारुमती—( सुस्करा कर ) देख गुरुजी आये हैं या नहीं । ऐसी  
बात भी क्या लिखी जाती है ।

दासी—गुरुजी आये हैं ।

( एक दासी आती है )

निर्मल—उन्हें यहाँ भेज दे । ( चारुमती से ) अच्छा, अब मार्ग का  
क्या प्रबन्ध किया जाय । गुरुजी बृद्ध हैं । परन्तु...  
सौर । ( गुरुजी आते हैं )

अनन्तभिंश—( आशीर्वाद देकर ) मुझे किसलिये बुलाया है बेटी ।

निर्मल—निमन्त्रण, है महाराज, बहुत से मालटाल खाने को  
मिलेंगे, साथ में स्वर्ण दक्षिणा ।

गुरुजी—( हंसकर ) अरी लक्ष्मी बेटी, यहाँ का अन्न खाने-खाते  
बूढ़ा हो गया । अब इस ब्राह्मण को खाने-पीने का  
लोभ न दो । कहो क्या काम है ?

निर्मल—गुरुजी आपने कुछ सुना है। दिल्ली से दूल्हा आ रहा है।

गुरुजी—( उदास होकर ) सुना है बेटी, पर उपाय क्या है। भारत के आकाश में से हिन्दुत्व का नक्त्र अस्त हो रहा है।

निर्मल—गुरुजी, आपको कुमारी की रक्षा करनी होगी ?

गुरुजी—इस ब्राह्मण के प्राण जाने से कुमारी की रक्षा हो सके तो आनन्द ही है।

निर्मल—प्राणों के जाने की बात तो नहीं है, पर जोखिम तो है।

गुरुजी—क्या करना होगा बेटी ?

निर्मल—उदयपुर जाना होगा।

गुरुजी—( हंसकर ) समझा। शिशुपाल से बचाने के लिए रुक्मिणी का सन्देश कृष्ण को पहुँचाना होगा। अच्छा जाऊँगा, परन्तु कुछ स्वर्च वर्च……

निर्मल—( सुहरों से भरी थैली देकर ) यह लीजिये स्वर्च के लिए। दक्षिणा पीछे।

गुरुजी—( थैली में से ४ अशक्तों निकाल कर ) इतनी बहुत हैं बेटी। जबानी सन्देश देना होगा, या कोई पत्र भी है।

निर्मल—पत्र है। ( पत्र देकर ) यह लीजिये और यह मोती की माला। राणा जब पत्र पढ़ने लगें तो यह माला आप उनके गले में ढाल दें। और सब कुछ आप पर प्रकट है ही, जैसे हो राणा को राजी कर लें।

गुरुजी—( हँसकर ) अच्छा बेटो, अच्छा । तो अब मैं जाऊँ,  
लम्बी राह है ।

निर्मल—और समय कम । आज ग्यारह है, व्याह की तिथि  
पंचमी है । आपको इससे पूर्व ही यहाँ लौट आना  
होगा ।

गुरुजी—( चिन्ता करके ) प्रभु की कृपा से ऐसा ही होगा । जाता  
हूँ बेटी !

निर्मल—जाइये ।

( अनन्तमिश्र जाते हैं, पढ़ी बदलता है । )

## पाँचवाँ दश्य

( स्थान—उदयपुर के राजा का सभाभवन । महाराणा अपने दर्यारियों  
महित गढ़ी पर बैठे हैं । अनन्त मिश्र सामने खड़े हैं ।

सम्बन्ध—प्रातःकाल । )

रणा—तो आप सब सरदारों की क्या मर्जी है ।

मोहकसिंह शक्तवत्—अननदाता, इमें विचारने की क्या बात है । शरणागत राजपूत बाला को विमुख नहीं किया जा सकता ।

सोलंकी दलपत—राजपूत की बेटी हिन्दुपति रणा की शरण छोड़कर कहाँ जायगी महाराज ।

महारावत हरिसिंह—हमारी तलवारों की धार में काफी पानी है, उसका स्वाद इस बार सुगल चखेंगे ।

भाला सुलतानसिंह—सिंहनो जव सिंह का आश्रय लेती है, तब गीदड़ों का उसे क्या भय है ।

भीसोदिया माधोसिंह—महाराज, इस विषय में सोच-विचार करना हमारे लिए अपमान की बात है ।

रणा—धीर पुरुषों, आप लोगों ने अपने योग्य ही घात कही । आप लोग योद्धा हैं, ज़त्रिय हैं, सूरमा हैं । मरना मारना ही सूरमा की शोभा है, और शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक ज़त्रिय का धर्म है ।

सब—( एक सबर से चिल्हाकर ) शरणागत अभय ।

राणा—निस्संदेह मेवाड़ की भूमि पर शरणागत अभय है ।

परन्तु भाइयों, राज-काज की बातें केवल वीरता से ही पूरी नहीं होतीं । उनके लिए राजनीति और आगे-पीछे की बातें भी सोचना राजा का धर्म है । यह तो ठीक है कि शरणागत राजपूत बाला के धर्म की रक्षा की जाय । परन्तु कैसे ? दिल्लीपति का कोप हमारे ऊपर बढ़ता ही जाता है । फरमान पर फरमान आते हैं और हम टाल ढूँढ़ करते जाते हैं । जजिया के विरुद्ध हमने पत्रलिखकर बादशाह को नाराज कर दिया है । शाही मर्जी के विरुद्ध हमने चित्तौर की मरम्मत कराई और कई टिकाने छीन लिये हैं । भथुरा से भागे हुए गुसाईयों को हमने शरण दी है । अब जो हम बादशाह की बेगम को हरण करेंगे तो निश्चय ही उसका हम पर पूरा कोप होगा, और वह दल-बल सहित हम पर चढ़ दौड़ेगा । तब क्या हम उसका मुकाबिला कर सकेंगे । मुझे तो ऐसा दीखता है कि शाही सेना ज्ञान भर में सारे मेवाड़ को आनन-फानन तबाह कर देगी । हमारे गाँव लूटे और जला दिये जावेंगे । स्त्रियों को बे-आवरू किया जावेगा । लद्दलहाती फस्तें नष्ट कर दी जावेंगी और मेवाड़ की बीर भूमि अपने बीरों के

रक्त से लाल हो जायगी । मेवाड़ पर यह विपत्ति केवल एक बालिका के लिए लाना क्या बुद्धिमानी की बात होगी ?

**रावत केसरीसिंह—**मर्जी पाऊँ तो अर्ज करूँ । सेवक की हाटि मेर्तव्य-पालन के लिए हानि-लाभ नहीं देखा जाना चाहिये । सिद्धान्त पर मर मिटना वीरों की परिपाठी है । लोहू और लोहा, यही तो राजपूतों की सम्पत्ति है और मृत्यु उनका व्यवसाय । महाराज, इसमेराजनीति हमें बचा नहीं सकती । रही आलमगीर के आक्रमण की बात । सो महाराज वह तो आज नहीं तो कल होगा ही । बादशाह बहाना खोज रहा है और मेवाड़ उसकी आँखों में शूल सा चुभ रहा है । वह मेवाड़ को विघ्निंस करेहीगा और एक बार हम उससे लोहा लेंगे ही । वह कल न सहीआज ही सही ।

**राणा—( सुरक्षा कर )** वह तो सत्य है । परन्तु अभी हमारी तैयारी में कमी है । अपनी तैयारी होने तक यथासम्भव युद्ध को टालना हमें उचित है ।

**कुंवर भीमसिंह—**श्रीमानों की आज्ञा पाऊँ तो अब्जे करूँ । हम युद्ध को निभन्नरण नहीं दे रहे । न किसी पर अत्याचार कर रहे हैं । हम केवल अन्याय और अत्याचार का विरोध कर रहे हैं । यह भी हम न करें तो हमारा राजपूत जीवन ही धिक्कार के योग्य है ।

राणा—तो आप सब सरदारों की यह राय है कि राजकुमारी की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाय ।

सब—अबश्य ।

राणा—चाहे भी जिस मूल्य पर ।

सब—( तखवारे खीचकर ) यह लोहा राजपूतों का धन है, इसी के मूल्य पर ।

राणा—( तखवार सूँतकर ) शरणागत अभय । ब्राह्मण, राजकुमारी से जाकर कह दो कि हम प्राण देकर उसकी रक्षा करेंगे ।

अनन्त मिश्र—धन्य महाराणा, धन्य त्रियवीर, धन्य वीरेन्द्र ( आगे बढ़कर मोतियों की माला राणा के गले में ढाककर) आप की जय हो । महाराज, राजकन्या तन, मन से आपको वरण कर चुकी है । यद्यपि रूपनगर का धराना आपके समक्ष अति साधारण है, फिर भी महाराज, वह पवित्र सोलंकियों की गदी है । उस कुल में अभी दाया नहीं लगा है । राजकन्या चारुमती रूप-गुण-शील में सब भाँति श्रीमानों के योग्य है—अब आप चलकर राजकुमारी को विधिवत् व्याह कर अपनी सेवा में लें । जिससे धर्मपूर्वक आप उसकी रक्षा के अधिकारी हों ।

सब—साधु ! साधु ! यह प्रस्ताव बहुत उत्तम है ।

राणा—( गम्भीरता से ) परन्तु ब्राह्मण देवता ! क्या यह प्रस्ताव  
कुमारी ने विपत्ति में पड़ कर किया है ?

अनन्त मिश्र—नहीं श्रीमान् ! जिस वीर की यशोगाथा राजपूतों  
के घर-घर गाई जाती है, और जिनके प्रताप का डंका  
वीर भूमि को जाप्त कर रहा है, जो राजपूत जाति  
के मुकुट रत्न हैं। उन्हे पाकर कौन बाला न धन्य  
होगी। महाराज, वह राजपूत बाला मन-वचन से  
आपकी महिली हो चुकी। अब आप देवता और  
अग्नि के सन्मुख धर्म-पूर्वक उसे अपनी पत्नी बनावें।

राणा—( सरदारों से ) आप सबका इस सम्बन्ध मे क्या मत है ?

रावत मानसिंह—( हाथ जोड़कर ) अननदाता ! राज-कन्याओं को  
हरण करके रानी बनाना तो राजपूतों का सनातन  
व्यवहार है। राजकन्या अब श्रीमानों को छोड़  
जायगी कहाँ ।

राणा—( कुछ देर मौल रहकर ) अच्छा, अब एक बात विचारने की  
रह गई ।

रावत समरसिंह—वह क्या महाराज ।

राणा—बादशाह अपनी ५० हजार सेना लिये रूपनगर की  
कुमारी को व्याहने आ रहा है। अब हम रूपनगर  
जायें तो उदयपुर को अरक्षित नहीं छोड़ सकते और  
यदि हम सारी सेना लेकर भी जायें और शाही सेना  
से मुठभेड़ हो जाय और कदाचित् हम काम आवें

तब राजकुमारी की रक्षा का क्या उपाय होगा । वह तो फिर भी बादशाह के हाथ पड़ रहेगी ।

**माधवसिंह—**हमे ऐसा उद्योग करना चाहिए कि बादशाह की सेना के रूपनगर पहुँचने के पहिले ही—हम रूपनगर से कुमारी का उद्धार करके लौट आवें ।

**राणा—**यह तो असम्भव है । आज चौदस है पंचमी को विवाह का मुहूर्त है । हम यदि रात दिन कूंच करें तो ४ दिन में पहुंच सकते हैं । परन्तु समस्त सेना को लेकर इस प्रकार धावा भारना हो ही नहीं सकता—रास्ता ऊबढ़ स्वाबड़ और दुरुह है ।

**दीवान फतहसिंह—**एक युक्ति है ।

**राणा—**वह क्या ?

**दीवान फतहसिंह—**श्रीमान् थोड़ी सी सेना लेकर रूपनगर जाकर कुमारी को ब्याह लावें, और कोई वीर सरदार मेवाड़ी सेना को लेकर रूपनगर और दिल्ली मेवाड़ के तिराहे पर शाही सेना को रोक रखें ।

. सब—यह युक्ति बहुत उत्तम है ।

**राणा—**परन्तु कौन ऐसा वीर है—जो इतने अल्प काल में ऐसे संकट को सिर पर ले । ( सब सन्नाटा मारते हैं )

**राणा—**क्या कोई वीर सरदार इस सेना की सरदारी स्वीकार कर सकता है ।

( सब सन्नाटे में रह जाते हैं )

कुवर भीमसिंह—( खडे होकर ) महाराज, यदि मेवाड़ में सभी  
सरदार बचनशून्य हैं तो इस सेवक को आज्ञा……

रत्नसिंह—अन्नदाता की जय हो । यह सेवा मैं करूँगा ।

( सब धन्य-धन्य कहते हैं )

राणा—रत्नसिंह, तुम इस अल्पवय में यह असाध्य कार्य करोगे ?

नहीं मैं तुम्हें यह जोखिम का कार्य नहीं दे सकता ।

रत्नसिंह—दुहाई अन्नदाता ! चूड़ावतों का यह जन्मसिद्ध  
अधिकार है । महाराज, मैं बीड़ा उठाता हूँ ।

राणा—परन्तु बीरवर इस काम में बहुत उत्तरदायित्व है ।

रत्नसिंह—मैं समझता हूँ महाराज ।

राणा—शत्रु बहुत प्रबल है, उसकी सेना अनगिनत है ।

रत्नसिंह—सिंह गोदड़ों की भीड़ की चिन्ता नहीं करते ।

राणा—हमारी सेना बहुत थोड़ी है और उसे तैयारी का समय  
विलकुल नहीं है ।

रत्नसिंह—हमारा सद्गुरुशय और तलवार यही काफी है ।

राणा—परन्तु सुनो । कल्पना करो तुम बादशाह की सेना को  
न रोक सके, तो हमारा सभी प्रयत्न निष्फल होगा ।

रत्नसिंह—( तलवार छूटर ) महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि  
जब तक श्रीमान् कुमारी को ज्याह कर सकुशल  
उदयपुर न लौटेंगे मैं शाही सेना को आगे न बढ़ाने  
दूँगा—न मैं मरूँगा, न गिरूँगा ।

सब—धन्य बीर ! धन्य !

राणा—तुम्हारा साहस और सत्यब्रत धन्य है। परन्तु वीर ! मैं  
तुम्हें ऐसे खतरे का काम सौंपते संकोच करता हूँ।

रत्नसिंह—तब मैं आभी यहीं अपना सिर अर्पण करूँगा महा-  
राज ! यह मेरा वीर ब्रत है।

राणा—अच्छी बात है। तुम्हारा वीर ब्रत अटल रहे। आओ मैं  
तुम्हें समस्त मेवाड़ी सैन्य का सेनापति अभिषिक्त  
करता हूँ।

(अभिषेक की सामग्री आती है। राणा रत्नसिंह को सेनापति का पद  
देकर अपनी लखवार उसकी कमर में बांधते हैं।

सब धन्य-धन्य कहते हैं। )

राणा—बस ! अब समय कम और कार्य बहुत है। कल प्रातः  
काल ही एक प्रहर रात्रि रहे हमारा कूच होगा। कुमार  
जयसिंह और भीमसिंह उदयपुर की रखवाली करेंगे।  
सोलंकी दलपत और माला सुलतानसिंह रत्नसिंह के  
साथ मेवाड़ी सैन्य के साथ रहेंगे। राव केसरीसिंह  
और राठौर जोधासिंह हमारे साथ चलेंगे। जाओ  
ब्राह्मण, कुमारी को सन्देश दो। दीवान जी ! ब्राह्मण  
देवता को यथेष्ट दान मान से सम्मानित करके खुरका  
के साथ विदा करो।

( पर्दा बदलता है। )

## छठा दृश्य

( स्थान—उदयपुर । सोलंकी दखपत के महल का प्रान्त भाग ।

रत्नसिंह और उसकी भावी पत्नी सौभाग्यसुन्दरी ।

समय—सन्ध्याकाल । )

सौभाग्यसुन्दरी—आपकी जय हो ! जाइये ।

रत्नसिंह—एक दम बिदा, कुमारी ! अभी हमारे मिलन की ऊषा का उदय भी नहीं हुआ और बिदा की घड़ी आ गई ।

सौभाग्यसुन्दरी—यही तो राजपूती जीवन है । आप विजयी होकर शीघ्र लौटिये ।

रत्नसिंह—(हंसकर) इसकी बहुत कम आशा है । हमारी शक्ति बहुत कम है और शत्रु अत्यन्त प्रबल है । फिर हमारे मिर पर अत्यन्त गुरुतर भार है ।

सौभाग्यसुन्दरी—आप बीर हैं । आपको भय क्या है ।

रत्नसिंह—कुछ नहीं, कुमारी ! मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होऊँगा ।

सौभाग्यसुन्दरी—कैसी परीक्षा ?

रत्नसिंह—भूल गई, तुम मेरी वरता का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहती हो

सौभाग्यसुन्दरी—वह मैं पा चुकी ।

रत्नसिंह—कैसे ?

सौभाग्यसुन्दरी—आपने यह कठिन बीड़ा उठाया, इसी से ।

रत्नसिंह—इससे क्या ? विजय करूँ तो बात ।

सौभाग्यसुन्दरी—क्षत्रियों की जय-पराजय दोनों ही विजय हैं।

रत्नसिंह—कैसे कुमारी ?

सौभाग्यसुन्दरी—क्षत्रिय बीर तो आन पर जूझते हैं वे मर कर अमर होते हैं—यह तो आप जानते ही हैं। मैं मूर्खा कहाँ तक कहूँ।

रत्नसिंह—तो जाऊं कुमारी ! विदा ।

सौभाग्यसुन्दरी—जाइये आप ! ( आँखों में आँसू भरकर ) हम फिर मिलेंगे ।

रत्नसिंह—शायद यहाँ या वहाँ ।

सौभाग्यसुन्दरी—( आँसू गिराकर ) ऐसा न कहिए ।

रत्नसिंह—( हँसकर ) यह क्या ? परीक्षा तो कठिन ही होती है कुमारी !

सौभाग्यसुन्दरी—दासी का अपराध क्षमा करें ।

रत्नसिंह—आह बीरबाला ! तुम्हारी जैसी क्षत्रिय कन्याएँ ही पुरुषों को बीर बनाती हैं, परन्तु……

सौभाग्यसुन्दरी—परन्तु क्या……

रत्नसिंह—कहूँ ?

सौभाग्यसुन्दरी—कहिए ।

रत्नसिंह—मेरी एक इच्छा थी ।

सौभाग्यसुन्दरी—क्या ?

रत्नसिंह—जाने से प्रथम……

सौभाग्यसुन्दरी—स्या ?

रत्नसिंह—एक बार……

सौभाग्यसुन्दरी—कहिये ?

रत्नसिंह—तुम्हें मैं प्रिये कहकर पुकारूँ ।

सौभाग्यसुन्दरी—(लजाकर) पुकारिए ।

रत्नसिंह—बिना अधिकार प्राप्त किये ?

सौभाग्यसुन्दरी—अधिकार कैसा ?

रत्नसिंह—पत्नी का ।

सौभाग्यसुन्दरी—अधिकार तो प्राप्त हैं । मैं आपकी मन-वचन से दासी हूँ ।

रत्नसिंह—ठीक है, पर धर्म से नहीं ।

सौभाग्यसुन्दरी—क्यों ? मेरा आपका वागदान हुआ है । मैं धर्म से आपकी हूँ ।

रत्नसिंह—फिर भी विधि तो नहीं हुई ।

सौभाग्यसुन्दरी—वह भी समय पर हो जायगी ।

रत्नसिंह—अब समय नहीं है, कुमारी !

सौभाग्यसुन्दरी—आह इतने कातर न हों ।

रत्नसिंह—सुनो कुमारी !

सौभाग्यसुन्दरी—कहिए ।

रत्नसिंह—मैं क्षत्रियकुमार हूँ ।

सौभाग्यसुन्दरी—हाँ ।

रत्नसिंह—और तुम क्षत्रिय-बाला ।

सौभाग्यसुन्दरी—हाँ ।

रत्नसिंह—तुम मेरी वागदत्ता हो ।

सौभाग्यसुन्दरी—हाँ ।

रत्नसिंह—क्यों तुम मुझे स्वीकार करती हो ?

सौभाग्यसुन्दरी—मन-वचन-कर्म से ।

रत्नसिंह—( लड़खड़ाती जबान से ) और प्यार भी ।

सौभाग्यसुन्दरी—( नीचा चिर करके ) अपने प्राणों से बढ़कर ।

रत्नसिंह—कुमारी, यह सूर्य अस्त हो रहे हैं ।

सौभाग्यसुन्दरी—हाँ ।

रत्नसिंह—यह सुन्दर मेघों के बीच प्रकाशमान नक्षत्र शुक्र है ।

सौभाग्यसुन्दरी—है ।

रत्नसिंह—वायु शीतल मन्द सुगन्ध वह रहा है ।

सौभाग्यसुन्दरी—वह रहा है ।

रत्नसिंह—हमारे हृदयों में प्रेम और त्याग की पवित्र अग्नि जल रही है ।

सौभाग्यसुन्दरी—जल रही है ।

रत्नसिंह—यह क्षत्रिय पुत्र देह को बलिदान करने रणयात्रा पर जा रहा है ।

सौभाग्यसुन्दरी—हमारा सम्बन्ध देह ही से नहीं, आत्मा से भी है ।

रत्नसिंह—अवश्य, पर देह ही उसका माध्यम है । धर्म विधि देह के ही लिए है ।

सौभाग्यसुन्दरी—मैं मूर्खा हूँ ।

रत्नसिंह—तुम देवी हों, यही समय है।

सौभाग्यसुन्दरी—कैसा?

रत्नसिंह—आओ, हम परस्पर आत्मा का विनिमय करें। इसी सूर्य, नक्षत्र, आकाश, हृदयगिरि और वायु की साक्षी में। निकट आओ।

सौभाग्यसुन्दरी—(निकट आकर) सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवताओं के सन्मुख में इस अधम तन-मन को आपके अर्पण करती हूँ।

रत्नसिंह—और सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवताओं के सन्मुख मैं तुम्हारा आत्म-दान प्रहण करता हूँ। तुम अब से मेरी शिय पत्ती हुई।

सौभाग्यसुन्दरी—और आप मेरे प्राणधार पति।

रत्नसिंह—प्रिये!

सौभाग्यसुन्दरी—प्राणधन !

रत्नसिंह—ओह! मैं कृतकृत्य हो गया।

सौभाग्यसुन्दरी—मैं धन्य हो गयी।

रत्नसिंह—अब जीवन-मरण मेरे लिए खेल है।

सौभाग्यसुन्दरी—यही राजपूती जीवन की शोभा है।

रत्नसिंह—अब जाऊं प्रिये, विदा।

सौभाग्यसुन्दरी—विदा, प्राणनाथ।

रत्नसिंह—हम फिर मिलेंगे।

सौभाग्यसुन्दरी—अबश्य मिलेंगे।

रत्नसिंह—इस जन्म में अथवा उस जन्म में ।

सौभाग्यसुन्दरी—कीर्ति के पुल पर होकर ।

रत्नसिंह—मैं अपना कर्तव्य पालन करने जाता हूँ । हुम अपना कर्तव्य पालन करना ।

सौभाग्यसुन्दरी—करूँगी ।

रत्नसिंह—इसी अल्पवय में । आशा, प्रेम और आकांक्षाओं से परिपूर्ण सुलगते हुए हृदय को लेकर ।

सौभाग्यसुन्दरी—निश्चय स्वामी !

रत्नसिंह—बहुत कठिन है प्रिये ।

सौभाग्यसुन्दरी—क्षत्रियबाला के लिये नहीं ।

रत्नसिंह—तब बिदा ।

सौभाग्यसुन्दरी—बिदा ।

रत्नसिंह—समर्ण रहे, अपना कर्तव्य ।

सौभाग्यसुन्दरी—निश्चिन्त रहिए ।

रत्नसिंह—(जाता-जाता उल्ट कर कुमारी को आकिञ्जन करता है फिर कुछ देर बाद) अब चला प्रिये, कर्तव्य का ध्यान रखना ।

सौभाग्यसुन्दरी—(रोकर) दासी पर इतना अविश्वास ?

रत्नसिंह—(आँसू पोंछकर) अविश्वास नहीं । परन्तु………  
अच्छा बिदा प्रिये !

सौभाग्यसुन्दरी—बिदा प्राणेश्वर !

(रत्नसिंह तेजी से जाता है और सौभाग्यसुन्दरी उस भूमि पर जहाँ रत्नसिंह खड़ा था, लेट कर फूट-फूट कर रोती है )

(पद्म निरता है )

## सातवाँ दृश्य

(स्थान—उदयपुर । सोलकी दलपत का घर । सौभाग्यसुन्दरी  
अकेली छुर्जे मे खड़ी, मैदान मे सुसज्जित सेना को  
देख रही है । समय—प्रातःकाल)

सौभाग्यसुन्दरी—(स्वगत) यहीं तो राजपूती शान है । राज-  
महल का यह विशाल प्राङ्गण वीरों से भरपूर होकर  
कैसा दैदीप्यमान हो रहा है । चपल घोड़े जैसे धीरज  
खो रहे हैं । कब मालिक का संकेत हो और वे अपनी  
उछलती चाल का रंग दिखावें । वीरों के शस्त्र प्रभात  
की इस मनोरम धूप में किस भाँति चमक रहे हैं । वह  
मेरे प्राणों के धन श्वेत घोड़े पर सवार सेना का  
निरीक्षण कर रहे हैं । उनके कण्ठ का वह मुक्ताहार  
कैसा प्यारा लग रहा है । कल जब उन्होंने मुझे छुआ  
तो जैसे जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ हो गया ।  
आज यह प्रभात कैसा मनोरम दीख रहा है । ऐसा  
ही तो जीवन का प्रभात भी होता है । (विमोर होकर)  
प्रिये ! प्रिये ! कैसा प्यारा शब्द था । सुनकर रोम रोम  
पुलकित हो गया । इच्छा होती है, बारम्बार वह  
शब्द सुनूँ । वही शब्द, वही मधुर संगीत स्वर से भी  
आधिक मधुर स्वर । (चौंककर) परन्तु……

हायरे राजपूत जीवन ! (आंसू पोछकर) नहीं । आंखों  
में आँसू भरकर मुझे अपशकुन नहीं करना चाहिए ।  
पृथ्वी और आकाश के देवता उनकी रक्षा करेंगे । यह  
देखो वे इसी ओर को कुछ संकेत कर रहे हैं । देखो  
घोड़े पर झुककर उन्होंने क्या कहा । यह कौन है ?  
अरे, यह तो उनका प्रियभूत्यु गुलाब है । यह भी  
गर्दन टेढ़ी करके मेरी ओर को देख रहा है । लो वह  
इधर ही को चला । यह आ रहा है वह । स्वामी ने  
मेरे लिए कुछ सन्देश भेजा है । मेरे स्वामी ने । कल  
उन्होंने कहा था प्रिये ! प्रिये ! ओफ ।

(आनन्दविमोर होकर चुप हो जाती है । कक्ष में गुलाब आता है ।)

गुलाब—जुहार हाड़ी रानी !

रानी—ठाकुर, कैसे आए हो ?

गुलाब—स्वामी का एक सन्देश है रानी ?

रानी—क्या संदेश है, कहो ।

गुलाब—वे क्रूँच कर रहे हैं ।

रानी—उनकी यात्रा शुभ हो । वे विजयी होकर लौटें ।

गुलाब—परन्तु.....

रानी—परन्तु क्या ?

गुलाब—उन्होंने कहा है ।

रानी—क्या कहा है ?

गुलाब—कैसे कहूँ ?

रानी—कहो ठाकुर ।

गुलाब—कहा है, इस काल युद्ध से जीते जी बचकर आना सम्भव नहीं है ।

रानी—क्षत्रिय को वीरगति प्राप्त होने से बढ़कर सौभाग्य क्या है ।

गुलाब—परन्तु वे द्विविधा में पड़े हैं ।

रानी—द्विविधा ? युद्ध यात्रा के समय क्षत्रिय को द्विविधा ?

गुलाब—वे रात भर द्विविधा में रहे ।

रानी—छीः छीः रात भर ? क्या द्विविधा है, सुनूँ तो मैं ।

गुलाब—आपकी द्विविधा है रानी ।

रानी—मेरी द्विविधा कैसी ?

गुलाब—वे कहते हैं, आप अभी युवा हैं, कब्जी उम्र है, संसार अभी देखा नहीं है । यदि कुछ उल्टा-सीधा हो गया तो आप कैसे कठिन क्षत्रिय-बाला का ब्रतपूर्ण कर सकेंगी ।

रानी—क्यों ? क्या मैं क्षत्रिय-बाला नहीं हूँ ।

गुलाब—आपकी यह आयु आनन्द उपभोग की है ।

रानी—पर क्षत्रिय-बाला जब चाहे आत्मोत्सर्ग कर सकती है ।

उनसे कहो वे निश्चित होकर शत्रु से लोहा लें और अपना कर्त्तव्य-पालन करें । मैं अपना कर्त्तव्य-पालन करूँगी ।

गुलाब—मैंने समझाया था रानी जी, पर वे निरन्तर तुम्हारी ही चिन्ता कर रहे हैं।

रानी—छोः युद्ध काल में स्त्री की चिन्ता।

गुलाब—वे प्रमाण चाहते हैं।

रानी—कैसा प्रमाण?

गुलाब—जिसे पाकर वे आपकी ओर से निश्चित होकर शत्रु से लोहा ले सकें।

रानी—(विचार कर) ऐसा प्रमाण चाहते हैं?

गुलाब—हाँ, रानी, आपको उनकी द्विविधा दूर करनी होगी।

रानी—(कुछ देर गम्भीर मनन करके) अच्छा, मैं तुम्हें प्रमाण देती हूँ, उसे अपने स्वामी को देकर कहना कि यह हाड़ी रानी का प्रमाण है, अब निश्चित होकर शत्रु से युद्ध करें।

गुलाब—जो आज्ञा रानी जी!

रानी—ठाकुर तनिक सावधान हो। तुम्हारी तलवार कैसी है देखूँ?

गुलाब—(कुछ डरकर तलवार देता हुआ) वह अति साधारण है रानी जी।

रानी—फिर भी राजपूत की है। इसने बड़े-बड़े काम किये होंगे। क्यों? तुम तो बीरवर के सेवक हो।

गुलाब—यह तलवार उन्हीं की दी हुई है रानी जी, उनके बाल-  
काल में सेवक ने इसी तलवार से उन्हें तलवार  
चलाना सिखाया है।

रानी—( तलवार की धार परन्तु कर ) पानीदार चीज़ है। अच्छा, तो  
लो प्रमाण, अपने स्वामी को दे देना। ( बिजली की भौंति  
तेजी से भरपूर हाथ गर्दन पर मारती है, सिर कटकर घरती  
में गिर पड़ता है, धड़ झूमता है। क्षण भर में घर के लोग  
जमा हो जाते हैं। गुलाब हक्कान्बक्का खड़ा रह जाता है। )  
( पर्दा गिरता है )

## आठवाँ दृश्य ।

स्थान—रूपनगर । चामुँडा के मंदिर का बाहरी भाग । समय—  
प्रातःकाल । स्त्री-पुस्त आज्ञा रहे हैं । मन्दिर में से होम की ध्वनि  
आ रही है । ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं । एक और से दो  
यवन सैनिक आकर चबूतरे पर बैठ जाते हैं । दूसरी  
ओर से विक्रम सोलंकी और दुर्जन हाड़ा चाटे  
करते आते हैं । ।

विक्रम—मैं कहे देता हूँ कि जब तक शरीर में प्राण हैं मैं यह  
ब्याह नहीं होने दूँगा ।

दुर्जन—क्या करोगे तुम ?

विक्रम—इस तलवार की धार का रस……

दुर्जन—रहने दो तलवार, बादशाह की ५० हजार सेना के  
सामने तुम्हारी तलवार क्या करेगी ? फिर जब राजा  
ही अपना शत्रु है ।

विक्रम—कौन उस छोकरे को राजा कहता है, राजा मैं हूँ ।

दुर्जन—यों तो मैं भी कह सकता हूँ सेनापति मैं हूँ ।

विक्रम—तुम रूपनगर के सेनापति हो ही, दुष्ट राजा ने तुम्हें  
पदचयुत कर दिया तो इससे क्या ?

दुर्जन—तुम्हारे राजा कहने ही में क्या सार है । (निराश होकर)  
हमारी शक्तियाँ सीमित हैं । हम कुछ न कर सकेंगे ।

विक्रम—अपने प्राण तो दे सकेंगे ।

दुर्जन—तुमने क्या सोचा है ? सुना है, शाही सेना आजकल में  
आ पहुंचेगी ।

विक्रम—हमने गुप्त रूप से वीरों का संगठन किया है । दो  
हजार राजपूत मरने मारने को तैयार हैं ।

दुर्जन—वे क्या बादशाह की ५० हजार सेना से मुकाबिला  
कर सकेंगे ?

विक्रम—(कान में कुछ कहकर) समझे ! हमें दृण-दृण पर  
आशा है ।

दुर्जन—(आश्चर्य से) क्या सच ?

विक्रम—(धीरे से) अनन्तमिश्र को गये आज मातवाँ दिन है ।

दुर्जन—तब तो आशा होती है ।

विक्रम—चलो फिर, उसी भग्न मन्दिर में गुप्तमन्त्रणा होगी ।  
सब लोग पहुंच गये होंगे ।

दुर्जन—चलो । (चौककर) हैं, मन्दिर के चबूतरे पर ये यवन  
सैनिक कौन है ?

विक्रम—क्या शाही सेना आ पहुंची ?

दुर्जन—दुष्ट, स्त्रियों को धूर रहे हैं ।

विक्रम—उनका अपमान कर रहे हैं । (दोनों आगे बढ़ते हैं)

विक्रम—(सैनिकों से) कौन हो तुम ?

एक सैनिक—(खड़ता से) इतना भी नहीं देख सकते, इन्सान हैं ।

विक्रम—यहाँ क्यों बैठे हो, यह मन्दिर है। उठो चलते फिरते नज़र आओ।

दूसरा—(हँसकर) चले जावेंगे। बैठे हैं, कुछ तुम्हारा लेते तो नहीं।

विक्रम—यहाँ बैठने का तुम्हारा काम क्या है?

पहला सैनिक—ज्यादा कुछ नहीं, जरा दीदारबाजी।

विक्रम—(गुस्से से) मन्दिर में दिल्लगी। उठो यहाँ से।

सिपाही—अपना काम देखो तुम लाल पीले न बनो बरना हमारी ज़बान और तेग साथ ही चलती है।

विक्रम—(तलवार खींचकर) तब देखे, तुम्हारी तेग की बानगी।

सिपाही—(तलवार सूंतकर) देख रे काफिर……

दुर्जन हाड़ा—यहाँ नहीं विक्रमसिंह, यह देवी का स्थान है।

सिपाही—हम शाही बन्दे हैं। हमें परवा नहीं, शाही बन्दे से गुस्ताखी करने का मज़ा चखो। ( तलवार का बार करता है )

विक्रम—बादशाह का बड़ा डर दिखाया। तुम ऐसे कितने शाही बन्दों को काट फैंका। ( पैंतरा बदलता है )

सिपाही—तुम जैसे को मारने का सबाब है, ले। ( जनेऊ पर बार करता है )

विक्रम—( बार बचाकर काट करता हुआ ) तो ले अभागे मर।

दूसरा सिपाही—( तलवार सूंतकर ) आबरदार !

**दुर्जन हाड़ा—**( तलबार सूतकर ) खबरदार ।

( चारों में तलबार चलती है । भीड़ इकट्ठी हो जाती है )  
भीड़ में से एक आदमी—इन्होंने मुझे लूट लिया, २॥ सेर मिठाई  
खा गये और पैसा माँगा तो गालियाँ दीं ।

**दूसरा आदमी—**अभी-अभी इस डाढ़ीवाले ने मेरा हुपड़ा छीना  
है और मारा है ।

**विक्रम—**( तलबार चलाता हुआ ) डाकू हो तुम ।

**सिपाही—**( तलबार द्वामाता हुआ ) काफिर कुत्ता ।

( लड़ते-लड़ते एक सिपाही मारा ज ता है, दूसरा भाग जाता है । )

**विक्रम—**( तलबार पोछता हुआ ) चलो हाड़ा ! आज रात को  
जाने क्या होगा ।

(दोनों तेजी से जाते हैं । भीड़ भौति-भौति की बातें करती हुई  
इधर-उधर जाती है । लाश वहीं पड़ी रह जाती है । )

## नवाँ दृश्य

( स्थान—उदयपुर के राजमहल का प्रशस्त प्रङ्गण । सब सेना सुसज्जित खड़ी है रत्नसिंह अन्यमनस्क घोड़े पर सवार कुछ सोच रहे हैं । सेना-नायक आशा की प्रतीक्षा में है । शोर हो रहा है, घोड़े हिन-हिना रहे हैं । समय—प्रातःकाल । )

रत्नसिंह—जीवन का सर्वोक्तु भाग यौवन है परन्तु ज़त्रिय के लिये यौवन सब से अधिक खतरनाक है । वह विप-त्तियों के बादलों में धूमता है, मृत्यु को बरण करता है । जीवन को चुनौती देता है, लोहू और लोहे के खेल खेलता है । ( कुछ सोचकर ) कैसा मधुर कोमल सुख-स्पर्श ! कैसी मोहक कण्ठध्वनि ! उसने कहा था, ग्राण-नाथ ! ग्राणधन ! अब कब ये कान सुनेंगे ( चौंककर ) काल की भाँति दिल्लीश्वर बढ़ा आ रहा है मुझे उससे युद्ध नहीं करना है उसे रोकना है । मुझे मरना नहीं है जीवित रहना है । युद्ध में ज़त्रिय का मरना तो बहुत आसान है परन्तु जीवित रहना कठिन ! बहुत ही कठिन !! परन्तु मैं जीवित रहूँगा । कार्य सिद्धि तक तो अवश्य । यह मेरी प्रतिज्ञा है । मैं सत्यब्रती चूँड़ाजी का वंशधर हूँ और अपने बीर पिता का प्रतिनिधि हूँ । ( कुछ सोचकर ) परन्तु यदि युद्ध में मृत्यु को आलिङ्गन करना पड़ा । यदि विजयलङ्घीं प्रसन्न न हुईं तो ?

तो यह अस्फुटित कुमुम कली के समान कुमारी ! अब्बूले पुष्प के समान कोमल और मृदुल कुमारी क्या कठोर चक्रियब्रत का पालन कर सकेगी ? हाय ! क्यों मैंने उसके कौमार्य ब्रत को भंग किया ! वागदान ही था न परन्तु अब ! सेना में जयजयकार का घोष होता है ) लो, महाराणा की सेना कूंच कर गई। एक पहर दिन चढ़ गया और मैं विमृद्ध बना स्त्रीचिन्तन कर रहा हूँ, परन्तु गुलाब अभी नहीं आया। ( चौंककर ) कौन गुलाब ?

राव केसरीसिंह—नहीं, मैं हूँ सेनापति ! अब हमें कूंच करना चाहिये, सेना अधीर हो रही है।

रत्नसिंह—अभी कूंच होगा रावजी ! ( चारों तरफ देखकर ) गुलाब नहीं आया। ( चौंककर ) वह आ रहा है परन्तु उसके हाथ में क्या है। ( निकट आने पर ) स्त्री का सिर ? हा परमेश्वर ! यह क्या है ?  
( गुलाब गनी का सिर लिए आता है )

गुलाब—लीजिए, महाराज प्रमाण !

रत्नसिंह—कैसा प्रमाण !

गुलाब—हाड़ी रानी का प्रमाण ! स्वामी, उन्होंने इसे देते हुए कहा—कि वीर चक्रिय को युद्ध के अवसर पर स्त्री का चिन्तन न करना चाहिए। स्वामी यदि पत्नी का अविश्वास करे तो धरती किसके बल ठहरे ! महाराज, उन्होंने अपने हाथ से यह प्रमाण ऐश किया है

**रत्नसिंह**—(कुछ चल आँख फाढ़ फाढ़ कर सिर की ओर देखकर) लाञ्छो फिर ! वीरबाला का यह अमूल्य प्रमाण (सिर को हाथ में लेकर बालों की लट चीर कर गले में लटका लेता है)। फिर तलवार ऊँची करके) वीरो, आज हमारे लिये पवित्र दिन है। अब हमारे रक्त की, बाहुबल की और राजपूती जीवन की परीक्षा होगी। तुम में से जिसे जीवन प्यारा हो—अलग हो जाय।

**सैनिक**—महाराणा जी की जय, श्री एकलिङ्गजी की जय। हम मर भिटेंगे, पर पीछे पैर न देंगे।

**रत्नसिंह**—(दर्प से) नहीं, हम मरने नहीं जा रहे हैं। प्रतिज्ञा करो कि जब तक महाराणा सकुशल रूपनगर से न लौट चलें, हम बादशाह को आगे नहीं बढ़ने देंगे।

**सब**—हम प्रतिज्ञा करते हैं।

**रत्नसिंह**—हम न मरेंगे, न टलेंगे, न पीछे हटेंगे।

**सब**—हम प्रतिज्ञा करते हैं।

**रत्नसिंह**—चलो फिर वीरो ! आज हमारी प्यासी तलवारें शत्रु के रक्त का पान करेंगी।

**सब**—जय, श्री एकलिङ्ग की जय। मेवाड़पति की जय।

(सब जाते हैं। पर्दा खिलता है।)

---

## दसवाँ दृश्य

(स्थान—रूपनगर का एक भग्न मन्दिर। मन्दिर मे पचास से ऊपर  
मनुष्य बैठे मन्त्रणा कर रहे हैं। विक्रम सोलकी और  
दुर्जन हाड़ा बीच में बैठे हैं)।

विक्रम—सर्दारो, आज हमें इस रूप में एकत्र होकर गुप्त मन्त्रणा  
करनी पड़ी, इसका हमें खेद है। परन्तु धर्म और देश  
की रक्षा के लिए हमें यह काम करना पड़ा। आपको  
मालूम है कि रूपनगर के राजा ने गही पर बैठते ही  
राजपूतों की नाक काटनी प्रारम्भ कर दी है।

सब—हमारे राजा आप हैं। आप ही रूपनगर के सच्चे राजा हैं।

विक्रम—मैंने सोचा था कि मैं बूढ़ा हुआ, राज काज के खटराग  
में न पढ़ूँ। यही ठीक है, इसी से रामसिंह के राजा  
होने का विरोध न किया। मेरे विरोध करने पर  
रामसिंह.....

सब—राजा नहीं हो सकता था।

एक—क्या कायर बीरों का राजा हो सकता है?

दूसरा—नहीं। जिस प्रकार गीदड़ सिंहों का राजा नहीं हो  
सकता।

विक्रम—मित्रो, इस समय हमारी प्रतिष्ठा पर संकट आया है,  
हमें उसे पार करना होगा ।

सब—आपकी आङ्गड़ा से हम आग में कूद पड़ेंगे ।

विक्रम—आपको मालूम है, बादशाह बड़ी भारी सेना लेकर  
हमारे मुँह में कारिख लगाने आ रहा है । क्या हम  
जीते जी राजकुमारी उसे व्याह देंगे ।

सब—नहीं-नहीं, कदमि नहीं ।

विक्रम—मालूम होता है कि बादशाह निकट आ गया है । अभी  
उसके दो सैनिकों से हमारी मुठभेड़ हो चुकी है ।  
संकट अब सिर पर है । हमें तैयार रहना चाहिए ।

सब—हम तैयार हैं ।

विक्रम—मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समय पर हमें  
दैवी सहायता मिल जायगी और राजकुमारी की रक्षा  
हो जायगी ।

सब—हम भन, वचन, कर्म से प्राण देने को तैयार हैं ।

विक्रम—तब सुनिए, हमें अपने अपने आदमियों सहित किले  
के निकट ही रहना चाहिए ।

सब—ऐसा ही होगा ।

विक्रम—संकेत के पाँच स्थल हैं । एक चामुण्डा का मन्दिर,  
दूसरा हाङ्गा का घर, तीसरे अनन्तमिश्र की बाड़ी,  
चौथा कुमारी का महल, पाचवाँ महल का सिंह द्वार ।  
संकेत में दो बार शंख बजाने पर एक हम महल घेर

लिया जाय और दूसरी आङ्गा की प्रतीक्षा की जाय ।  
सब—ऐसा ही होगा ।

विक्रम—दुर्जन हाड़ा लाल भरडे से आपको आक्रमण का आदेश देंगे ।

सब—बहुत अच्छा ।

विक्रम—परन्तु मुझे विश्वास है, बिना ही रक्षपात के सब काम हो जावेंगे । अच्छा सावधान ! विशेष आदेश सरदारों के पास पहुँच जावेंगे । अब आप सब कोई चलकर तैयार रहें । सर्व छिपते ही भेष बदल कर किले के निकट रहे । किले के समस्त फाटकों पर हमारे विश्वस्त सिपाही हैं, और महल में सर्वत्र हमारा पहरा है ।

सब—विक्रम सोलंकी की जय । राजपूतों की जय ।

(पद्मा गिरता है)

## भ्यारहवाँ दश्य

(स्थान—रुचनगर का राजमहल; राजकुमारी का महल। समय—  
अर्ध रात्रि। राजकुमारी चाहमती खिड़की में बैठी अकेली  
गा रही है। गोद में राजसिंह का चित्र है )

(राग—पीलू)

नहीं आये ।

जागत बीती रैन ।

भोर भयो आलस के मारे,

भपके पापी नैन ।

मैं भोरी बेसुध हो सोई,

बे सपने में आये ।

अंक भरूँ पगलूँ-बलि जाऊँ,

चरण बिछाऊँ नैन ।

बैरिन नीद गई मैं जागी,

समझी सपने की सब माया ।

सोबे सो खोबे, जागे सो पावे,

जग जाहिर ये बैन ।

मैंने जाग गँवायो री साजन,

फूटें बैरी नैन ।

नहीं आये ।

नहीं आये ।

( रोती है और दोनों हाथों से मुँह ढंक लेती है निर्मला आती है )

निर्मला—रोने से क्या होगा ?

राजकुमारी—तब तू हँस, हँसने से शायद कुछ हो जाय ।

निर्मला—समय आवेगा तब हँसूँगी, अभी काम की बात करो ।

राजकुमारी—काम की बातें क्या हैं ।

निर्मला—कुछ उपाय सोचना होगा ।

राजकुमारी—उपाय कैसा ? शाही सेना परसों यहाँ आ पहुँचेगी ।

भाई ने तो बादशाह का साला बनने का इरादा पक्का कर ही लिया है । उन्हें इस सिलसिले में जागीरें मिलेंगी । अब मुझ अबला का रक्तक कौन है ?

निर्मला—रक्तक भगवान हैं । पर हमें रोकर नहीं, बुद्धि लड़ाकर काम करना चाहिये ।

राजकुमारी—तू बुद्धि लड़ाकर देख ।

निर्मला—एक युक्ति है ।

राजकुमारी—क्या ?

निर्मला—उद्यापन ब्रत करो ।

कुमारी—किसलिये ? सुहाग रहे इसलिए ?

निर्मला—यह बात अभी रहे । अभी तो इसका गूढ़ उद्देश्य यह होगा कि ३ दिन का हमें और समय मिल जायगा । तीन दिन अभी बाकी हैं । ६ दिन में कुछ न कुछ ही रहेगा ।

राजकुमारी—क्या होगा ? बादशाह की विपुल सेना तीन दिन में सारे कुण्ड सालाबों का पानी पी जायेगी । सारे नगर

का अन्न स्वा जायगी । इससे तो यही उत्तम है कि मैं आज ही विष स्वा लूँ । बादशाह मार्ग से लौट जाय ।

निर्मला—सुनो ! अनन्तमिश्र को उदयपुर गये आज पाँचवाँ दिन है । यदि विज्ञ-बाधा न हुई तो वे पहुँच भी लिये और सहायता साथ ले चल भी दिये । ३ दिन में अवश्य राणा आ जावेंगे यह मेरा मन कहता है ।

राजकुमारी—भाई मानेंगे ?

निर्मला—महारानी उन्हें मना लेंगी । मैं महारानी को राजी कर लूँगी ।

राजकुमारी—और जो वे न मानें ?

निर्मला—तो भारतेश्वरी स्वयं उन्हें हुक्म देंगी । किसकी मजाल है, आलमगीर की मलिका का हुक्म टाल सके ।

राजकुमारी—तू मर ।

निर्मला—अभी नहीं । तुम्हारे हाथ पीले हो जायें तब ।

राजकुमारी—( फीकी हँसी हँसकर ) अरी चिन्ता न कर, सब दुखों की दवा मेरे पास यह है । ( विष भरी ओँ गूठी दिखाती है )

निर्मला—राजकुमारी, तुम जुग-जुग जिओ । मैं जाकर महारानी से कहती हूँ तुम तनिक विश्राम करो ।

राजकुमारी—( रोती हुई ) अब मैं चिर विश्राम करूँगी सखी ।  
( ओँसू पोछती है । निर्मला रोती हुई जाती है )

## चौथा अङ्क

पहला दृश्य

—:०:—

(स्थान—रूपनगर का राजमहल । राजा रामसिंह और विक्रमसिंह ।  
समय—मध्यान्ह )

रामसिंह—( धरती में पैर पटक कर ) मैं कहता हूँ आपने यह  
साहस ही कैसे किया ? शाही आदमी को आपने  
आब देखा न ताब, खट से क़ल्ल कर दिया । (कुछ उहर  
कर) अब जवाब तो मुझे देना होगा, आपको नहीं ।  
राजा मैं हूँ—आप नहीं । आप क्या सोच रहे हैं  
काकाजी ।

विक्रमसिंह—यही सोच रहा हूँ कि रूपनगर के राजा रामसिंह  
हैं विक्रमसिंह नहीं ।

रामसिंह—सो तो है ही । इसी से मैं पूछता हूँ कि मेरे बिना  
हुक्म के आपने शाही सिपाही को कैसे क़ल्ल किया ?

विक्रमसिंह—कैसे बताऊँ । कोई शाही सिपाही यहाँ हाजिर  
होता तो अभी खट से उसका सिर काट लेता ।

रामसिंह—यह तो अन्धेर है । अजी मैं पूँछता हूँ क्यों ? किस  
लिये ?

विक्रमसिंह—यह आपने कब पूछा ?

रामसिंह—अच्छा अब सही । कहिए, आपने क्यों उसका सिर काट लिया ?

विक्रमसिंह—वह देवी के मन्दिर के सिंह द्वार पर बैठा खियों को घूर रहा था । मैंने जब उसे चले जाने को कहा तो वह गुस्ताखी कर बैठा । विक्रमसिंह सोलंकी को यह सहन कहाँ ? फट से तलवार सूँती और खट से भुट्ठा सा सिर उड़ा दिया । बस इतनी ही सी तो बात है महाराज !

रामसिंह—आप हमारे काका हैं—सो क्या मेरे राज में मनमानी करेंगे ।

विक्रमसिंह—तुम राजा हो गये सो क्या अपने बड़े-बूढ़ों को कुछ भी न समझोगे ? धर्म का तिरस्कार करोगे । मर्यादा और नीति सबको धता बताओगे ?

रामसिंह—यह तो खूब रही । आप क्या मुझ से कैफियत तलब करेंगे । मुझ से ? राजा से ?

विक्रमसिंह—क्यों नहीं ? तुम्हें राजा बनाया किसने है, हमी ने न ? अगर तुम सत्य कर्म से राज-काज करोगे तो राजा, नहीं तो जैसे हमने तुम्हें राजा बनाया है उसी तरह राज्य से उतार भी देंगे ।

रामसिंह—आपकी इतनी मजाल । आप राजा से ऐसी बातें कहते हैं ?

विक्रमसिंह—क्यों नहीं । एक तो मैं राजा का काका, दूसरे मेरी प्यारी यह तलवार जब तक मेरे पास है—निर्भय सत्य कहूँगा । उसे तुम रोक न सकोगे ।

रामसिंह—(गुस्से से) नहीं, मेरे राज्य में आप मनमानी न करने पावेंगे ।

विक्रमसिंह—(गुस्से से) विक्रम सोलंकी के रूपनगर में रहते तुम मनमानी न करने पाओगे ।

रामसिंह—मैं राजा हूँ ।

विक्रमसिंह—अनीति करोगे तो राजा नहीं रहने पाओगे ।

रामसिंह—मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ । (पुकार रु) कोई है ?  
(दो सेवक सिपाही आते हैं)

रामसिंह—इन्हें बाँध लो ।

विक्रमसिंह—(हँसकर) क्या कहने हैं । (तलवार सूंतकर) जिसमें दम है वह आगे आवे ।

(दोनों सिपाही ठिठक जाते हैं)

रामसिंह—बदज्जातों ! क्या देखते हो आगे बढ़ो ।

विक्रमसिंह—तुम सुद ही क्यों नहीं आगे बढ़ते ।

रामसिंह—(तलवार सूंतकर) यही सही । तो राजा के अपमान का फल चखो ।

**विक्रमसिंह**—(बार बचा कर) रामसिंह, बचपन में मैंने तुझे कितना तलवार चलाया था—पर तुझे कुछ न आया। देख, बार इस तरह किया जाता है। (बार करता है—रामसिंह की तलवार भन्ना कर टूट जाती है) कह—सिर काट लूँ या छाती फाड़ डालूँ।

**रामसिंह**—राजा के अपमान का बदला समय पर लिया जायगा। (जाता है)

(शादूर्लसिंह कई सिपाहियों के साथ आता है)

**विक्रमसिंह**—शादूर्लसिंह, अभी हमें बहुत से काम करने हैं कुछ शाही सैनिक किले में ठहर रहे हैं और बादशाह के आने की प्रतीक्षा में हैं, पर बादशाह अभी तीन दिन की मंजिल पर है, आज वे किसी हालत में पहुँच नहीं सकते, किन्तु विवाह का मुहूर्त तो आज ही है, सावधान रहो। सूर्यास्त के बाद सभी शाही सिपाही कैद कर लिये जायें और महलों के सब द्वार और रहों पर अपने विश्वस्त जनों का पहरा रहे। (कान में कुछ कह कर) ये ही यह संकेत कोई कहे—उसे बेखटके भीतर आने दो। जो यह संकेत न बोले—उसे तुरन्त मार दो। जाओ।

**शादूर्लसिंह**—जो आज्ञा महाराज !

(शादूर्लसिंह जाता है)

**विक्रमसिंह**—महाराणा को आज सूर्यास्त तक यहाँ आ जाना चाहिये—मुझे ठीक समाचार मिला था—परन्तु वे अभी तक नहीं आये हैं, सूर्यास्त में अब सिर्फ दो घड़ी शेष हैं। बादशाह को भी आज रूपनगर के सिवाने पर आ जाना चाहिए था। पर वह भी अभी दूर है। यह क्या मामला है। देखूँ आज राजकुमारी की रक्षा कैसे होती है।

(जाता है)

## दूसरा दृश्य

(स्थान—नगर के महल का तीसरा भाग। महल में व्याह की धूमधाम हो रही है। सखियाँ चाहमती का शङ्कर कर रही हैं। डाढ़िने गीत गा रही हैं। समय—सन्ध्या। चाहमती चुपचाप आँख बहाती हुई बैठी है। निर्मल जड़ाऊ जेवगे का थाल लेकर आती है।)

निर्मल—जड़ाऊ गहने पहनो कुमारी, आज तुम्हारे सुहाग का दिन है।

चाहमती—पहनादे सखी, सुहाग न सही सुहाग का स्वाँग ही सही। लाओ देखूँ तो दुलहिन कैसे सजा करती हैं। खूब सजा दो, दुलहिन बना दो। (रोती है)

निर्मल—(धीरे से) छी: सुहाग के समय रोती हो सखी! धीरज धरो। तुम्हीं अधीर होगी तो फिर हम क्या करेंगी? चाहमती—अरी कैसे धीरज धरूँ, अभी तक भी राणा नहीं आये।

निर्मल—और न बादशाह की फौज का ही कहीं पता है, शाही सेना का पता लगाने कासिद दौड़े फिर रहे हैं।

चाहमती—मरै वह मुआ! उनकी तलाश के लिए भी किसी को भेजा है।

निर्मल—काका विक्रमसिंह ने अपने चर लगा रखे हैं। उन्हें आशा है.....

चारुमती—आशा, आशा, हाय यह आशा कैसी भारी चीज़ है।

परन्तु सखी यह मेरी रक्षा करेगी। अ गूठी (दखलती है)

इसमें हलाहल विष भरा है।

निर्मल—(ओंटू भर कर) मरे तुम्हारे दुर्शन, तुम जीओ सखी !

(ओंटू पोछकर धीरे से कान में) इसमें कुछ भेद मालूम होता है।

चारुमती—कैसा भेद ?

निर्मल—न बादशाह आये न राणा जी, कहीं मार्ग में मुठभेड़ हो गई हो तो

चारुमती—हे परमेश्वर, क्या होने वाला है।

निर्मल—सब ठीक होगा। चुप। वह राजा आ रहे हैं,  
(रामसिंह व्यग्र भाव से आता है)

रामसिंह—(स्वगत) बड़ी मुश्किल है। हर जगह कभी ही कभी नज़र आती है। बहुत कोशिश करता हूँ कि सब ठीक-ठाक रहे—मगर जहाँ देखता हूँ, कसर है। बादशाह सलामत अभी नहीं आए। दिन छिप रहा है, विवाह का मुहूर्त निकट आगया। उधर बन्दोबस्त देखता हूँ तो… (कुछ सोचकर) खैर, देखा जायगा (पुकार कर) कोई है ?

(एक सेवक आता है)

सेवक—महाराज की क्या आज्ञा है ?

रामसिंह—(कोध से) कामदार साहूब कहों हैं, बदनसीब !

सेवक—(हाथ जोड़कर) सरकार ड्योडियों पर हाजिर हैं।

रामसिंह—तो उन्हें यहाँ ले आ। खड़ा-खड़ा क्या मुझे खाएगा?

सेवक—जो आशा! (जाता है)

रामसिंह—(चारु से) राजकुमारी, तुम्हें जानना चाहिये कि तुम आज भारतेश्वरी बनने जा रही हो। तुम्हारे भाग्य पर बड़ी-बड़ी राजकुमारियों को डाह होगा। (कुछ बक कर) हाँ, मैं तुम्हे……

कामदारी—(क्रोध से) चुप रहो भाई……

रामसिंह—(नर्मी से) समझ गया। रूपनगर के राजा को डॉटने-डपटने का अब तुम्हें अधिकार हो गया है, तुम ठहरी सप्राणी, बड़े-बड़े महाराजाओं को डॉट सकती हो। (हंसकर) मगर देखना, बादशाह को मुझी में रखना, मुझी में! (कामदार आता है)

कामदार—सेवक को क्या हुक्म है?

रामसिंह—सेवक को क्या हुक्म है, तो अभी तुम हुक्म ही की बाट देख रहे हो। अजी, किले पर रोशनी का बन्दो-बस्त हुआ।

कामदार—हो गया हुजूर!

रामसिंह—और बदशाह सलामत की सलामी का।

कामदार—सब ढीक-ठाक है।

रामसिंह—मैंने कहा था न, ज्योंही शाही सवारी की गर्द नज़र आए……

कामदार—‘किले’ से दनादन सलामी की तोषे इतना दी जायें।

रामसिंह—बिल्कुल ठीक ! परन्तु अभी तक सलामी नहीं दायी जा रही, क्या बात है ?

कामदार—महाराज, बादशाह की सवारी का पता ही नहीं है ।

रामसिंह—( डपढ़ कर ) क्यों पता नहीं है यही हम पूछते हैं—

व्याह का सुहृत्त तो……(चाह और सखियों की ओर देखकर ) ठीक है, इधर तो सब मामला टंच है और उधर तुम कहते हो रोशनी का—सलामी का सब बन्दोबस्तु दुरुस्त है ।

कामदार—जी हाँ महाराज !

रामसिंह—अब जाकर आँखों से देखूँ । तो समझूँ (जाता है)

निर्मल—बला टली ।

चारूमती—कहाँ, अभी बला सिर पर मंडरा रही है ।

निर्मल—लो किले पर रोशनी हो रही है । ड्योडियों पर शहनाई बज रही है । राग रंग रच रहे हैं, परन्तु सुनो, यह क्या ? ड्योडियों पर कुछ हो रहा है । सुनो, सुनो !

(एक धमाका होता है राजमिह और उनके दो साथी तलवारे सूते महल में दाखिल होते हैं । सब स्त्रियों हड्डबड़ाकर खड़ी हो जाती हैं, चारूमती हर्ष से जड़ हो जाती है ।)

निर्मल—क्या मैं समझूँ कि रूपनगर का यह महल श्री महाराणा के चरणों से पवित्र हुआ ।

राजसिंह—हाँ, मैं राजसिंह हूँ (इधर उधर देख कर) परन्तु क्या मैं भूल से इधर उधर आ निकला हूँ ।

**निर्मल—**( प्रणाम करके ) नहीं महाराज, भाँग्य से ही आप इधर आए हैं ।

**राजसिंह—**किले पर रोशनी हो रही है । महल में संगल गीत गये जा रहे हैं । रामकुमारी का शृंगार हो रहा है । यह सब क्या है ।

**निर्मल—**( मुस्कुरा कर ) आज रूपनगर की राजकन्या का व्याह है—महाराज, आगे आइये ।

**राजसिंह—**( आगे बढ़कर ) किसके साथ ।

**निर्मल—**जिसके तेज और प्रताप से सोई हुई राजपूत शक्ति जीवित हो रही है । जिसकी तलबार की धमक से दिल्लीपति भयभीत रहता है । जो भारत के सब राज-राजेश्वरों का शरण स्थल है उसी मेवाड़पति महाराणा राजसिंह के साथ । ( आगे बढ़कर ) समय और अवसर देखकर ही सब कार्य होते हैं महाराज, आज ऐसा ही अवसर है । हाथ दीजिए ।

**राजसिंह—**क्या कुमारी की भी यही इच्छा है ?

**निर्मल—**वह श्रीमानों पर प्रकट है ।

**राजसिंह—**मैं उसे कुमारी ही के मुख से सुना चाहता हूँ ।

**निर्मल—**महाराज, कुलबती ललनायें मुंह से ऐसे विषयों में कैसे कहें ।

राजसिंह—फिर भी यह प्रसंग ऐसा ही है। परन्तु अभी यह विषय रहे। कुमारी की इच्छा बादशाह की बेगम बनने की नहीं है।

निर्मल—नहीं।

राजसिंह—कुमारी के मुँह से सुनना चाहता हूँ।

निर्मल—कहो सखी, यह लाज का समय नहीं।

चाहुमती—( लजा कर ) नहीं, मैं आपकी शरण हूँ।

राजसिंह—( तलवार ऊँची करके ) शरणागत को अभय। चलो कुमारी, मेवाड़ तुम्हारे लिये श्राण देगा।

निर्मल—यों नहीं महाराज, राजपूत बालाएँ क्या इस तरह पिता का घर त्यागती हैं?

राजसिंह—तब ?

निर्मल—वीरवर, आपके खड़ग में बल है तो आप रूपनगर की राजकन्या का हरण कीजिए।

राजसिंह—( संकोच से ) रूपनगर की कुमारी ने सिर्फ संकट में पड़ कर मेरी शरण चाही है, राजधर्म समझ मैंने शरण दी है। हरण और वरण अलग बात है।

निर्मल—महाराज, आप यह क्या कहते हैं, राजकन्या तनमन से आपको वर नुकी है।

राजसिंह—निरुपाय हो कर।

चारुमती—( रोती हुई ) तू क्यों उन से बकवांद करती है, ( हाथ जोड़ कर ) महाराज, मुझ अल्पमति को ज़मा करें ।  
आप वापस मेवाड़ लौट जायँ ।

राजसिंह—और तुम ? तुम मेरी शरणागत हो ।

चारुमती—आप से अधिक समर्थ रक्षक मुझे मिल गया है  
महाराज !

राजसिंह—अधिक समर्थ रक्षक ? वह क्या ?

चारुमती—विष, एक नगण्य बालिका के लिये वीरवर किसी संकट में पड़े, यह मैं नहीं चाहती ।

राजसिंह—फिर हमें बुलाया क्यों था ?

चारुमती—कह तो चुकी, वह नादानी थी ।

राजसिंह—अब यह नहीं हो सकता, तुम्हें मेवाड़ चलना होगा ।  
उसके बाद तुम्हारी इच्छा होगी………

चारुमती—मैं यहीं आण त्यागूँगी ।

निर्मल—महाराज, क्या कुलवती स्थियाँ पति के अलावा और किसी के साथ पिता गृह त्यागती हैं ?

चारुमती—( प्रणाम करके ) यह तुच्छ राजकन्या शायद महामहिम राणा के रणवास के योग्य नहीं ।

निर्मल—महाराज, यह समय बातचीत में खोने का नहीं है ।  
( आगे बढ़कर राणा के दुपट्टे से चारुमती की चूनरी की गोँठ बॉध देती है । स्थियाँ ग़ज़ने लगती हैं । )

राणा—(ललकार कर) यह मेवाड़ का राणा राजसिंह रूपनगर की कन्या चारुमती को हरण करता है, जिसे रोकना हो रोक ले (कुमारी से) चलो राजकुमारी !

चारुमती—(निर्मला से लिपट कर) सखी, खी होना ही काफी दुर्भाग्य है। फिर उस पर राजपूत कन्या। (रोती है)

निर्मल—(रोती हुई) जाओ सखी, मैं शीघ्र मिलूँगी। (हँस कर) मैं कहती थी न, सुहाग का सिंगार।

(तलवार लिये रामसिंह और कई साथी आते हैं)

रामसिंह—मार दो—पकड़ लो (आगे बढ़कर) कौन हो तुम, चोर।  
पकड़ो इन्हें।

राजसिंह—मैं उदयपुर का राणा राजसिंह हूँ, तुम कौन हो।

रामसिंह—(अकचका कर) तुम……आप—राजा राजसिंह—  
तुम……आप यहाँ कैसे ?

राजसिंह—तुम कौन हो ?

रामसिंह—ऐ ! मैं—हाँ, मैं रामसिंह—नहीं, रूपनगर का राजा हूँ। हाँ, आप मेरे महल में कैसे घुस आए ?

राजसिंह—(हँसकर) तुम्हारी बहन को हरण करने। (तलवार तूत कर) बार करो पहले।

रामसिंह—(सिणाहियों से) मारो—सब मारो (सब राणा पर ढूँढ़ते हैं)

दलपत्तसिंह—(आगे बढ़ कर) अननदाता अलग रहें, इन अभागों को मैं अभी ठीक किये देता हूँ। युद्ध करता है।

( विक्रमसिंह साथियों सहित आता है )

**विक्रमसिंह**—(तलवार ऊँची करके)जय, महाराणा राजसिंह की जय। महाराज, यही राजपूत कुलाङ्गीर रामसिंह है, जिसने बादशाह को राजकन्या व्याहने को बुलाया है।

**रामसिंह**—( क्रोध से ) तुम्हीं इस सब षड्यन्त्र की जड़ हो, तो लो। ( तलवार का बार करता है )

**विक्रमसिंह**—ले मूर्ख, करनी का फल चख। ( पैंतरा बदल कर बार करता है ) रामसिंह का सिर कट कर दूर जा पड़ता है)

**राजसिंह**—( हाथ ऊँचा करके ) बस युद्ध बन्द करो। ( सब हाथ रोक लेते हैं ) आपने सम्बन्धी को मार दिया।

**विक्रमसिंह**—वह इसी योग्य था महाराज, अपनी करनी को पहुँचा। आइए अब आप, इस समय जैसा अवसर है उसी के अनुरूप मैं आपको कन्या दान दूँ।

( दोनों का हाथ मिलाकर आशीर्वाद देता है, राजपरिवार की स्त्रियों आती हैं )

**चारहमती**—( माता को देखकर लिपटकर ) माता इस कृतम् पुत्री को ज्ञाना करना।

**राजमाता**—बेटी, तेरा सौभाग्य अचल रहे। ( राजसिंह से ) महाराज, राजपूत कन्या का आपने उद्धार कर अपने योग्य ही कार्य किया है। हमसे छुछ भेट भलाई तो बन नहीं पड़ी तथापि यह प्रेमचिन्ह प्रहण करें। ( बहुमूल्य मोतियों की माला गले में डालती है )

**राजसिंह**—अब सर देख कर ही सब कुछ होता है, अतः अभी तो हम तुरन्त ही जाते हैं। ( विक्रमसिंह से ) आपको हम रूपनगर का महाराज स्वीकार करते हैं। ( अपनी जड़ाऊ तलवार उनकी कमर में बौखते हैं )  
 ( सब, जय महाराज की जय मेवाङ्गपति की जय चिन्हाते हैं, पर्दा गिरता है )

## तीसरा दृश्य

(स्थान—रूपनगर और दिल्ली का तिराहा। शाही सेना की छावनी पड़ी है। युद्ध की तबाही के चिन्ह इधर उधर दिखाई पड़ते हैं। बादशाह अपने खोमे में दिलेर खाँ से बाते करते हैं। समय—रात्रि। )  
बादशाह—क्या कहा, मेवाड़ की फौज ?

दिलेर खाँ—जी हाँ, जहाँ पनाह ! यह राना की फौज थी।

बादशाह—मगर हम मेवाड़ पर तो चढ़ाई नहीं कर रहे थे।

दिलेर खाँ—मैंने कहा था हुजूर, फौज के सरदार ने लापरवाही से जवाब दिया, हमें काटकर जहाँ जाना हो चले जाओ।

बादशाह—कौन था वह बदनसीब।

दिलेर खाँ—वह एक कम उम्र नौजवान था। अभी रेखें भीगी थीं, उसकी आँखों में आग, बोली में तुकान, तलवार में क्रयामत और झपट में बिजली थी। वह बहशत का पुतला बना था। उसके गले में एक औरत का कटा हुआ सिर लटक रहा था।

बादशाह—औरत का सिर ?

दिलेर खाँ—जी हाँ, हुजूर ! वह मरने के इरादे से आया था, शाही फौज में वह जिघर गया, काई-सी चीरता चला

गया । वह तिल-तिल कट कर गिरा । वहाँ वह शाही बन्दों की लाशों के ढेर पर हमेशा के लिये सोया पड़ा है । उसकी तलवार ढूट गई है । मगर उसकी मूँठ उसकी मुहुरी में अब भी कस कर जकड़ी हुई है ।

**बादशाह**—रूपनगर अब यहाँ से कितनी दूर है ?

**दिलेर खाँ**—हुजूर, तीन दिन की मंजिल और है ।

**बादशाह**—मगर शादी की साइत तो कल है ।

**दिलेर खाँ**—कल तक वहाँ पहुंचना नामुमकिन है । फौज थकी हुई, सुस्त और बर्बाद है । उसको तरतीब नहीं दी जा सकती । फिर, दुश्मन हालांकि पायमाल हो चुके हैं—फिर भी उनका खतरा बना हुआ है ।

**बादशाह**—जो कुछ भी हो—मगर इस मूँजी जगह से फौरन लश्कर कूँच करना चाहिए और रूपनगर हमारे पहुंचने की स्थबर भिजवा देना चाहिए ।

**दिलेर खाँ**—जो हृक्ष्म ! मगर मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है ।

**बादशाह**—यानी ।

**दिलेर खाँ**—मेवाड़ की फौज का शाही सवारी को रास्ते में अटकाना किसी स्वास भक्षण से ही हो सकता है ।

**बादशाह**—तुम क्या कहना चाहते हो ?

दिलेर खाँ—यही, कि रूपनगर के राजा ने दृगा की है। उसने इधर हमें बुलाया है—उधर राना को हमारी घात में लगा दिया।

बादशाह—(गुस्से से बचैन होकर) अगर ऐसा हुआ तो मैं रूपनगर और उदयपुर दोनों ही को खत्म कर दूँगा।

दिलेर खाँ—बहतर, तो अब जहाँ पनाह आराम करें।

बादशाह—सुबह ही लश्कर का कूँच होगा।

दिलेर खाँ—जो हुक्म।

(जाता है।)

## चौथा दृश्य

(स्थान—उदयपुर। महाराणा और उनके दो-चार खास-खास सरदार  
राजमहल के एक पार्श्व में खड़े हैं।)

एक सरदार—अन्नदाता को रूपनगर से सकुशल लौट आने की  
वधाई।

राणा—परन्तु सरदारो, जब तक मैं रावत रत्नसिंह के समाचार  
न जान लूँ—मेरा उद्घोग शान्त नहीं हो सकता।  
अभी तक युद्ध के कुछ भी समाचार नहीं मिले।  
(चौंक कर) वह कौन आ रहा है।  
(एक योद्धा लोहू-लुहान आता है)

योद्धा—(राणा के आगे धुटनों के बल गिरकर) अन्नदाता की जय  
हो—मैं युद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ।

राणा—कहो चीर, युद्धक्षेत्र के समाचार कहो?

योद्धा—महाराज, वहाँ ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि रक्त की  
नदियाँ वह गईं। जैसे वर्षा छृतु में बादल उमड़-  
उमड़ कर, गर्ज-गर्ज कर चौधारी वर्षा करते हैं उसी  
भाँति राजपूतों ने शत्रुओं को चारों ओर से काट डाला।

राणा—तो युद्ध में हमारी जय हुई?

योद्धा—अन्नदाता—अब इसमें क्या कहना है। श्रीमान् सकुशल  
कुमारी को हरण कर लौट आए। पापिष्ठ आलमगीर

को वह मुँह की खानी पड़ी कि जिसे वह चिरकाल  
तक याद रखेगा ।

राणा—क्या विजयी बीर रत्नसिंह पीछे आ रहा है ।

योद्धा—हाँ महाराज, विजयी बीर, राजपूत धर्म का पालन कर  
ऐसी आनंदान से आ रहा है जैसी आनंदान से आज  
तक कोई योद्धा मेवाड़ में न आया होगा ।

राणा—तुम क्या कहना चाहते हो ।

योद्धा—घणी खम्मा अनन्दाता । वह बीर आ रहा है, वह बीर-  
शिरोमणि । तलवार का धनी ।

राणा—सर्दारो, विजयी बीर का स्वागत किया जाय । किले पर,  
महल में, नगर में, सर्वत्र रोशनी होनी चाहिए, मैं  
डंका और धोंसा, छत्र और चँवर उसे परंपरा के लिये  
प्रदान करता हूँ ।

योद्धा—डंका और धोंसा बजने दीजिए । महाराज, और सर्वत्र  
रोशनी होने दीजिए । जिससे सब कोई उसे देखे,  
उसके उस महान् उत्सर्ग को—उसके बलिदान को ।

राणा—ठाकुर ! तुम क्या कह रहे हो ?

योद्धा—(आँखों में आँसू भरके) अनन्दाता—सत्य ही कह रहा हूँ ।

राणा—तुम्हारी बातें संदिग्ध हैं । रावत रत्नसिंह जीवित है न ?

योद्धा—महाराज, वे जीवन को जय कर चुके ।

राणा—(ठण्डी सॉस लेकर) तो यों कहो बीरवर रत्नसिंह अब  
नहीं हैं ।

**योद्धा**—अन्नदाता की जय हो । रावत रत्नसिंह अमर हुए,  
उन्होंने शत्रु से ऐसा लोहा लिया कि जिसका नाम ।  
महाराज हम उनके मृत शरीर को ले आए हैं ।

**राणा**—रत्नगर्भी वसुन्धरा का एक लाल अपने उठते हुए जीवन  
में ही समाप्त हो गया । धर्म और कर्त्तव्य की वेदी  
पर बलिदान होने का यह अद्भुत उदाहरण रहा ।  
(आँखों में आँख भरकर ) परन्तु इस वीर को मैं कुछ  
भी पुरस्कार न दे सका ।

**राठोर जोधासिंह**—महाराज, वीर का पुरस्कार तो उसकी यश-  
शिवनी मृत्यु ही है । जो ज्ञात्रिय अपनेकर्त्तव्य का पालन  
करता हुआ जीवन उत्सर्ग करे उसकी होड़ कौन कर  
सकता है । महाराज, यह शरीर नश्वर है और जीवन  
नगण्य । कर्त्तव्य और बलिदान ही उसके मूल्य की  
वृद्धि करता है । रावत रत्नसिंह का जीवन अमूल्य  
रहा—हम लोग उस पर डाह करते हैं महाराज !

**भाला सुलतानसिंह**—किसी कवि ने कहा है—

कृपण जतन धन रो करे, कायर जीव जतन ।  
सूर जतन उन रो करे, जिनरो खायो अन्न ॥

**राणा**—धन्य है वह शूर । ( योद्धा से ) कहो, उस वीरवर की  
वीर गाथा विस्तार से कहो ।

योद्धा—महाराज, कहाँ तक उस वीर गाथा को बयान करूँ ।

किसान जैसे दरोंत से खेत काटता है उसी प्रकार  
चूणावत वीर ने शत्रु सेना को काट डाला । उनका  
शरीर शत्रुओं की लोथों के ढेर में मिला ।

राणा—त्यागमूर्ति चूड़ाजी का घराना मेवाड़ में त्याग और तप  
का आदर्श कायम कर चुका है । कहो वीर कितने  
योद्धा युद्ध भूमि से बचे हैं ।

योद्धा—कुछ डँगलियों पर गिनने योग्य । परन्तु चिन्ता नहीं  
महाराज ! शरणगत की रक्षा हो गई और मेवाड़  
की लाज रह गई ।

राणा—वह देश और जाति धन्य है जहाँ हाड़ी रानी जैसी बालि-  
काएँ और रत्नसिंह जैसे वीर बालक जन्म लें । जिनके  
जीवनउत्सर्ग और आदर्श के नमूने हों । जाओ  
वीर, तुम आराम करो । मैं इस योद्धा का और उसकी  
विजियनी सेना का वह स्वागत करूँगा कि जिसका  
नाम । सर्दारों आओ वीर पूजा की तैयारी करें ।

सर्दार गण—चलिए अन्नदाता ! ( सब जाते हैं ) चारण विरद  
गाता है—

ये ह विरद रजपूत प्रथम मुख भूँठ न बोले ।  
यहै विरद रजपूत पद्म-त्रिय काछ न खोले ।

येह विरद रजपूत आथ बाँटे कर जोरें ।

येह विरद रजपूत एक लाखाँ बिच ओरें ।

जम राण पाये पाछा धरे देखि मतो अवधूतरो ।

करतार हाथ दीधी करद येह विरद रजपूतरो ।

( पद्म गिरता है )

## पाँचवाँ दृश्य

(स्थान—उदयपुर का राजमहल। कुवर बयसिंह की रानी कमल-कुमारी  
अपने शयन कक्ष में। समय—रात्रि। कोई नैपथ्य में  
गा रहा है। रानी ध्यान से सुन रही है। )

भिलमिलाती रात आई ।

साँझ की आभा सुनहरी छा रही थी दिव्य नभ में।

भानु तपकर अस्त होने जा रहा था श्रान्त पथ मे।

कालिमा को कोर जाप्रत जो हुई क्या बात आई ।

भिलमिलाती रात आई ।

ब्योम व्यापक में उजागर दिव्य तारे भर रहे हैं।

मालिनी के माल पर क्या हास्य सा ये कर रहे हैं।

ब्योति ने मानो तमिश्रा भेदने की घात पाई ।

भिलमिलाती रात आई ।

कौन पक्की चिर विरह का गीत गाता है कहाँ से ?

प्राण का क्रन्दन सुनाता कौन आता है कहाँ से ?

राग छलकाती हुई विश्रान्ति की तह रात आई ।

भिलमिलाती रात आई ।

रानी—(आकाश की ओर देखकर) अनन्त आकाश में ये उज्ज्वल  
नक्षत्र कैसे भले मालूम देते हैं। न जाने ये कितनी

दूर से इस अन्धकार में आलोक बखेर रहे हैं। और इस आलोक बखेरने की वह कथा कितनी पुरानी, कितनी प्रभावशाली है। कितने कवियों के कवित्वमय हृदयों ने इसे देखा है। कितनी चिरहिणी नारियों की आत्मा का व्याकुल भाव इन्होंने देखा है। यह मूक ज्योतिर्मण्डल जगत् में एक सौन्दर्य का विस्तार करता है। इनसे रात कितनी सुन्दर बन गई है। परन्तु यही क्या इनका अस्तित्व है! नहीं। अति दूर अपने ध्रुव पर ये सब महान् हैं। उसी महानता की प्रतीक्षा इनका यह भिलमिल प्रकाश है।

( कुमार जयसिंह आते हैं। )

जयसिंह—वाह, यह चुपचाप तुम्हारा रात्रि निरीक्षण हो रहा है। कमलकुमारी—हाँ स्वामी, आज अभी से आप अवकाश पा गए?

जयसिंह—हाँ प्रिये ! इन प्रणालों को तो तुमने अदूट नेह के तारों से बाँध रखा है, कहीं भी हों खिचकर यहीं चले आते हैं। अब राणा जी के लौट आने पर मुझे अवकाश भी मिल गया है। पर तुम क्या सोच रही हो प्रिये !

कमलकुमारी—कुछ नहीं। कोई गा रहा था कि यह भिल-मिलाती रात विश्राम का सन्देश लाई है, मैं सोच रही थी…… जाने दो—यह कुछ नहीं।

जयसिंह—कहो प्रिये, क्या सोच रही थीं?

कमलकुमारी—सोच रही थी—अन्धकार सदैव ही विश्राम का सन्देश लाता है। साथ ही विभीषिकाएँ भी। सब लोग ही रात के अन्धकार में विश्राम कर रहे हैं। यही जानकर चोरों को चोरी की घात मिलती है।

जयसिंह—इसमें तुम क्या सोच रही हो मिये ?

कमलकुमारी—यही तो स्वामी ! क्या जीवन में कभी कोई विश्राम भी कर पाता है ? हाँ जीवन के अन्त की बात तो दूसरी है।

जयसिंह—जीवन के अन्त की कैसे ?

कमलकुमारी—कैसे कहूँ। रत्नसिंह और सौभाग्यसुन्दरी का ही उदाहरण लो। अब वे कहीं न कहीं चिर विश्राम कर रहे होंगे। वे कठिन कर्तव्य तो पूरा कर चुके।

जयसिंह—कह नहीं सकता, पर अभी तो चलो हम विश्राम करें

कमलकुमारी—विना ही कर्तव्य पूरा किये ? जीवन के सिर पर कर्तव्य का भार लादे बीच मार्ग में विश्राम कैसा ?

जयसिंह—तो तुम शायद यह कह रही हो कि जीवन एक भारवाही मात्र है। बोझा ढोना ही हमारा जीवन है और बोझा ढोते-ढोते मर जाने पर हम कर्तव्य पूर्ण कर पाते हैं—अर्थात् मृत्यु ही हमारे लिये संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार है।

कमलकुमारी—आपने कभी सोचा है स्वामी ! क्यों लोग भरने

बालों पर डाह करते हैं। जीना क्या भाग्यशाली  
नहीं है ?

जयसिंह—कैसे कहूँ। मैं तो कहता हूँ, मैं जब तक जीवित हूँ तभी  
तक भाग्यशाली हूँ।

कमलकुमारी—आप ही तो कहते हैं। परन्तु………

जयसिंह—परन्तु क्या ? मेरा कथन क्या इतना नगण्य है रानी ?  
कमलकुमारी—नहीं स्वामी, यह शायद सम्भव ही नहीं कि पत्नी  
पति की किसी बात को नगण्य समझे। परन्तु मैं यह  
कह रही थी, आखिर जीवन है क्या ? खाना, पीना,  
सोना, हँसना, इन्द्रियों की तृप्ति करना और बाल्या-  
वस्था से बुढ़ापे तक अपने ही शरीर को सब प्रक्रियाओं  
का केन्द्र समझना ही जीवन है। यदि ऐसा है तो मुझे  
इसमें घोर सन्देह है कि जीवन ही सौभाग्य है।

जयसिंह—तब तुम्हारी राय में जीवन क्या है ?

कमलकुमारी—मेरी राय ? एक मूर्खा खी की राय क्या ? हाँ  
लोग कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, कुछ कहते हैं जीवन  
संग्राम है। कोई कहते हैं जीवन भोगवाद है।

जयसिंह—पर तुम क्या कहती हो रानी !

कमलकुमारी—मैं कहूँ ? जीवन शायद एक साधन है !

जयसिंह—साधन ? काहे का साधन ?

कमलकुमारी—संसार के प्रवाह को बनाये रखने का। सृष्टि की  
नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का। सृष्टि के

आदि से अब तक अथवा प्रलय तक एक ही क्रम और एक ही गति से कृमि, कीट, परंग, पशु-पक्षी, मनुष्य, देव, यज्ञ, किन्नर और राक्षसों के जीवन इसी भाँति पानी में बबूले की भाँति उदय हुए और अस्त हुए। इस महाकाल के महा प्राङ्गण में वे जीवन एक न्हण-भंगुर प्रमाणित हुए हैं जिनके नाम इतिहास के पृष्ठों पर अमर हैं। बड़े-बड़े महापुरुष, वीर-विजयी, चक्रवर्ती इसी कालचक्र पर नृत्य करते गये—विलीन होते गये—काल ने उन्हें जन्म दिया और उनका आस भी किया। इसी महाकाल ने प्राणों के इस व्यवसाय को अपना साधन बनाया हुआ है।

**जयसिंह**—कौन तुम्हारे भीतर इस प्रकार बोलता है प्रिये ! कौन हो तुम—देवी कि मानवी ? ये मनुष्य की कल्पना और विचार शक्ति से परे की बातें तुम सोचती रहती हो, इस नवीन आयु में, नवीन जीवन में क्या—तुम्हारी वय की खियाँ यही सोचा करती हैं ?

**कमलकुमारी**—(अनुसन्धान करके) पर मैं कहती हूँ। जीवन जो कभी भी अपना नहीं है, उसे अपनाना तो मूर्खता है, उसकी कोई परिधि नहीं है, सीमा भी नहीं है। शरीर के अवसान के साथ उसका कोई सम्बन्ध भी नहीं है। फिर उसी को केन्द्र मान कर समस्त संसार को उसी में केन्द्रित करना हास्यास्पद है स्त्रामी !

जयसिंह—कुछ भी समझ में नहीं आता । सुन्दर यह रात, शीतल  
मन्द-सुगन्ध समीर—तुम्हारा यह स्निग्ध हृदय और  
मेरा यह प्यासा मन । मेरी समझ में तो यही जीवन  
है । चलो प्रिये, विश्राम भवन में चल कर इसे सार्थक  
करें ।

कमलकुमारी—चलो रुवामी, जैसी-आपकी आहा ।

( दोनों जाते हैं पर्दा बदलता है )

## छटा दृश्य

( स्थान—उदयपुर । राणा का सभाभवन । कुछ चुने हुए सर्दार  
बैठे मन्त्रणा कर रहे हैं । )

राणा—सरदारो, हमें आग में कूदना होगा । हिन्दूधम और  
हिन्दू जाति को इस पतन से उभारने में हमारा  
सर्वस्व जाय तो जाय । बादशाह के और अन्याय ही  
बहुत थे—परन्तु यह जजिया तो सबसे बड़ गया,  
कोई “रतमन्द” आदमी इस अधमान जनक कर को  
देशसहम नहीं कर सकता ।

एक सर्दार—अननदाता, हिन्दुओं की लाज तो अब आप ही रख  
सकते हैं । सुना है, बादशाह ने हजारों आदमियों को  
हाथियों से कुचलवा दिया ।

राणा—मैंने बादशाह को पत्र लिखा है आप लोग भी मुनक्कर  
उस पर अपनी सम्मति दीजिए । क्योंकि आप लोग  
हमारे राज्य के रक्षक और हमारे हाथ पैर हैं ।  
( दीवान से ) दीवान जी, वह पत्र सब सर्दारों को सुना  
दिया जाए ।

दीवान—जो अझ भासाज, यही वह पत्र है—( पत्र निकाल कर  
पढ़ता है )—‘यद्यपि आपका शुभचिन्तक मैं आप से  
दूर हूँ तो भी आपकी आधीनता और राजभक्ति के

साथ आपकी प्रत्येक आङ्गा का पालन करने को उद्यत हूँ ।

पुरोहित गरीबदास—दुहाई महाराज की, अत्याचारी बादशाह की प्रत्येक आङ्गा कैसे हो सकती है ?

राणा—सुनिए आप ! यह तो शिष्टाचार है ।

दीवानजी—( पढ़ते हुए ) मैंने पहिले आपकी जो सेवाएँ की हैं उनको स्मरण करते हुए नीचे लिखी बातों पर आपका ध्यान दिलाता हूँ जिनमें आपकी और प्रजा की भलाई है । मैंने यह सुना है कि मुझ शुभचिन्तक के विरुद्ध कर्तवाही करने की जो तदबीर हो रही है उसमें आपका बहुत रूपया खर्च हो गया है और इस काम में खजाना खाली हो जाने के कारण उसकी पूर्ति के लिये आपने एक कर जजिया लगाने की आङ्गा दी है ।

सब दर्बारी—शिव शिव । धिक्कार है इस प्रवृत्ति को ।

राणा—आप लोग शान्ति से सुनिए ।

दीवान—( पढ़ते हुए ) आप जानते हैं कि आपके पूर्वज स्वर्गीय मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर शाह ने ५२ साल तक न्यायपूर्वक शासन कर प्रत्येक जाति को आराम और सुख पहुँचाया । चाहे वे ईसाई—मूसाई, दाऊदी, मुसलमान, ब्राह्मण और नास्तिक हों सब पर उनकी समान कृपा रही । इसी से लोगों ने उन्हें जगद् मुरु की पदबी दी थी ।

एक सर्दार—गुण ही जगत में पूजे जाते हैं।

दीवान—(पढ़ते हुए) फिर स्वर्गीय नूरहीन जहाँगीर ने भो  
२२ वर्ष तक प्रजा की रक्षा कर अपने आश्रित राजवर्ग  
को प्रसन्न रखा—इसी तरह सुप्रसिद्ध आला हजरत  
शाहजहाँ ने भी ३२ वर्ष तक देश और नेकी से राज्य  
कर यश पाया।

सब सर्दार—खूब लिखा।

दीवान—(पढ़ते हुए) 'आपके पूर्वजों के ये भलाई के काम थे।

इन उन्नत और उदार सिद्धान्तों पर चलते हुए वे  
जिधर पैर उठाते थे उधर विजय और सम्पत्ति उनका  
साथ देती थी। उन्होंने बहुत से देश और किले जीते।  
अब आपके समय में बहुत से प्रदेश आपकी आधीनता  
से निकल गये हैं और अब आपके अत्याचार होने से  
और भी बहुत से इलाके आपके हाथ से निकल जायेंगे।  
आपकी प्रजा पैरों के नीचे कुचली जा रही है और  
साम्राज्य में कंगाली बढ़ती जाती है। आबादी घट रही  
है, आपक्षियाँ बढ़ रही हैं। जब गरीबी बादशाह के घर  
तक पहुँच गई तो प्रजा की बात ही क्या है। सेना  
असंतुष्ट है, व्यापारी अरक्षित हैं। मुसलमान नाराज  
हैं, हिन्दू दुःखी हैं। बहुत से लोग भूखे और निराश्रित  
रात दिन सिर पीटते और रोते हैं।

सब सर्दार—धन्य धन्य ऐसा ही है महाराज! आलमगीर के

राज्य में तबाही ही तबाही है, किसी की जानमाल व इज़जत सखामत नहीं है।

**दीवान**—(पढ़ते हुए) ऐसी कंगाल प्रजा से जो बादशाह भारी कर लेने में शक्ति लगाता है उसका बड़पन कैसे स्थिर रह सकता है। पूर्व से पश्चिम तक यह कहा जा रहा है कि हिन्दुस्तान का बादशाह हिन्दुओं के धार्मिक पुरुषों से द्वेष रखने के नारण ब्राह्मण से लेकर जोगी, वैरागी और मन्यासियों तक से जजिया लेना चाहता है। वह अपने तैमूर बंश की प्रतिष्ठा का विचार न कर एकान्तवासी और गरीब साधुओं पर जोर दिखाना चाहता है। वे धार्मिक ग्रन्थ जिन पर आपका विश्वास है आपको यही बतलायेंगे कि परमात्मा मनुष्य मात्र का ईश्वर है न केवल मुसलमानों का। उसकी दृष्टि में मूर्तिपूजक और मुसलमान बराबर हैं। रंग का अन्तर उसकी आद्वा से ही है। वही सवको पैदा करने वाला है आपकी मस्जिदों में उसी का नाम लेकर लोग नमाज पढ़ते हैं और मन्दिरों में जहाँ मूर्ति के आगे घन्टे बजते हैं, उसी की प्रार्थना की जाती है। इसलिये किसी धर्म को उठा देना ईश्वर कीइच्छा का विरोध करना है।

**पुरोहित शरीबदास**—निश्चय ऐसा ही है।

दीवान—(पढ़ते हुए) ‘मतलब यह है कि आपने जो कर हिन्दुओं पर लगाया है वह न्याय और सुनीति के विरुद्ध है क्योंकि इससे देश दरिद्र हो जायगा। इसके सिवा यह हिन्दुस्तान के क़ानून के खिलाफ़ नई बात है। यदि आपको आपने ही धर्म के आश्रह ने इस पर उतारू किया है तो सब से पहले रामसिंह से जो हिन्दुओं का मुखिया है, जिस्या बस्तु करें। उसके बाद मुझ शुभचिन्तक से। चीटियों और मक्खियों को पीसना बीर और उदार चित्त आदमी के लिये अनुचित है। आश्चर्य है कि आपको यह सलाह देते हुए, आपके मन्त्रियों ने न्याय और प्रतिष्ठा का कुछ भी विचार नहीं किया।’

सब सदार—बहुत उत्तम ! बहुत उत्तम !

राणा—यह वह पत्र है जिसे मैं बादशाह को भेजना चाहता हूँ। अब आप लोग विचार कर बतावें कि हमें क्या करना चाहिए—क्योंकि यह पत्र बादशाह की क्रोधार्थि में घृत का कामदेगा।

सब सदार—महाराज, वह तो एक दिन हमें भेलना ही है, बादशाह भेवाड़ को नष्ट करने के लिए तुला बैठा ही है—फिर कल न सही आज ही सही। हमारी तलबारों ने मोर्चा नहीं खाया है। पत्र भेजा जाय।

राणा—तो सबकी यही राय है।

सब सदर्दा—सब की यही राय है।

राणा—तब यह पत्र ही रण निमन्त्रण की पूर्णांतरि हो।

. दीवानजी, पत्र दिल्ली व्यवस्था के साथ भेज दिया जाय। साथ में दो तलवार एक नंगी और दूसरी म्यान सहित।

दीवान—जो आज्ञा, दर्वार।

( पर्दा गिरता है )

## सातवाँ दृश्य

(स्थान—दिल्ली के शाही महल के भीतर का नजर बाग उदयपुरी वेगम अकेल ढहल रही है। समय—सार्वकाल।)

उदयपुरी वेगम—(स्थगत) वेत खाकर जैसे कुत्ता दुम दबाकर भागता है उसी तरह भाग आए। कहते हैं ये हैं शहनशाहे आलम, शहनशाही की सारी शान धूल में मिल गई। मैंने कहा था उस बांदी से चिलम भरवाऊँ गी मगर कहाँ? बादशाह की नाक को लातों से तोड़ने वाली वह मगरूर पाजी गँवारी काफिर लड़की शहनशाहे हिन्द को चरका देकर साफ निकल गई। सारी शहनशाही की शान धूल में मिल गई। (देखकर) वह बादशाह सलामत आ रहे हैं। (हंसकर) बन्दगी जहाँपनाह, फर्माइए वह बाँही कहाँ है? मुझे हुक्का भरवाने की बड़ी दिक्कत हो रही है।

बादशाह—इतमीनान रखो वेगम, बहुत जल्द वह बौदी तुम्हारे हुजूर में हाजिर कर दी जायगी। उसके बाद जी चाहे जितनी चिलम भरवाया करना।

उदयपुरी वेगम—वज्ञाह, जहाँपनाह तो इस तरह फर्मा रहे हैं गोया सब कुछ हुजूर की ताकत ही में है।

बादशाह—मैं आलमगीर हूँ और मेरी ताकत का अन्दाज़ा लगाना औरतों का काम नहीं।

उदयपुरी बेगम—बजा है, एक अद्दना औरत कैसे शहनशाहे आलम की ताक़त का अन्दाज़ा लगा सकती है। शाथद हुजूर की ताक़त का अन्दाज़ा न लगा सकने ही पर उस काफ़िर गंधारिन लड़की ने हुजूर की नाक लातों से तोड़ी थी।

बादशाह—(गुस्से से) जमीनों आसमान पर जहाँ वह होगी लाकर यहाँ हाजिर की जायगी और शहनशाह के साथ की गई गुस्ताखी की सजा पावेगी।

उदयपुरी बेगम—सच है, फिलहाल तो हुजूर शाथद मरलहत से उससे शादी न कर बीच रास्ते ही से लौट आए।

बादशाह—मुझसे दरार की गई।

उदयपुरी बेगम—उम्मीद न थी कि वह गंधारिन ऐसी चालाक निकलेगी कि बादशाह आलमगीर को भी चरका दे जायगी।

बादशाह—मगर आलमगीर के गुस्से को बढ़ाना आग से खेलना है।

उदयपुरी बेगम—( हँसकर ) सुना है इन राजपूत लड़कियों को आग से खेलने की खास कुदरत होती है। हाँ, तो क्या, यह सच है कि उल लड़की ने उदयपुर के रणा से शादी कर ली।

बादशाह—सुना तो है।

उदयपुरी बेगम—और उसी साइत में, जिसमें हुजूर उससे शादी करने वाले थे ।

बादशाह—उसी साइत में ।

उदयपुरी बेगम—जहाँपनाह लाघार लौट आए । क्या इसी बूते पर हुजूर हिन्द पर हुक्म बत करेंगे । भाइयों को कल्प करके और बाप को कैद करके जो तखत अपने गुबाही की दलदल में फँसकर हासिल किया है उसकी जड़ एक नाचीज गँवारी हिन्दू लड़की यों हिला डालेगी, मैंने यह नहीं सोचा था ।

बादशाह—आलमगीर बदला लेगा । तुम देख लेना वह सरकस बदबखत उदयपुर का राणा आलमगीर के क़दमों पर नाक रगड़ेगा । मैं मेवाड़ को जला कर खाक फर दूँगा—एक भी गाँव, एक भी घर, एक भी इन्सान जिन्दा न बचने पावेगा । मैं औरत, बच्चों और बूढ़ों पर भी रहम न करूँगा । तमाम राजपूताने की ईंट से ईंट बजा दूँगा ।

उदयपुरी बेगम—शायद आप वह कर सकेंगे । और वह मरण-रुर बाँदी ?

बादशाह—वह जरूर रंगभूत में आकर तुम्हारी चिलम भरेगी । ( तेजी से जाका है )

## आठवाँ दृश्य

स्थान—उदयपुर का जनाना महल। महाराणा राजसिंह और  
चारुमती। समय—प्रातःकाल।)

राणा—अब तुम्हारी क्या इच्छा है राजकुमारी ! बादशाह से तो  
तुम्हारी रक्षा हो गई ।

चारुमती—(लजाकर) महाराज, जिस क्षत्रिय कन्या को आपने  
हरण किया है, उसकी इच्छा क्या है ? जिस लिये  
क्षत्रिय वीर क्षत्रिय कन्या को हरण करते हैं—वही  
आपने किया ।

राणा—हमने अपनी इच्छा से तो तुम्हारा हरण किया नहीं।  
तुम्हारा पत्र पा शरणगत की रक्षा का कर्तव्य पालन  
किया है ।

चारुमती—महाराज, हरण की हुई कन्या की अन्यत्र गतिविधि  
कहाँ है ।

राणा—क्यों ? अब तुम रूपनगर जा सकती हो, विक्रमसिंह  
सच्चे क्षत्रिय हैं वे तुम्हें खुशी से रखेंगे । फिर जहाँ  
तुम्हारी इच्छा होगी या उन्हें उचित प्रतीत होगा  
तुम्हारा व्याह कर देंगे ।

चारुमती—(आदौ भरके) महाराज, विपक्षि ने मेरी लाज-शर्म तो  
धो द्वाहाइ । आपका धर्म जैसे आप समझते हैं, उसी

तरह अपना धर्म मैं भी समझती हूँ। मैंने जब अपने को आपके अपर्ण कर दिया और बड़ों ने आपकी गाँठ बाँध दी तो यह तनन्मन आपका हुआ और अब क्या कहूँ।

राणा—परन्तु कुमारी, वह सब बातें तो विवश होकर की गई थीं। बादशाह से बचने की दूसरी राह नहीं थी। मेरा द्वितीय धर्म और राजधर्म दोनों ही यह कहते हैं कि शरणागत से अनुचित लाभ न उठाया जाय।

चारुमती—तो महाराज क्या कहना चाहते हैं?

राणा—यही कि अब तुम रूपनगर जाओ और जैसा तुम्हारे गुरुजनों का आदेश हो वह करो।

चारुमती—जैसी आपकी आझा। आप मुझे रूपनगर भेजेंगे तो मैं वहीं चली जाऊँगी परन्तु वहां जाने पर दिल्ली के दैत्य से मैं बच न सकूँगी। रूपनगर की शक्ति मेरी रक्षा न कर सकेगी, मुझे फिर महाराज की शरण लेनी पड़ेगी। परन्तु अब मैं आपको व्यर्थ कष्ट न दूँगी, दिल्ली चली जाऊँगी।

राणा—दिल्ली क्या रंगमहल में जाओगी। ऐसा ही विचार था, तो पहिले ही क्यों नहीं गई थीं।

चारुमती—पहिले सोचा था कि……खैर जाने दीजिए।

राणा—कुमारी, यदि बादशाह की बेगम बनने का तुम्हारा इरादा हो गया है, तो मैं उसमें विच्छन न करूँगा।

चाहमती—राजपूत वाला के इरादे में विघ्न करने वाला वीर पृथ्वी पर कौन है। मैंने आपसे कहा था न कि मुझे और एक शक्तिशाली आसरा मिल गया है। इस बार मैं आपसे अधिक शक्तिशाली की शरण जाऊँगी।

राणा—यह शक्तिशाली कौन है?

चाहमती—यह विष। अन्त में राजपूत की बेटियों की यही तो गति होती है।

राणा—क्या अब विषपान करेगी कुमारी?

चाहमती—और उपाय क्या है? आशा है विष शरणागत को आपकी भाँति पीछे निराश्रय न करेगा।

राणा—मैं निराश्रय तो नहीं करता कुमारी?

चाहमती—तब फिर रूपनगर में मेरा रक्षक कौन है?

राणा—तो फिर तुम यहीं रहो।

चाहमती—मिहमान बनकर या दासी बनकर।

राणा—(हंसकर) कुमारी, तुमसे जीतना कठिन है। मैं तुम्हारी वाचालता देखता था। अच्छा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो—जो चाहती हो वहीं बनकर।

चाहमती—(राणा के चरण छूकर) महाराज, आज ही से नहीं, जिस दिन मैंने आपकी तस्वीर देखी उसी दिन से आपकी चरण-दासी बन गई थी। आप सोचते होंगे, मेरे लिए बादशाह से रार ठेनेगी। सो तो जो हीना था, ही तुका। महाराज का लेज प्रताप बहुत बड़ा है। उस सेनाकरा कर युद्धोंमें वर्ष वर्ष होगा।

राणा—मुगलों का मुझे कुछ भी भय नहीं है कुमारी ! तुम जैसी चतुर, रूप, गुणवती जिस राजा की भार्या हो—वह धन्य है। आओ, आज मैं मन बचव से तुम्हें अपनी राजमहिली बनाता हूँ।

चारुमती—( आँसू भरकर ) महाराज ! मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आप यदि मुझे ग्रहण न करेंगे तो मैं राजसमुद्र में छूब मरूँगी।

राणा—प्रिये ! अब सच्ची मेरे मन की बाते सुनो। तुमने केवल विपत्ति में फँसकर मेरी महिली बनना चाहा था इसी से हमने इतनी बातें कहीं। परं एक बात विचार कर हम यह उचित समझते हैं कि रूपनगर खबर भेजकर तुम्हारे गुरुजनों को बुलाकर उनके हाथ से तुम्हारा ग्रहण विधिवत् करें—यही हमारी इच्छा है। इसमें औचित्य भी है और धर्म भी।

चारुमती—आपका प्रस्ताव ठीक है। मैं भी उनका आशीर्वाद लेकर ही आपकी चरणदासी बना चाहती हूँ।

(पर्दा गिरता है)

## नवाँ दृश्य

( स्थान—उदयपुर का राजभवन । दुर्गादास और राणा राजसिंह परस्पर बातचीत कर रहे हैं । समय—साथकाल । )

दुर्गादास—महाराज ! अब हमें कुछ न कुछ कर डालना चाहिए । अदि हम युक्ति से काम न ले गे तो निकट भविष्य में जो हम पर भावी विपत्ति आरही है उससे हमारी रक्खा होना किसी भी भाँति सम्भव नहीं है ।

राणा दुर्गादास, आपकी बातें विचार के योग्य हैं और आपकी युक्ति भी महत्पूर्ण है । मैं स्वीकार करता हूँ कि हम अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर भी मुश्तल साम्राज्य को नहीं उलट सकते ।

दास—इसी से महाराज, मैंने यह जाल रचा है । साम, दाम, दण्ड, भेद यह तो राजनीति है । पहिले हमने शाहजादे मुअज्ज़ूम से यह प्रस्ताव किया था कि वह बादशाह के विरुद्ध बगावत का भरणा खड़ा करे और हिन्दु शक्तियों का सम्मान करे, तो राजपूतों की सम्मिलित शक्ति की सहायता से बादशाह बना दिया जायगा ।

राणा—फिर, क्या शाहजादा इस पर राजी हुआ ?

दुर्गादास—पहिले वह राजी हो गया था । राव केसरीसिंह चौहान और सैनिक ने उससे बातचीत की थी, परन्तु अजमेर

से शाहजादा मुअब्ज़म की माता बेगम नव्वाब बाई  
ने उसे मना कर दिया और उसने इन्कार कर दिया ।  
राणा—इसके बाद ?

दुर्गादास—हमने शाहजादा अकबर से बातें की हैं और उसे  
समझा दिया है कि औरंगज़ेब हिन्दु विरोधी आन्दो-  
लन खड़ा करके मुगल साम्राज्य की कब्र खोद रहा है ।  
तुम अगर बादशाह बनकर न्याय से शासन करो तो  
हम तुम्हारे साथ हैं । इस पर उसने विचार करने का  
समय माँगा है । महाराज ! कुल्हाड़ी से काट कराने  
के लिए लकड़ी का बैट चाहिये । हम हिन्दुओं का  
नाश भी मुगल शक्ति ने हिन्दुओं ही की सहायता से  
किया है । इसमें हमें भी मुरालों की शक्ति पर अपना  
प्रभुत्व कायम करने के लिये अकबर को अपना लेना  
चाहिये ।

राणा—करो दुर्गादास ! अगर आप इस काम में सफलता प्राप्त  
कर सकें तो मैं विरोध नहीं करूँगा । परन्तु मुझे तो  
एक ही बात का पछतावा है ।

दुर्गादास—वह क्या महाराज !

राणा—यही, कि हमने दारा का पक्ष न लेकर भारी भूल की ।  
यदि महाराजा जसवन्तसिंह और मैं अजमेर की  
लड़ाई में दारा को सहायता देते तो भारत का भाग्य  
इस सनकी मुल्ला के हाथ में न जाता । पर अब जो

होना था वह हुआ । हमें भटपट अपनी शक्तियों का संचय कर डालना चाहिए । क्योंकि ओँधी और तृष्णा की भाँति बादशाह की सेना मेवाड़ को विष्वस करने को आने में अब विलम्ब नहीं है । हमारी शक्तियाँ सीमित हैं और हमें बहुत ही कम समय है ।

**दुर्गादास—**अननदाता का अभिप्राय पाऊँ तो मैं स्वयं अकवर से इस सम्बन्ध में बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ ।

**रणा—**अवश्य कीजिये । परन्तु केवल इसी पर निर्भय न रहिये । दृढ़ हाथों से राठौर सैन्य का संगठन कर डालिये । हमारी असली युक्ति और राजनीति तो हमारी तलवार है । समझे !

**दुर्गादास—**समझ गया महाराज ! ऐसा ही होगा ।

( जाता है )

## दसवाँ दृश्य

(स्थान—दिल्ली का दीवाने खास। बादशाह औरंगजेब और वजीर असदुल्ला एकान्त में बाते कर रहे हैं। समय—रात्रि)

बादशाह—तो उस नाचीज़ ने बादशाह आलमगीर को नसीहत करने की जुर्त की है और तत्कार भेजकर चुनौती भी दी है।

वजीर—हुजूर खत में तो ऐसा ही लिखा है।

बादशाह—और आप कहते हैं कि जो लड़का जसवन्तसिंह का बेटा कहकर हमारे सुपुर्दे किया गया था, वह जाली था, जसवन्तसिंह का असल बेटा रानी के पास है।

वजीर—जी हाँ हुजूर ऐसा ही है।

बादशाह—मगर यह बात यकीन कैसे की जा सकती है।

वजीर—पहिले मुझे भी यकीन न हुआ था। मगर जब सुना कि राना ने उसकी परवरिश के लिए भारी जागीर दी है तो यकीन करना पड़ा।

बादशाह—और आप कहते हैं कि राना को बार-बार लिखने पर भी उसने उस लड़के को वापिस देने में टाल-टूल की है।

वजीर—जी हाँ हुजूर।

बादशाह—अकेला रूपनगर का मामला ही उस पर फौजदारी करने के लिये काफ़ी था। इसके पे श्तर भी उसके

खिलाफ बहुत सी बातें सुनी गई हैं। अब अगर राजपूतों की इस दबंगता को न कुचला गया तो शाही तख्त का अमनो-आमान खतरे में पड़ जायगा। मारवाड़ और मेवाड़ की ताकतें मिलकर एक भारी किसाद बर्पा करेंगी। उधर दक्षिण में मराठी चूहा उछल कूद मचा रहा है। इसलिये अब वक्त आगया है कि फौज-कशी की जाय। बस, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द फौज की तैयारी कर ली जाय।

**बज्जीर—**हुच्चूर, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। वक्त बहुत नाजुक है चारों तरफ दुरमनों का ज्ओर है, ऐसी हालत में जहाँपनाह का दारुल सल्तनत का छोड़ना खतरे से खाली नहीं।

**बादशाह—**आलमगीर हमेशा खतरे से खेल करने का आदी है। आप कभी अकबर को फरमान भेज दीजिये कि वह अपनी तमाम फौज लेकर अजमेर की ओर कूच करे और जल्द से जल्द हमारे वहाँ पहुँचने की उम्मीद रखे और आप आज से तीसरे दिन हमारे कूंच की तैयारी कर दें।

**बज्जीर—**जो हुक्म। (जाता है)

## पौच्छाँ अङ्क

पहिला हृश्य

(स्थान—उदयपुर। महाराणा की राजसभा। ऊद की मन्त्रणा हो रही है, समस्त सरदार हाजिर हैं। बीच में महाराणा राजसिंह विराजमान है। )

राणा—आप सर्दार गण आज एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने एकत्र हुए हैं। उसी समस्या पर मेवाड़ के जीवन, मरण और प्रतिष्ठा का प्रश्न अवलम्बित है। कुँवर जयसिंह—मेवाड़ अपनी प्रतिष्ठा की प्राण देकर रक्षा करेगा।

कुँवर भीमसिंह—और उसके प्राण महँगे दामों बिकेंगे।

राणा—(मुस्कुराकर) शान्त होओ कुँवर। अभी सब बाते सुन लो। आप लोग जानते हैं कि मुगल शक्ति ने राजपूत घरने की वीरता के लोहा लगा दिया है। सभी राजपूत घरने अपनी आन भूल कर केवल शाही नौकरी बजाना ही नहीं प्रत्युत शाही हरम में अपनी पुत्रियों को बेगम बनाना भी अपने लिये शोभा की बात समझे बैठे हैं।

शबल जसराज—पर यह उनके लिये झूब मरने की बात है।

राणा—अकेला मेवाड़ ही ऐसा बचा है जिसने न तो बादशाह को बेटी दी और न स्वाधीनता ।

राणावत भावसिंह—जब तक मेवाड़ में एक भी सीसोदिया है वह ऐसा कभी न करेगा ।

राणा—यह बात मुगल बादशाहों को हमेशा स्टकती रही है और समय-समय पर उन्होंने मेवाड़ को दलित करने में अपनी पूरी शक्तियों को आज्ञाया है । मेवाड़ की चौआ-चौआ जमीन वीरों के रक्त से रंगी पड़ी है और मेवाड़ को कभी सुख की नींद सोना नसीब नहीं हुआ । मेवाड़ की न जाने कितनी कुलाङ्गनाएँ अपने उठते अरमान हृदय में लिये जलकर राख हो चुकी हैं ।

( आँखू भर आते हैं )

महाराज मनोहरसिंह—( आवेश में ) आज भी मेवाड़ में उत्सर्ग और वीरता के भाव जीवित हैं और आवश्यकता पड़ने पर मेवाड़ वैसा ही जौहर दिखावेगा जैसा उसके पूर्वजों ने दिखाया है ।

राणा—मेवाड़ पर शाही नाराजी के ये पुराने कारण तो हैं ही अब और नये कारण भी पैदा हुए हैं ।

महाराज दलसिंह—नये कारण कौन-कौन हैं, हम सुना चाहते हैं ।

राणा—( मुस्कुराकर ) सुनिए, इसीलिये आप लोगों को इकट्ठा किया गया है । हमने शाही आङ्ग की बिना परवा

किये अपने वे खोये हुए परगने दखल कर लिये जिन्हें  
बादशाह शोहजहाँ ने जब्त कर लिया था ।

महाराज अरिसिंह—वे परगने हमारे थे । बादशाह ने अन्याय  
से उन्हें जब्त किया था ।

राणा—प्रसिद्ध है कि आलमगीर देवमन्दिर ढहाने में अपने  
सब पूर्ववर्ती बादशाहों से बाजी ले गया है । वह बाद-  
शाह पीछे है पहिले कट्टर धर्मान्ध मुल्ला है । जब वह  
गुजरात का सूबेदार था तब उसने अहमदाबाद का  
चिन्तामणि का मन्दिर गिरवाकर उसके स्थान पर  
मस्जिद बनवाई थी, और भी गुजरात के कई मन्दिर  
ढहावा दिये थे । अभी कुछ दिन प्रथम उसने राज्यभर  
के सब पुराने मन्दिरों को तोड़ डालने और पाठ-  
शालाओं को बन्द कर देने का हुक्म दिया है और  
धर्म सम्बन्धी पठन पाठन रोक दिया है । काठियावाड़  
के सोमनाथ, काशी के विश्वनाथ, मथुरा के केशवराथ  
के प्रसिद्ध मन्दिरों को विघ्वंस करके वहाँ मस्जिद  
बनवा दी है । उसने राज्यभर के मन्दिरों और धर्म  
स्थानों को नष्ट करने को एक महकमा क्रायम किया है  
और अब तक हजारों मन्दिर विघ्वंस कर चुका है ।  
जब उसने गोवर्धन के बल्लभ सम्प्रदाय के द्वारिकावीश  
के मन्दिर पर शनिहष्टि की तो गोस्वामियों ने मेवाड़  
की शरण ली और कांकरोली में उसकी स्थापना की

गई। इसी भाँति गोवर्धन स्थित श्रीनाथ की मूर्ति को जब लेकर गोस्वामी बूँदी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़, जोधपुर गये पर किसी ने आश्रय नहीं दिया। अन्त में गोसाई को मैंने वचन दिया कि मूर्ति को मेवाड़ में ले आओ। मेरे १ लाख सीसोदियों का सिर काटने पर ही औरंगज़ेब उसे विघ्वंस कर सकता है। और वह सीहौड़ में स्थापित कर दी गई है।

**भाला चन्द्रसेन**—जय हिन्दुपति हिन्दुसूर्य महाराणा की। महाराज का यह कार्य मेवाड़ की प्रतिष्ठा के योग्य ही हुआ है।

**राणा**—फिर हमने धर्म संकट में पड़ कर बादशाह की मंगेतर रूपनगर की राजकुमारी चारुमती का हरण करके उसे ताराज कर दिया, क्योंकि राजपूत बाला ने शरण चाही थी।

**शबत केमरीसिंह**—यह तो ज्ञात्रियोचित कार्य ही हुआ है।

**राणा**—परन्तु सब से अधिक नाराजी तो बादशाह के मन में मेरे उस खत से हुई है जो मैंने जजिया के विरुद्ध उसे लिखा है और उसे चुनोती दी है कि पहिले वह मुझ से बह कर ले। यह अपमान जनक कर बादशाह अकबर ने बन्द कर दिया था। १०० वर्ष पीछे अब औरंगज़ेब ने इसे जारी कर सख्ती के साथ बसूल किया है, जो न्याय और नीति के विरुद्ध है। राज-

पूताने में कौन था जो हिन्दुओं के इस अपमान से उन्हें बचाने की आवाज उठाता। लाचार मुझे ही मुँह खोलना पड़ा।

रावत रत्नसेन—घण्टीखम्मा अननदाता, यह काम आप ही के योग्य था।

राणा—सर्दारी, बादशाह को नाराज करने के लिये यही कारण काफी थे—पर मैं एक और भारी अपराध कर बैठा। मारवाड़ पति वीर महाराज जसवंतसिंह को जमर्द के थाने में बादशाह ने मरवा डाला। जब उनकी विधवा रानी और कुँवर जोधपुर लौट रहे थे, बादशाह ने जोधपुर को खालसा कर लिया और रानी तथा कुँवर को दिल्ली आने का हुक्म दिया। बादशाह की नियत खराब देख रानी कुँवर को लेकर वहाँ से भाग निकली और मेवाड़ की शरण ली। कुर्गांदास राठौर ने मुझे सब हकीकत कही। मुझे मारवाड़ के भावी राजा को आश्रय देना पड़ा। फिर बादशाह के बारम्बार लिखने पर भी मैंने उन्हें न दिया।

राव केसरीसिंह—हम मर मिटेंगे पर शरणागत की रक्षा करेंगे।

राणा—सर्दारी, हमारे इन्हीं सब अपराधों का दण्ड देने और हमसे जजिया वसूल करने प्रतीपी आलमगीर भारी सेना लेकर हम पर चढ़ आया है और अजमेर में छावनी डाली है। तथा एक बड़ी सेना के साथ

शाहजादा अकबर को इधर रवाना किया है। इस लिये अब फटपट हमें अपने कर्तव्य को सोच लेना चाहिये। सब सर्दार—कर्तव्य हमने सोच लिया है। हम युद्ध करेंगे और बादशाह के दांत खट्टे करेंगे।

**पुरोहित गरीबदास**—आज्ञा पाऊँ तो निवेदन करूँ। बादशाह के पास सेना बहुत है, और साथ में फिरंगियों का तोपग्नाना भी है। इसलिये बराबरी का युद्ध करना ठीक नहीं है। महारण प्रनापमिहि और उद्यर्सिहि ने भी ऐसा ही किया था। वे आक्रमण के समय नगर छोड़ पहाड़ों में चले गये थे। अब सर पाते ही मुगलों पर छापा मारते और शत्रुओं के दांत खट्टे करते थे। इसी से बादशाह को परास्त होना पड़ा था। महारण अमरसिहि ने भी यही नीति ग्रहण की थी। इसलिये आप भी यही नीति ग्रहण करें और दुर्गम अरावली की सहायता से शत्रु पर विजय प्राप्त करे।

**रणा**—राजपुरोहित का विचार बहुत उत्तम है। हमें विश्वाम है कि हम शत्रु को पहाड़ी घाटियों में घेर कर भूखों मार डालेंगे। उधर हम शाही मुलक को भी लूट कर वर्दाद करेंगे।

**झाला जसवन्तसिहि**—अन्तिमता का विचार अति उत्तम है।

**रणा**—इस समय हमारे पास २० हजार गवार और २५ हजार पैदल हैं। इसके सिवा ५० हजार भील

हमारे साथ हैं। उनके अलावा पानवाड़ा-मेरपुर, जूड़ा और जबास के भोपिये सरदार पालों के मुखिया हमारे मददगार हैं। मेरी योजना है कि ५० हजार भील वीर मेवाड़ के सभस्त पहाड़ी नाकों और घाटों में दस-दस हजार की टुकड़ी में छिपकर बैठें और ज्यों ही दुश्मन की रसद, बारदाना व खजाना जाते देखें, लूट कर हमारे पास पहुँचा दें। उदयपुर और सब बस्तियों की प्रजा नगर खाली करके पहाड़ों में चली जाय। हमारी कुल कोजों के तीन हिस्से होंगे। एक भाग कुँवर जयसिंह की अधीनता में पहाड़ की चोटी पर स्थित रहेगा। दूसरे भाग को लेकर कुँवर भीमसिंह पच्छम मोरचे पर डटेंगे और अवसर पाते ही मालवा और गुजरात के शाही हल्कों को लूट लावेंगे। सेना का तीसरा भाग हमारे अधीन रहेगा और हम देवरी की घाटी की चौकी देंगे।

सब सर्दार—यह योजना बहुत उत्तम है।

राणा—अब सब सर्दार अपनी अपनी सेनाएं सजा करके कल ग्रातःकाल देवी माता के पहाड़ों में जमा हो जायें क्योंकि समय कम है।

सब सर्दार—जो आज्ञा।

( सब जाते हैं )

## दूसरा दृश्य

स्थान—उदयपुर; शाहजादा अकबर की छावनी । (शाहजादा अकबर  
और उसके सरदार लोग । समय—सायंकाल )

अकबर—वड़े ही ताज्जुब की बात है कि रास्ता, बाग, बन, बरीचा  
सरोवर सब जगह सन्नाटा है । शहर जैसे जादू के  
जोर से सो गया है । कहिये हसनअली साहेब, क्या  
आपको शहर में कोई आदमी मिला ?

हसनअली—एक चिड़ी का पूत भी नहीं । मैंने खुद धूमकर सब  
तरफ देख लिया ।

अकबर—आपका क्या ख्याल है ? मुल्क के सब बाशिम्दे  
क्या हुए ?

हसनअली—जाहिरा ऐसा मालूम होता है, हमारी फौज को  
देखकर सब डर कर जंगलों में भाग गये हैं ।

अकबर—तब उन पहाड़ी चूहों से जंग किस तरह किया जायगा ?

हसनअली—जंग की जरूरत ही क्या है । तमाम मुल्क, शहर,  
गाँव, हलके, क़िले हमारे हाथ में आ ही गये । मुल्क  
फतह हो गया । बस बैठे चैन की बंशी बजाइये ।

अकबर—यह भी ठीक है । मगर सोचना यह है कि क्या मुल्क  
फतह हो गया ।

हसनअली—इसमें भी शक है। शाहजादा साहेब खुद उदयपुर मे मुकीम हैं, तमाम मुल्क में हमारी फौज फैल गई है। मेरा तो खयाल ऐसा है कि हम चारों तरफ थाने बैठाते हुए तमाम मुल्क और किलों को शाही दखल मे करते जायँ।

अकबर—यही किया जाय। अब आप १० हजार फौज लेकर उसकी अलग-अलग २ दुकड़ियों बनाकर हर ओर से दुश्मन को घेर लें और मुल्क के भीतरी हिस्सों मे घुसते जायें।

हसनअली—दुश्मन को घेरना तो नामुमकिन है। हाँ, सूने गाँव, उजाड़ खेत, सूखे हुए कुओं और बर्बाद रास्तों को घेर लिया जायगा। मगर एक मुसीबत है।

अकबर—वह क्या?

हसनअली—अगर बाहर से रसद न मिली तो सिपाहीं और घोड़े भूखे-प्यासे मर जावेंगे। सब से बड़ी बात चारे और पानी की है। मुल्क भर में न एक बूँद पानी है न एक तिनका चारा।

अकबर—पानी के लिए नये कुएँ खुदवा दिये जायँ।

हसनअली—यह बहुत ही मुश्किल है। इन पहाड़ी जगहों में पहले तो बड़ी गहराई तक पानी मिलना ही मुश्किल है फिर कहीं-कहीं तो कुएँ खुद भी नहीं सकते। दूर-दूर कोई नदी नाला भी नहीं है। फिर चारे के लिए कोई

चारा नहीं है। सिपाहियों का राशन अगर रोक दिया गया, तो बेमौत मरे।

अकबर—तब आप किस खयाल से फर्मा रहे थे कि मुल्क फतह हो चुका, जंग की ज़रूरत नहीं।

हसनअली—मैं यही कह रहा था, कि कोई नज़र आवे तो लड़ाई की जाय। अब लड़े तो किस से?

अकबर—वड़ा ही पेचीला मामला दरपेशा है। मैं गौर करूँगा।

अभी आप अपनी टुकड़ियों को इधर-उधर पानी और चारे की तलाश में भेजे। जो चीज़ जहाँ मिले जब्त कर ली जाय। मन्दिर ढहा दिये जायें, गाँव फूंक दिये जायें, जानवर और आदमी जो मिलें क्रत्ता कर दिये जायें। एक बार इस खौफनाक मुल्क को पूरी तौर पर पासाल कर देना पड़ेगा।

हसनअली—बहुत खूब।

(जाता है)

(पर्दा बदलता है।)

## तीसरा दृश्य

( स्थान—अजमेर। आनासागर की पाल, बादशाह और झज्जेब की  
छावनी। शाही खेमे बादशाह और उसके अमीर पगुमर्श  
कर रहे हैं। समय—प्रातःकाल। )

बादशाह—अकबर ने क्या पैगाम भेजा है?

तहज्जुर खाँ—जहाँपनाह, मेवाड़ को फतह करने में बड़ी-बड़ी  
मुश्किलें दरपेश हैं।

बादशाह—वे कौन सी मुश्किलें हैं जिन्हें शाही फौज को पूरा  
करने में दिक्कतें आती हैं।

तहज्जुर खाँ—खुदाबन्द, पहिली बात तो यह कि मेवाड़ के शाही  
थाने एक दूसरे से बहुत दूर हैं और उनके बीच-बीच  
में अरावली की पहाड़ियाँ आ गई हैं जिनके ऊपरी  
हिस्सों पर राणा का क़ब्जा है। वह वहाँ से मौका  
पाते ही चीते की तरह पूरब या पश्चिम से हमारी  
फौज पर आ ढूटता है और फौज को काट कूट और  
छावनी को लूट लाट फिर पहाड़ पर जा छिपता है।

बादशाह—(भों सिकोइ कर) और?

तहज्जुर खाँ—फिर, मेवाड़ का पहाड़ी इलाका—उदयपुर से  
पश्चिम में कुम्भलगढ़ तक और राज समुद्र से दक्षिण  
में सल्मधर तक एक तरह से निहायत मजबूत क़िले

के जैसा है जिसमें घुसने के लिये सिर्फ़ ३ नाले हैं,  
उदयपुर, राज समुद्र और देसूरी ।

बादशाह—( बेचैनी से ) शाही फौज की कैफियत क्या है ?

तहब्बुर खाँ—उसके सामने दिक्कत यह है कि चित्तौड़ से मारवाड़ जाने के लिये उसे बदनौर-सोजत और व्यावर होकर लम्बा और ऊबड़-खाबड़ उजाड़ रास्ता तै करना पड़ता है—जिसमें न कहीं पानी है और न चारा । तिस पर एक और आक्रम है ।

बादशाह—वह क्या ?

तहब्बुर खाँ—इस रास्ते के तमाम नाकों और घाटों पर ५० हजार भील तीर कमान लिये तैनात हैं । जो छिप-कली की तरह पहाड़ पर चढ़ और उतर सकते हैं और जिनका निशाना अचूक होता है ।

बादशाह—शाही फौज को और क्या दिक्कतें हैं ?

तहब्बुर खाँ—जहाँपनाह, इस मुसीबत के अलावा—उसे रसद की बड़ी ही दिक्कत है । ज्यों ही मुल्क के भीतरी हिस्सों में फंसी शाही फौज को रसद भेजी जाती है—वह आनन-फानन लूट ली जाती है । मुल्क के भीतरी हिस्से की तमाम फसल बर्बाद कर दी गई है । गाँव और बस्तियाँ उजाड़ दिये गये हैं । कुण्ठ और तालाब पाट दिये गये हैं । मुल्क भर में न घोड़ों को चारा पानी मिलता है न सिपाहियों को खाना ।

**बादशाह**—बहुत खूब। अब हमारी तज्ज्वीज यह है कि तमाम पहाड़ी इलाके को घेर कर देसूरी, उदयपुर और राजसमुद्र के घाटों से भीतर घुसा जाय।  
तहब्बुर खाँ—जो इराद।

**बादशाह**—शाहजादा मुहम्मद अकबर को उदयपुर के मुहाने पर तैनात होने का फर्मान भेज दिया जाय और उसकी मदद को हसन अलीखाँ, शुजात खाँ, रजीउद्दीनखाँ रहें। उनके साथ ५० हजार फौज और फरगियों का तोपखाना भी जाय।

तहब्बुर खाँ—बहुत अच्छा जहाँपनाह!

**बादशाह**—और तुम देवारी के घाट का दखल कर लो। साथ ही मांडल बगैरा परगनों को भी शाही दखल में लेकर थाने बैठा दो।

तहब्बुर खाँ—जहाँपनाह की जैसी मर्जी।

**बादशाह**—हम खुद जल्द राजसमुद्र के मोर्चों पर जायेंगे।

साडुल्ला खाँ को लिख दो कि अपनी फौज के साथ वहाँ हमारा इन्तजारी करे।

तहब्बुर खाँ—बहुत खूब, मगर जब दुश्मन सामने आता ही नहीं तो लड़ाई कैसे होगी?

**बादशाह**—मुल्क को चारों तरफ से घेर कर मुल्क के भीतरी हिस्सों में घुसते ही चले जाओ और तमाम मेवाड़ को खालसा करके शाही थाने बैठाते चले जाओ।

जहाँ दुश्मन नज़र आये काट डालो । आखिर वह कहाँ  
पनाह लेगा । तमाम मेवाड़ को कुचल कर बर्बाद कर  
दो, कि फिर यह सिर न उठा सके ।

तहब्बुर खाँ—जो हुक्म जहाँपनाह !

बादशाह—सुनो, तमाम सिपहसूलारों को हुक्म भेज दो कि जहाँ  
जो मन्दिर शिवाला नज़र आवे जमीदोज़ कर दिया  
जाय । गाँव जलाकर खाक कर डाले जायें और औरत  
मर्द जो मिले क़त्ल कर डाला जाय ।

तहब्बुर खाँ—जो हुक्म ।

(जाता है)

बादशाह—(स्वगत हाथ मलता हुआ) इस बार मैं इन मगरूर  
राजपूतों से निपट लेना चाहता हूँ । चित्तौड़ जब तक  
राजपूतों की छाती पर सिर उठाए खड़ा है, मुश्तियों  
का जाल कीका है । जन्नतनशीन अकबर शाह से  
लेकर अब तक की तमाम कोशिशों इसे क़ब्जा करने  
की बेकार गई । इस बार मैं मेवाड़ को खत्म कर  
दूँगा । आलमगीरी क़हर से वह बच न पाएगा ।

## चौथा दृश्य

(स्थान—उदयपुर। शाहजादा अकबर की छावनी। समय—रात्रि )

अकबर—आप यह कहते क्या हैं जनाव !

तहब्बुरखाँ—जो कहता हूँ बिल्कुल सच है। आज नौ रोज से  
हसनअलीखाँ और उनकी फौज का पता नहीं।

अकबर—फौज को क्या सांप सूंध गया या जमीन निगल गई।

तहब्बुरखाँ—खुदा जाने, तिस पर खुदा की मार, मालवे से  
मन्दसौर और नीमच के रास्ते १० हजार बैलों पर  
बंजारे रसद ला रहे थे। वे सब रास्ते में भीलों ने  
लूट लिये।

अकबर—लूट लिये ? इसके माने यह कि हमें कल से भूखों  
मरना होगा।

तहब्बुरखाँ—यकीनन, क्योंकि अब रसद कर्तव्य नहीं है। न कुओं  
और तालाबों में पानी है।

अकबर—(हाथ मलकर) तो हम चूहेदानी में बन्द चूहों की तरह  
मरेंगे ? आप अभी नाके नाके पर थाने वैठाइये और  
हसनअली की फौज को तलाश कीजिए।

तहब्बुरखाँ—कोई शाही अफसर थानेदारी कुबूल नहीं करता,  
क्योंकि दुश्मन बाज की तरह टूटकर थानों को लूटकर  
और मार काट करके न जाने कहाँ भाग जाते हैं।

अकबर—आप खुद घाटों और दर्दों में फौजों की दुकड़ियां भेजिए ।  
तहज्जुरखाँ—बेकार ! फौज घाटियों और दर्दों में जाने से इन्कार  
करती है । उसकी हिम्मत बिल्कुल ढूट गई है । एक  
मुसीबत और है ।

अकबर—वह क्या ?

तहज्जुरखाँ—चित्तौड़ के आस पास के सब थाने ढूट चुके हैं  
और राजपूतों ने पहाड़ों से निकालकर बदनौर तक  
अपनी फौजें फैला दी हैं इससे अजमेर से हमारा  
ताल्लुक ढूटने का पूरा अन्देशा है । फौज वे सरो-  
सामान, थकी हुई वे सिलसिले भूखी और प्यासी है ।  
(एक सिपाही घबराया आता है)

सिपाही—खुदाबन्द, दुश्मनों की फौज ने छावनी पर हमला  
किया है ।

अकबर—(खड़ा होकर) तहज्जुरखाँ ! आप फौरन फौज की मोर्चे  
बन्दी करें । मैं अभी आता हूँ ।

तहज्जुरखाँ—बहुत खूब । (जाता है)

(पर्दा बदलता है)

## पाँचवाँ दृश्य

(स्थान—देवरी की घासी। एक पहाड़ की तलाहटी में शाही छावनी पड़ी है। फौजदार—नायब इक़ताज खँ और उनके दो सुसाहिब पीरबख्श और मियाँ कमरुहीन अगल-बगल बैठे हैं। नायब साहेब मसनद पर बैठे पेचबान पी रहे हैं। एक खिदमतगार ओड़ा लिए सामने खड़ा है। नायब साहेब पेचबान पर अम्बरी तम्बाकू पी रहे हैं। दो-चार चिपाही इधर-उधर खड़े हैं। फासिले पर लड़ाई का शोर-भुल हो रहा है।)

नायब—कहो मियाँ पीरबख्शा इस बक्क अगर दुश्मन यहाँ आ जाय तो तुम क्या करो ?

पीरबख्शा—जनाब मजाल है ?

नायब—ताहम !

पीरबख्शा—तो मैं उन्हें कच्चा ही चबा जाऊँ ।

नायब—बहुत खूब, और तुम मियाँ कमरुहीन ।

कमरुहीन—क्या मैं ? मैं उन्हें इतनी गालियाँ दूँ, इतनी गालियाँ दूँ कि बच्चू जी को छृटी दूध ही याद आजाय ।

नायब—यह भी ठीक है। तुम्हारे जैसे बहादुर सुसाहिबों के पास रहते फिर शम किस बात का । भगर खैर, एहतियातन हमारी तलबार म्यान से बाहर निकाल कर हमारे पास रख दो और बन्दूक तमंचा भर कर लैस कर लो ।

खिदमतगार—(तलवार नंगी करके पास रखकर) जो हुक्म बन्दा  
नबाज़। (बन्दूक में गज डालता है) उसमें से मिट्टी  
निकलती है।

नायब—वाह, बन्दूक में से मिट्टी कैसे निकली?

खिदमतगार—हुजूर, उसमें दीमक ने घर कर लिया है।

पीरबख्शा—दीमक का भी क्या क्लेजा है।

कमरुदीन—और अगर गोली लग जाय तो?

नायब—मियाँ पीरबख्शा, तुम बंदूक का निशाना लगा सकते हो?

पीरबख्शा—हुजूर, अपने मुँह से क्या कहूँ। एक बार कुत्ते से  
हमारी लाग ढाट हो गई। खुदा की कसम, हमसे  
कोई ११-१२ क़दम पर था। धरके जो बंदूक दागता  
हूँ तो पों-पों करके भागता ही नज़र आया।

नायब—(हँस कर) क्या कहते हैं। बड़े ही बहादुर हो।

पीरबख्शा—हुजूर, इतनी इज्जत न करें, गुलाम जरा इस वक्त  
रज में है—सोचता हूँ हुसेनी की माँ—

नायब—ओह—वह मजे में पुलाव पका रही होगी। हाँ जरा  
बन्दूक इन्हें। (खिदमतगार बन्दूक देता है उसे उलट  
पुलट कर देखने के बाद धीरे से नीचे रख देता है)

नायब—उड़ती चिड़िया पर निशाना लगा सकते हो?

पीरबख्शा—हुक्म हो तो आस्मान को भून कर रख दूँ?

नायब—चिड़िया पर निशाना लगाओ।

**पीरवस्था**—(रोनी सूरत बना कर और ज़मीन में ठोकर मार कर गजल गाता है)।

क्या हाल हो गया है दिले बेक्करार का।

आज्ञार हो किसी को इलाही न प्यार का।

मशहूर है जो रोज़े क़वामत जहान में।

पहला पहर है मेरी शबे इन्तज़ार का।

(खूब जोश में खम ठीक कर)

इस साल देखना मेरी वहशत के चुलबुले।

आया है धूम-धाम से मौसम बहार का।

(नाचने लगता है)

(एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है)

**सिपाही**—हुजूर, दुश्मनों ने परे के परे साफ कर दिए। हमारी फौजें हार कर भाग रही हैं।

**नायब**—ऐं ! यह क्या बदकलाम ज़बान पर लाया। (मुझाहिबोंसे)  
क्या यह मुमकिन है ?

**कमरुदीन**—हुजूर क़रद़ ना मुमकिन।

**नायब**—(एक कुश पैचबान का खींचकर) वही तो मैंने कहा (सिपाही से) खैर तुम जाओ।

(सिपाही जाता है—दूसरा सिपाही घबराया आता है)

**सिपाही**—हुजूर शज़ब हो गया, दुश्मन की क़रद़ हो गई। वे इधर ही बढ़े आ रहे हैं। भागिये हुजूर, जान बचाइये (दोनों मुसाहिब घबराकर उठ खड़े होते हैं। शोर गुल बढ़ता है।

बहुत से सदार नंगी तलवारें लिये सब को धेर लेते हैं)

नायब—( घबरा कर ) म्याँ पीरबख्शा, सम्हालिये जरा, ये बेअदब  
गधे सर पर ही चढ़े चले आ रहे हैं। लाओ हमारी  
बन्दूक, तमचा, तलवार।

पीरबख्शा—हुजूर, वक्त पर हमें आजमाईए, पर यह मौका तो  
बेढब है। ( भागता है )

नायब—मियाँ कमरुदीन, दागो गोली धर के, उड़ा दो सब को,  
भून डालो म्याँ ? बन्दूक लो बन्दूक !

कुमार भीमसिंह—पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, जो लड़े उसके  
दो ढूक कर दो।

नायब—किस को ? क्या हमको ? हम नायब सिपहसालार  
इकाताजखाँ जंग बहादुर हैं।

कमरुदीन—(अकड़कर) समझे कि नहीं। ऐरे गौरे नथू खैरे नहीं।

भीमसिंह—बाँध लो, मुश्कें कस लो, छावनी लूट लो और बाद  
में आग लगा दो।

नायब—व खुदा, अजब जाँगलू हो, तमीज छू नहीं गई। कहते  
हैं दूर ही रहना। मियाँ कमरुदीन ?

कमरुदीन—हुजूर, अब इन जंगलियों को कौन समझाए। अभी  
कहते हैं, दूर रहो, अदब से बातें करो। वरना नायब  
साहेब बिगड़ गये तो क्यामत वर्पा हो जायगी।

एक राजपूत-सिपाही—(सिर पर धौख जमाकर) चलो ठरडे-ठरडे।  
रणाजी के सामने तुम्हारा सिर काटा जायगा।  
( भवका देते हुए ले जाते हैं। )

## छठा दृश्य

( स्थान—राणा राजिंह की छावनी । राणा और उने हुए सदार  
युद्ध मन्त्रणा कर रहे हैं )

राणा—हाँ तो अब बादशाह की दूसरी युद्ध योजना यह है कि  
शाहजादा आजम चित्तौड़ से देवारी और डृद्धपुर  
होता हुआ पहाड़ों में बढ़े, इसी तरह शाहजादा मुअ-  
ज्जम राजनगर और अकबर देसूरी से ?

गोपीनाथ राठौर—जी हाँ अन्नदाता ।

राणा—बहुत ठीक । अकबर अब सोजत में मुक्कीम है ?

गोपीनाथ राठौर—जी हाँ ।

राणा—वहाँ से वह एक सेना नाडोल होकर तहब्बुरखाँ की  
कामना में देसूरी के घाटे से मेवाड़ में भेजेगा और  
पहिले कुम्भलमेर पर आक्रमण करेगा ।

गोपीनाथ राठौर—जी हाँ, वहीं राठौरों की सेना पड़ी हुई है ।

राणा—हम आशा करते हैं तहब्बुर एक मास से पूर्व नाडोल न  
पहुँच सकेगा । आप तुरन्त कुम्भलमेर अपनी सेना  
सहित जाकर मोर्चा दुरुस्त कीजिए और दुर्गादास की  
मदद कीजिए । विक्रम सोलंकी और मोहकमसिंह  
शकावत आपके साथ रहेंगे । परखबरदार रहिए,  
तहब्बुर की सेना अकबर की सेना से मिलने न पावे ।  
उसे पहिले ही रास्ते में काट फेंकना चाहिए ।

गोपीनाथ राठौर—ऐसा ही होगा ।

राणा—युक्ति ऐसी करनी चाहिए कि आप तीनों सेनापति मार्ग में एक दूसरे के नजदीक ही छिप रहें। हाँ, विक्रमसिंह जी के पास २ हजार सवार हैं ?

विक्रमसिंहजी—जी हाँ ।

राणा—बहुत ठीक, आप पहाड़ पर न चढ़ सकेंगे। आप सब से पीछे रहें और कहीं समथल भूमि पर जंगल में छिप रहें। धूर्त मुगल धरती सूँधते बढ़ेंगे। उन्हें हमारा भय लाया है। सम्भव है आपको पा जायें तो आप नाम मात्र को लड़कर पीछे हट जाइए। जब शत्रु आगे बढ़ जाय, तो उसकी पीठ तोड़ने को तैयार रहिए।

विक्रमसिंहजी—ऐसा ही होगा ।

राणा—और आप गोपीचन्दजी, दरें के सब से संकरीले रास्ते पर दबकर बैठ जायें। मोहकमसिंहजी बीच में छिपे रहेंगे। शत्रु से कुछ छेड़छाड़ न करेंगे। ज्योंही शत्रु दरें के मोर्चे पर पहुँचे आप काट शुरू कर दें। बगल से पहाड़ीबाज की तरह झटक कर मोहकमसिंह जी जनेऊआ हाथ मारेंगे और पीछे से विक्रमसिंह। दुश्मन वहीं कट मरेगा।

तीनों—ऐसा ही होगा महाराज।

राणा राजसिंह—अकबर की असफलता सुनकर लाल्हार बादशाह स्वयं अजमेर से चल पड़ेगा। हमें मालूम है उसके पास

फौज बहुत कम है। यहां की तमाम फौज बेतरतीबी से बिखरी हुई है। वह जल्दी और गुस्से में देश में छुसता ही जायगा। हम उसे पीजरे में फाँस कर खत्म कर देंगे। अब जाइए आप अपनी योजना काम में लाइए।

सब—जैसी आङ्गा।

( जाते हैं )

## सातवाँ दृश्य

स्थान—उदय सागर—बादशाह की छु बनी—बीच मे बादशाह का स्वीका  
- है। सन्तरी पहरे पर है। बादशाह मसनद पर बैठे हैं।  
अमीर अगल बगल हैं। )

बादशाह—अकबर से मुझे ऐसी उम्मीद न थी। उस नामुराद ने  
अपना नाम छुबोया।

तहबुरखां—जहांपनाह, शाहजादा जो कुछ कर सकते थे वह  
उन्होंने किया। मगर उन्हें बंगाल और दक्षिण की  
शाही फौज की मदद नहीं मिली।

बादशाह—इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

तहबुरखां—हुजूर मदद मिलना मुमकिन ही न था, राना बीच  
में इस चालाकी से जम कर बैठा कि लाचार शाही  
फौज सिकुड़ी बैठी रही। केमार जयसिंह ने आधी रात  
को एकाएक फौज पर ढूट कर शाहजादे की तमाम  
फौज को काट डाला।

बादशाह—काट डाला। शाही फौज गोया मूली थी।

तहबुरखां—हुजूर, उसे न रसद मिलती थी न कुमुक। दहशत  
और घबराहट से उसकी हिम्मत पश्त हो चुकी थी।

बादशाह—तो शाहजादा अकबर अब गुजरात ओर गया है।

तहबुरखां—जी हां, जहांपनाह, उनकी तमाम फौज बर्बाद हो  
गई है। उधर शाहजादा आज बड़ी मुसीबत में है।

**बादशाह**—उन पर कैसी मुसीबत आई है।

**तहबुरखां**—वे पहाड़ी इलाकों में जहां तक पहुँच चुके हैं वहां से आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं है। घोड़े, ऊँट, तोप-खाना आगे एक कदम भी बढ़ नहीं सकता। वहां न रसद है न पानी, न दुश्मन, जिनसे लड़ा जाय। शाहजादा ने कुछ पैदल और चुने हुए सवार लेकर धाटियों के रास्ते भीतर युसने की कोशिश की थी मगर ज्योंही धाटियों में धुसे ऊपर से राणा की छिपी हुई फौज बड़े-बड़े पथर बरसाकर फौज की चटनी बना देती है। उमकी हालत ऐसी ही है जैसे कोई कुत्ता बन्द आवर्धने का दर्जा भड़भड़ा कर फिर बापस लौट आता है भीतर नहीं युस पाता। उधर मौज्जमशाह कांकरोली में अटके पड़े हैं।

**बादशाह**—किस लिए?

**तहबुरखां**—पहले तो उनकी फौजों को आगे बढ़ने की राह ही नहीं है। दूसरे, वह रास्ता बनाकर आगे बढ़े भी तो एक तो यह बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरे, उन्हें बड़ा भारी एक खतरा है।

**बादशाह**—खतरा क्या है?

**तहबुरखां**—यह, कि अगर पीछे से राजपूतों ने उनकी रसद का रास्ता रोक दिया तो कैसी बीतेगी? राणा ने इस चालाकी और होशियारी से अपने पड़ाव ढाले हुए हैं

कि बंगाल और दक्षिखन की शाही फौजें भीगे बन्दर  
की तरह सिकुड़ कर बैठी रहीं और मुलतान की फौज  
नेश्टनाबूद हो गईं। कुछ भी मदद न मिल सकी।  
आब शहनशाह जैसा मुनासिब समझें।

आदशाह—तुम अभी अपनी फौज के साथ कूँच करके अकबर  
को वापस लाकर चित्तौर में छावनी डालो। हम खुद  
इस बार मुल्क के भीतरी हिस्से में घुसेंगे और देखेंगे  
कि राना में कितना जोर है।

तहबुरखां—जो हुक्म बन्दा नेवाज़।

( जाता है )

## आठवाँ दृश्य

( स्थान—सुगरों का पदाव । शाहजादा अकबर और

तहबुरखाँ । समय—ग्रातःकाल )

तहबुरखाँ—शाहजादा, अब कहिए क्या किया जाय ।

अकबर—मेरा खयाल है कुछ भी नहीं किया जा सकता ।

हम लोग पूरी तौर पर हारे हैं और हमारी फौज  
बिलकुल बर्बाद हो गई है ।

तहबुरखाँ—राजपूतों की जवाँमर्दी, बहादुरी और मुस्लैदी की  
जितनी तारीफ की जाय थीड़ी है । मैं एक बात सोचता हूँ ।

अकबर—कौनसी बात ?

तहबुरखाँ—मैं सोचता हूँ कि अगर यह बहादुर कौम हमारी  
दुश्मन न होकर दोस्त होती । हम इनकी मदद हासिल  
कर सकते ।

अकबर—अगर मुझे इसकी मदद मिले तो सारी दुनिया में  
अपना सिक्का चला दूँ ।

तहबुरखाँ—तब क्यों नहीं आप एक काम करते ।

अकबर—कौनसा काम ?

तहबुरखाँ—बहुत ही आसान काम है, ( कुछ रक्कर ) आप  
बादशाह होना चाहते हैं ?

अकबर—(अकबरका कर) बादशाह ! ऐ ! यह किस तरह मुमकिन है ।

तहबुरखाँ—छिपाने की क्या जरूरत है शाहजादा ! यहाँ सब  
एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं । कहिए आप चाहते  
हैं या नहीं ?

अकबर—चाहता तो हूँ—फिर ?

तहबुरखाँ—फिर उसके लिए कोशिश कीजिए । बादशाहत  
तो आपने आप तो आपको मिल नहीं सकती । उसके  
लिये हौड़ धूप करनी होगी ।

अकबर—यह काम बहुत मुश्किल है तहबुरखाँ !

तहबुरखाँ—बहादुर लोग ही मुश्किल आसान किया करते हैं,  
मगर मुझे तो बहुत आसान दीख रहा है ।

अकबर—आसान दीख रहा है, कैसे ?

तहबुरखाँ—अगर आप राजपूतों को अपनी मुद्दी में कर लें ।  
इनकी मदद से आप बादशाह हो सकते हैं । आलम-  
गीर ने इन राजपूतों को नाराज करके मुगाल सल्तनत  
की जड़ें हिला दी हैं । मुगाल तरस का पाया राजपूतों  
के कन्धे पर था—शाहेजहाँ, अकबर और जहाँगीर ने  
यह बात समझी थी । मगर अफसोस, बादशाह  
आलमगीर न समझ सके । अब भी वक्त है, आप  
समझिए । आप राजपूतों से चुपचाप सुलह कर लीजिए ।  
(देखकर) वह शाहजादा आजम आ रहे हैं ।

तहबुरखाँ—मन्दिरी शाहजादा ।

आजम—( परवाह न करके अकबर से ) अब्बाजान ने कैफियत तलब की है ।

अकबर—कैसी कैफियत ?

आजम—वे तुम पर खूब नाराज़ हैं ।

अकबर—क्यों ? किस लिये ?

आजम—तुम लड़ाई में हार गये ।

अकबर—और तुम दिलावर खाँ, और खुद बादशाह सलामत ?

आजम—हमने लड़कर शिक्षत खाई है ।

अकबर—पथरों से या पहाड़ों से, और तो कोई दुश्मन हमें नहीं दीखा ।

आजम—यह मैं नहीं जानता । अब्बाजान तुमसे बहुत नाराज़ हैं ।

अकबर—तो मैं क्या करूँ ?

आजम—जो ठीक समझो । बादशाह बहुत नाराज़ हैं ।

( जाता है )

अकबर—सुना तुमने तहब्बुर ! आजम ने लड़कर शिक्षत खाई है । शर्म नहीं आती, बेगम तक क़ौद कर ली गई ।

मगर समझ गया, आजम ने मेरे खिलाफ अब्बा को भरा है ।

तहब्बुरखाँ—देखा नहीं, कैसी टेढ़ी नजर से देखते थे ।

अकबर—तुम राजपूतों की भद्र की क्या कहते थे—कहो ।

तहब्बुरखाँ—आप उनकी भद्र खारीदने को राजी हैं ।

अकबर—खारीदने को ?

तहबुरखाँ—नहीं तो क्या, आप नहीं तो आजम, मुश्वज्जम कोई  
न कोई तो सरीदेहीगा ।

अकबर—( उतावली से ) यह न होने पावेगा । मैं यह मंदद  
खरीदूँगा ।

तहबुरखाँ—चाहे जिस कीमत पर ?

अकबर—चाहे जिस कीमत पर । तुम राजपूतों से बातें करो ।

तहबुरखाँ—मैं बात कर चुका हूँ शाहजादा ! मगर एक  
अर्ज है ?

अकबर—कैसी अर्ज ?

तहबुरखाँ—आप बादशाह होंगे तो—बंदा बजारे आजम होगा ।

अकबर—मैं मंजूर करता हूँ ।

तहबुरखाँ—तो अब आप आराम करें । मैं सब ठीक ठीक कर  
लूँगा ।

( जाता है । पर्वा बदसता है । )

## नवाँ दृश्य

(स्थान—राणा की छावनी। महाराणा और उनके साथन्त बातें कर रहे हैं। सेना पदाच ढाले पढ़ी है। समय—प्रातःकाल। )

गोपीनाथ राठौर—अनन्ददाता की जय हो। प्रबल प्रतापी मुगल-  
बादशाह आलमगीर देवरी की घाटी में अपनी तमाम  
सेना सहित फँस गया है। अब क्या आज्ञा होती है ?  
राणा—धन्य है आपकी वीरता और तत्परता, विस्तार से कहो  
कैसे क्या हुआ।

गोपीनाथ राठौर—महाराज, हमारे एक चर ने मार्गदर्शक होकर  
बादशाह को घाटी में ला फँसाया। इस पर बादशाह  
अपनी तमाम फौज, खजाना लिये मेवाड़ को जड़ मूल  
से टोंदने के इरादे से चला था। सब से आगे रास्ता  
दुरुस्त करने वाली फौज थी। उनके हथियार घंडासा  
फावड़ा और कुदली थे। ये लोग दरख्त काटते, गढ़े  
पाटते, रास्ता बनाते बढ़ रहे थे।

राणा—शाही फौज का यह हिस्सा बहुत ही मुस्तैद है।

गोपीनाथ राठौर—जी हाँ, इसके बाद तोपों की क्रतार थी। हमने  
चुपचाप इन्हें घाटी में घुस जाने दिया।

राणा—( इसकर ) आपने बड़ी उदारता की।

गोपीनाथ राठौर—तोपों के पीछे हाथियों पर खजाना था।  
जब खजाना घाटी में जाने लगा, तो हमारे सेना

नायकों ने उसे लूट लेना चाहा । परन्तु मैंने उन्हें रोक कर कहा अभी इसे घाटी में जाने दो पीछे हमारे हाथ ही आ रहेगा ।

राणा—बिलकुल ठीक किया ।

गोपीनाथ राठौर—उसके पीछे ऊँटों और छकड़ों पर लदा हुआ दफ्तरखाना था फिर ऊँटों पर लदी गंगाजल की कतारें थीं । पीछे रसद, आटा, दाल, धी और पखेरु चौपाए और कच्ची पक्की खाने पीने की चीजें थीं । बाद में तोपखाना और उसके पीछे अनगिनत घुड़ सवार सुराल । यह शाही फौज का पहला दस्ता था । इसे हमने चुपचाप घाटी में चला जाने दिया ।

राणा—इसके बाद ?

गोपीनाथ राठौर—इसके बाद फौज का दूसरा हिस्सा था जिसमें बुढ़े बादशाह सलामत थे । उनके आगे असंख्य ऊँटों पर दहकते अंगारों पर सुगन्ध द्रव्य जल रहे थे । जिससे कोसों तक पृथ्वी आकाश सुगन्धित हो रही थी । इसके बाद बादशाही खास अहदी फौजदारी घोड़ोंपर सवार थे । जिनके बीचों बीच बादशाह एक बहुमूल्य घोड़े पर सवार चल रहे थे । ऊपर कीमती मोतियों का छत्र था । बादशाह के पीछे शाही हरम बड़े-बड़े हाथियों पर थीं, जिनकी सुनहरी कलंगियाँ धूप में चमक रही थीं । इनके पीछे बांदी और लौंडियों

का अखाड़ा था जो सिपाहियाना ठाठ से घोड़े पर  
सवार थीं। इसके पीछे गोलंदाज फौज थी। इस हिस्से  
को भी हमने चुपचाप घाटी में चला जाने दिया।

**राणा—बहुत खूब !**

**गोपीनाथ राठौर—**अब फौज का तीसरा हिस्सा आया। इसमें  
अनगिनत पैदल फौज थी। और उसके पीछे लौंडी,  
मोटिए-भज्जदूर, रंडी, भड्हए, मामूली लोग, घोड़े,  
खज्जर, ढोली, कहार, डेरे, तम्बू थे। महाराज, इस  
प्रकार बरसाती नदी की तरह उमड़ती हुई वह सेना  
घाटी में घुस गई। हम चुप-चाप देखते रहे।

**राणा—इसके बाद ?**

**गोपीनाथ राठौर—**महाराज, यही वह राह थी जिसके रास्ते अक-  
बर गया था। बादशाह की योजना यह थी कि भट्टपट  
शाहजादा अकबर की फौज से मिल जाय और बीच  
में कुमार जयसिंह की सेना मिले तो उसे कुचल डालें।  
फिर दोनों फौजें मिलकर उदयपुर में घुस पड़ें और  
राज्य को तहस-नहस कर डालें। परंजब उसकी नजार  
घाटी के बगाल की पहाड़ियों पर चढ़ी राजपूत सेना  
पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वह तुरन्त समझ  
गया कि बगाल में दुश्मन को छोड़ कर आगे बढ़ना  
बड़े खतरे का काम है। वह अभावा अब पलट कर  
लड़ भी नहीं सकता था। क्योंकि उस तंग दरें में

फौज को पलट कर युद्ध के लिए तैयार करना सम्भव ही न था। न उतना वक्त ही था। उसे भय था कि ज्योंही फौज को घुमाया जायगा राजपूतों की सेना उस पर ढूट पड़ेगी और आनन्द कानन उसकी फौज के दो टुकड़े हो जावेंगे और तब एक हिस्से को बड़ी ही आसानी से काट डाला जायगा।

**राणा—**उसका यह सोचना बिलकुल ठीक था। इसके बाद क्या हुआ?

**गोपीनाथ राठौर—**सामने जयसिंह की सेना का भय था। आगे बढ़ना सम्भव न था। पीछे रसद लूटने का डर था। लौटने का भी कोई उपाय न था। बादशाह सेना की गति रोक कर विमूँह हो बैठा।

**राणा—**विमूँह होना ही था।

**गोपीनाथ राठौर—**निरुपाय उसने हमारे भेदिये की शरण ली और उसे उदयपुर का नया मार्ग खोजने को कहा। वह बादशाह को उसी सँकरीले दरें में घुसा ले गया जहाँ हमारी तमाम मोर्चे-बन्दी तैयार थी, बादशाह ने सेना को लौटने का हुक्म दिया, पर उसका सिलसिला चला हो गया। सेना का विछला हिस्सा पहले दरें में घुसा।

**राणा—**(इंसदर) यह बिना भौत भरना हुआ।

**गोपीनाथ राठौर—**महाराज! बादशाह ने हुक्म दिया कि तम्हा और

फालतू चीजें उद्यसागर के रस्ते जाँच। वह सेनापति तकलाँ को आगे करके, पैदल सिपाहियों और तोपखाने को लेकर दर्दे में घुस पड़ा। उसके घुसते ही हम चीते की भाँति छलाँग भार कर उस पर ढूढ़ पड़े और ज्ञान भर में फौज के दो टुकड़े हो गये। उनमें का एक टुकड़ा तो बादशाह के साथ दर्दे में घुस गया दूसरा हमने सामने होकर काट डाला। यह वह भाग था जहाँ बेगमात थीं। वह कुहराम मचा कि जिसका नाम अहदी जो बेगमों की रक्षा के लिए तैनात थे कोई हथियार न चला सके। सब बेगमात, सारा खजाना और पूरी रसद हमारे कब्जे में आगई। बादशाह दर्दे में घिर गया। दर्दे के उस पार कुमार जयसिंह की चौकी है। इस पार विक्रमसिंह का थाना है। पहाड़ की चोटियों पर ५० हजार भील, भारी-भारी पत्थरों को इकट्ठा किये तीर-कमान लिये श्रीमानों की आङ्का की प्रतीक्षा में हैं। आत्मगीर भूखा, प्यासा असहाय दर्दे में कैद है।

**राणा—बाह,** यह असाध्य-साधन हुआ।

**गोपीनाथ राठोर—** (हाथ जोड़कर) महाराज, अब दो बातें विचारणीय हैं। पहिलो बात बेगमात के संर्वध में है। उनका क्या किया जाय।

राणा—उन्हें आदर पूर्वक अभी महलों में भेज दिया जाय और  
महारानी चाहमती को उनकी पहुँचाई करने दी जाय।  
इसके लिए हम अलग पत्र महाराणी को लिखेंगे।  
खाय सामग्री जो अपने काम की न हो, दुसाध और  
डोमों को लुटा दी जाय और लूटा हुआ खजाना  
दीवान जी के सुपुर्द कर दिया जाय।

गोपीनाथराठौर—जो आक्षा, ऐसा ही होगा। (जाता है)

## दसवाँ दृश्य

(स्थान—अरावली का तंग दर्ता। बादशाही फौज बेतरतीवी से परेशान हो धीरे धीरे बढ़ रही है। बादशाह एक छोड़े पर सवार है। कुछ सर्दार परेशान इधर उधर चल रहे हैं। समय—सन्ध्या काल)

अलीगौहर—हुजूर, सूरज छूब गया। दर्दे में सौफनाक अँधेरा बढ़ रहा है। हमारे पास रोशनी का कुछ भी बन्दोबस्तु नहीं है। आगे बढ़ना मुश्किल है।

बादशाह—इस सौफनाक दर्दे के दूसरे मुहाने का पता लगा?

अलीगौहर—ठीक ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। प्यादे और सवार उसाठम भरे हैं। मगर मालूम होता है मुहाना कटे दरख्तों और पथरों से बन्द कर दिया गया है और उधर जयसिंह की कौज लड़ने को मुस्तैद खड़ी है। उधर एक तो बाहर निकलने की गुजाइश ही नहीं, क्योंकि रास्ता साफ करने वाली कौज हम से कटकर पीछे पड़ गई है। फिर निकलने पर एक भी आदमी जिन्दा न बचेगा। पहाड़ी पर चौटियों की मानिन्द भील फिर रहे हैं। यहाँ हमने आगे क़दम बढ़ाया कि भारी-भारी पत्थर और तीर हमारा भुरता निकाल देंगे।

बादशाह—यहाँ रात काटना भी भौत को गले लगाना है। मगर मजबूरी है। यहीं पड़ाव ढाला जाय।

**अलीगौहर**—हुजूर, डेरा तम्बू तो सब लुट गये । होने सो गाढ़ने की यहाँ जगह नहीं । बस यही होगा कि जो जहाँ हैं खड़ा रहे । हुजूर, इस पत्थर की चट्टान पर आराम करें बादशाह—मगर घोड़ों और सिपाहियों की रसद का क्या होगा ?

**अलीगौहर**—हुजूर, इस दर्दे में न एक बूँद पानी न तिनका न । धास । महज पत्थरों के छोटे बड़े ढोके हैं । सिपाही चाहें तो उन्हें पेट से बांध कर रात काट सकते हैं ।

( एक प्यादा कठिनाई से आता है )

**प्यादा**—खुदावन्द, दुश्मनों ने वेगभात, खजाना, तोपखाना और रसद लूट ली है । और आधी फौज जो दर्दे से बाहर रह गई थी काट फेंकी । अब दुश्मन मुस्तैदी से दर्दे का सुँह रोके वैठा है । वहाँ उसने हमसे ही छीना हुआ तोपखाना लगा रखा है ।

**बादशाह**—( मथा पीट कर ) या अल्लाह, आज तूने आलमगीर को यह दिन दिखाया । आज जीता बचा तो समझूँगा ।

**अलीगौहर**—जहाँपनाह, यहाँ से जीते निकलने की कोई तरकीब न जर नहीं आ रही है ।

**बादशाह**—( गुस्से से होठ चबा कर ) जैसी खुदा की मर्जी, फिलहाल जैसे मुमकिन हो यह रात काटी जायगी । जो इन्तजाम मुमकिन है करो । मैं जरा नमाज़ पढ़ूँगा ।  
( घोड़े से उतर कर नमाज़ पढ़ता है )

## भ्यारहवाँ हश्य

( स्थान—राशा की छावनी । चुने हुए सरदार और राशाजी बढ़ौं  
कर रहे हैं । समय—दोपहर )

राव के सरीरिंसि—श्रीमान् ! पेट की आग से जलकर सुखाल  
शहनशाह नरम हो गया है । उसने सुलह का पैशाम  
भेजा है ।

हुमार भीमसिंह—उसकी बात का क्या विश्वास ? नहीं, इस बार  
उसे सर्वथा नष्ट कर दिया जाय । वह यहीं भूख  
ध्यास से तड़प-तड़प कर मरे । मर जाने पर हम  
दोमों के हाथों उसे शौर दिला देंगे ।

राणा—( हँसकर ) इस समय यह तो बहुत आसान है कि उसे  
यहीं सुखा-सुखा कर मार डाला जाय परन्तु औरंग-  
जोब के मरने से सुखाल शक्ति का नाश नहीं हो जायगा ।  
उसके बाद इसका बेटा बादशाह होगा, उसकी मातहती  
में दक्षिण की विजयिनी सेना इसी पहाड़ के उस पर  
पड़ी हुई है । और भी उसकी दो विशाल सेनाएं  
भैवाड़ के अंचल पर अभी मुक्कीम हैं । इन सबको क्या  
हम नष्ट कर सकते हैं ? उनसे हमें आज नहीं तो किर  
कभी सुलह करनी होगी । अब सुलह करनी है तो उसके

लिए यही सबसे अच्छा अवसर है। फिर ऐसा अवसर हमें नहीं मिलेगा।

मन्त्रा दयालशाह—अन्नदाता, और कुछ न मिले, पर यह मंहा पापी तो मरे।

राणा—मुगल साम्राज्य को योंही नहीं उखाड़ा जा सकता। हमें अपनी शक्ति पर भी विचार करना चाहिए।

मन्त्रा दयालशाह—परन्तु महाराज, इसी बात का क्या भरोसा है कि बादशाह सन्धि की शर्तों का पालन करेगा? वह बड़ा ही भूंठा, बंझान और पाजी है। यदोंही खतरे से बाहर हुआ, संधि को फाड़ कर फेंकेगा।

राणा—इन बातों को यों विचारने पर तो फिर सन्धि हो ही नहीं सकती। हमें उचित है कि इस सुयोग से हम लाभ उठा लें। हमारी शर्तें यह हैं—वह तुरन्त सेना सहित हमारे राज्य से बाहर चला जाय, और फिर कभी मेवाड़ पर चढ़ाई न करे। मेवाड़ में न गो-बध हो न देव मन्दिर तोड़े जायें। न जाजिया लिया जाय।

सब—बहुत उत्तम। वह इन बातों को स्वीकार करे तो छोड़ दिया जाय। नहीं तो वहीं मरे।

मेहता फतहसिंह—( हाथ जोड़कर ) बेगमात जो कहै हैं उनका क्या होगा?

मोहम्मदसिंह—वे न छोड़ी जावेंगी। कोई राजनीत में शुद्धी

लगावेगी, कोई महारानी जी को अच्छे-अच्छे किससे  
सुनावेगी ।

**भीमसिंह**—बादशाह १ करोड़ रुपया दखल दे तो उन्हे छोड़ा जा  
सकता है ।

**राणा**—सौदा करना व्यर्थ है । बादशाह सन्धि की शर्तें स्वीकार  
करे, तो बेगमान छोड़ दी जावेंगी ।

## धारहर्वां दृश्य

( स्थान - शाया का जगाना मदिल । महारानी चाहमती एक गही पर  
बैठी है । समय—प्रातःकाल । निर्मल आती है । )

निर्मल — बादशाह से राणाजी की सन्धि हो गई है । ( आपकी  
अज्ञानुसार उदयपुरी बेगम और शाहजादी जेखुनिसा हाजिर  
हैं । आज्ञा पाऊँ तो सेवा में खाऊँ )

चाहमती — पहिले उदयपुरी बेगम को ला ।

निर्मल बहुत अच्छा । ( जाती है )

चाहमती — यही है वह बादशाह के चहेती, जिसके आभ्रह से  
बादशाह मुझसे शादी किया चाहता था । मुझे बेगम  
बनवाने के लिए नहीं बल्कि इन बेगम की चिलम  
भरवाने के लिए । देखूँ कैसी है वह । ( मलिका और  
निर्मल आती हैं )

चाहमती — (सख्तमान सही होकर) आइए इस चौकी पर बैठिए ।

उदयपुरी बेगम — ( घमरड से ) तुम लोगों को मौत का डर नहीं  
है जो बादशाह की बेगम को गिरफ्तार किया है ।

चाहमती — ( सुस्करावर ) जी नहीं, राजपूत मौत से डरते नहीं,  
खेलते हैं ।

उदयपुरी बेगम — मगर खबरदार रहो तुम काकिर लोग अपनी  
रक्षा जल्द पहुँचोगे ।

चाहमती—देखा जायगा । अभी तो अपनी करनी तुम भोगो ।

हमारी चिलम तो भरताओ । (चंचल से) किसी बाँदी से कह कि इस नई बाँदी को चिलम भरने का सामान दे दे ।

उदयपुरी वेगम—(ऐंठकर) क्या मैं ? बादशाह की वेगम, चिलम भरूँ ? यह गुस्ताखी । खुदा की क्रसम मैं इसे बरदाश्त नहीं कर सकती ।

चाहमती—बादशाह की वेगम जब थीं तब थीं अब मेरी बाँदी हो, चटपट चिलम भरो ।

उदयपुरी वेगम—तुम्हारा इतना मकदूर.....

चाहमती—चुप, अदब से बात करो । आज तुम हमारी चिलम भरो । कल बादशाह आलमगीर राणा का उदालदान उठायेगा (निर्मल से) इस बाँदी को लेजा ।

निर्मल—उठो, वह चिलम तमाखू और आग है ।

उदयपुरी वेगम—तुम सब कम्बख्तों को सजा मिलेगी । मैं उदयपुर का नामोनिशान मिटा दूँगी ।

चाहमती—मैं चाहती थी तुम्हारे साथ भलमनसाहत से पेश आऊँ मगर तुम्हारे इस गुरुर से मेरी कोमल वृचियाँ नष्ट हो गईं । महाराणा ने बादशाह को जीता छोड़ दिया और तुम सबको भी जाने का हुक्म दिया उसका अहसान तो न मानोगी उल्टी जबान चलाओगी । जानती नहीं बादशाह की नाक पर लात भारने वाली

राजपूत लड़की से वास्ता है। जाओ बादशाह से कह देना इस बार मैं सिर्फ तस्वीर पर ही लात मार कर न रह जाऊँगी। जाओ तमाखू भरो और चली जाओ।

उदयपुरी बेगम—( रो कर ) मैं तमाखू भरना नहीं जानती।

चारुमती—( निर्मल से ) किसी बाँदी से कह कि इन्हें तमाखू भरना सिखा दे।

( दो तीन बाँदी निर्मल के इशारे से आती हैं )

बाँदी—चलो। उठाओ चिलम।

उदयपुरी बेगम—( तकदीर पर हाथ धर कर ) हाय किस्मत।

( तमाखू भरती है )

बाँदी—जाओ अब बेगम! आलमगीर से तमाम हाल कह देना।  
( बेगम जुपचाप जाती है )

चारुमती—( निर्मल से ) ला अब शाहजादी को।

( निर्मल जाती है )

चारुमती—इस औरत की बहुत तारीफ सुनी है। सुना है रंगमढ़ल में इसी की तूती बोलती है।

( शहजादी आती है )

चारुमती—( उठकर भखमली कुर्सी को ओर इशारा करके ) बैठिये शहजादी!

ज्ञेबुनिमा—( बैठ कर ) शुक्रिया, आप भी तशरीफ रखिये,  
महारानी ।

चारुमती—( बैठ कर ) शाहजादी को बहुत तकलीफ हुई होगी ।

यहाँ न दिल्ली के रंगमहल के सामान, न सुविधाएँ ।

शाहजादी—आप एक क़ैदी की इस क़दर खातिर करती हैं महारानी ! जहाँ आप हैं वहाँ क्या नहीं है ।

चारुमती—आप कैदी नहीं हैं शाहजादी हैं । कहिये, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ ।

शाहजादी—आपकी शराफत मैं नहीं भूलूँगी । कहिए आपकी कुछ खिदमत भी बजा ला सकती हूँ ।

चारुमती—बहुत कुछ । यदि आप शहनशाह को यह समझा दें कि शहनशाह अपने मुल्क का मा-बाप होता है और उनकी रियाया उनकी औलाद । चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान—उन्हें एक ही नज़र से देखना उनका धर्म है ।

शाहजादी—महारानी, सल्तनत की पेचीदगी और उलझने वालशाहों से बहुत से ऐसे काम करा देती हैं जिन्हें सब लोग नहीं समझ पाते । ताहम मैं आपके खायालात को दाद देती हूँ ।

चारुमती—( निम्न से ) शाहजादी को इत्र-पान दे ।  
( इत्र-पान देकर बिदा करती है )  
( पदों गिरता है )